



ॐ

श्रीमत्सुखसागर—भगवज्जिनहरि ~~पूज्य-परम-गुरुभ्यो~~ नमो नमः

साध्वी श्रेष्ठा श्रीमती विवेक श्री जी महाराज की

शिष्या-रत्न परम दयावती श्रीमती

श्री दया श्री जी महाराज

की परम विदुषी

शिष्या

रत्न

श्रीमती बुद्धिश्रीजी महोदया द्वारा हिंदी भाषा में

लिखित एक अतिपौराणिक




श्रीचन्द्रराजचारित्र



ॐ श्री परम गुरुभ्यो नमो नमः ॐ



ॐ अंगला चरणम् ॐ



(दोहा)

ॐ अर्हं पहिले नमूं सुखसागर भावान ।
जिन हरि पूजेश्वर नमूं वीर करें कन्याण ॥



पुण्य विवेक दयामयी जिन वाणी जयकार ।
बुद्धि शुद्धि मेरी करें वाणी-विशद-विचार ॥



महा महिमशाली हुए महाराजा श्रीचन्द्र ।
यह चरित्र उनका लिखुं पढो मुनो सानन्द ॥



साध्वीश्रेष्ठा पूज्या श्रीमती दया श्रीजी महाराज
आपकी शिष्यारत्न



श्रीचन्द्रचरित्र की सफल लेखिका
* श्रीमती बुद्धिश्रीजी महाराज *

१

आज वैशाली में काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। वहाँ के निवासी सुन्दर वस्त्रालंकारों को धारण कर उचरासंग किये शीघ्रता से नगर के बाहिर चले जा रहे हैं। चलिये ! पाठकगण ! हम भी इनके साथ चलें, और जिन पूजनीय महात्मा के दर्शन करने को ये लोग इतने उत्साह एवं उमंग में दौड़े चले जा रहे हैं, उनके दर्शन कर हम भी कृतार्थ बनें।

नगर के बाहिर ईशान कोण में विशाल उपवन है, जो नाना प्रकार के आम्र, जामून, कदम्व, नींबू, नारंगी, अनार, अमरुद आदि फल वाले वृक्षों, तथा बहुल चम्पा, फोरंट आदि पुष्प वाले तरुओं एवं मालती, चूयिका, रजनी आदि लताओं के मंडपों से नन्दनवन के साथ स्पर्धा कर

रहा है। सभी वृक्ष फलित और कुसुमित हो रहे हैं। क्योंकि आजकल ऋतुराज वसन्त का आगमन हो रहा है, और प्रातः कालीन मन्द सुगन्धमय वायु ने उसके रूप सौन्दर्य एवं मधुरिमा को द्विगुणित कर दिया है, मानों अति मधुर रसालरस में अमृत घोल दिया हो, और उधर देखिये ! उस ऊँचे आम वृक्ष पर बैठी कोयल पंचम स्वर में आलाप लेती हुई प्रकृति को मुखरित बना रही है। जरा इधर भी दृष्टिपात करिये ! पुष्पों वाले पौधों की ओर मधुकरों के समूह सुमनों की मधुर गन्ध से आकर्षित हो लपके चले जा रहे हैं।

वह सामने ऊँचा अशोक वृक्ष है, उसके अधो-भाग में तपोधन महामुनियों से घिरे हुए देवरचित स्वर्ण कमल भगवान् महावीर के प्रथम गणधर उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर प्रशस्त ललाट और शान्त मुख मुद्रा वाले भगवान् इन्द्रभूति गौतम स्वामी विराजमान हैं। अहा कैसी पवित्र मूर्ति है। त्याग और तप ही जैसे शरीर धारण किये बैठा हो। उनके पुनीत पादपत्रों के निकट ही वैशाली के गण—तन्त्राधिपति परमार्हत महाराजा चेटक नम्रभात्र से बैठे हैं। पास ही उनका परिवारवर्ग एवं नगर निवासी गण अपने २ योन्य स्थानों पर बैठे हैं।

गणधर महाराज श्री गौतम स्वामीजी ने राजा प्रजा को लक्ष्य करके धर्मदेशना देते हुए फरमाया—

देवानुप्रियो ! धर्म, दान, शील, तप और भाव रूप से चार प्रकार का होता है । उन चारों में भी इच्छागेधन रूप तपोधर्म आत्मविकास में सर्वाधिक लाभदायक माना गया है । शास्त्रों में उसके अनेक भेद बताये गये हैं । उनमें श्री “आयंविल वद्धमानतप” निकाचित कर्मों का भी नाश करने वाला है । उसका स्वरूप इस प्रकार हैः—

एगाश्चाणि आयंविलाणि इषोषा बुद्धिढमंताणि ।
पज्जन्तमच्चमतट्टाणि, जाय पुण्णं सयं तेसि ॥
इयमंविलवद्धमाणं, नामं महातपचरणं ।
चरिसाणि तव चत्तदस, मास तिगं धीस दिवसाणि ॥

अर्थात्—एक आंविल एक उपवास, दो आंविल एक उपवास, तीन आंविल एक उपवास यावत् सौ आंविल एक उपवास हो तब यह तप पूर्ण हो जाता है । यह आंविल वद्धमान तप लगातार करे तो चौदह वर्ष तीन मास और बीस दिन में पूरा होता है ।

ज च्चदयेण तइया, भविअं अरं गरुय च्चमाणतयं ।
तस्स फलेशं हउओ, सोइ त्तिरिचन्द निवो सया सुदिओ ॥

अर्थात्—ऊपर बताये हुए उस बड़े भारी वद्धमान

आयं विल तप को चन्दन नाम के एक भाग्यशाली पुत्र ने आराधन किया। उससे वह भाग्यशाली चंदन महाराज श्रीचन्द्र हुए। वे ही श्री चन्द्रराज महाराज्य के सुख भोग को पाकर उतरोत्तर मोक्ष सुख के अधिकारी हुए।

महाराजा चेटक ने बड़े विनीत भाव से श्री गौतम स्वामी जी से पूछा भगवन् !—श्रीचंद्रराज महाराजा कौन हुए ? उनके पवित्र चरित्रामृत का पान आप श्री के पुनीत मुखारविंद से करने की हमारी उत्कट अभिलाषा है। क्या आप दयालु हम पर दया करके फरमायेंगे ? इस प्रार्थना को लक्ष्य करके श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज ने श्री चंद्र चरित्र फरमाया उसका पाठक अगले अंकों में रसास्वाद लें।





२

प्राचीन काल के भारतवर्ष में कुशस्थलपुर नाम का एक बड़ाभारी सुन्दर नगर था । उसमें एक लाख गाँवों पर शासन करने वाले न्यायी प्रतापी यशस्वी श्री प्रताप सिंह नाम के महाराजा राज्य करते थे । उनके अंतःपुर में रूप-सौन्दर्य-शीलादि सद्गुणों से अप्सराओं को जीतने वाली पांच सौ दिव्य राणियाँ थीं उनमें मुखिया पट्टराणी जयश्री नाम की थीं । उनके जय, विजय, पराजय, और जयंत नाम के चार राजकुमार थे । एक करोड़ सुभट, दश लाख घोड़े, दश हजार हाथी और उतने ही रथों से सम्पन्न उनका सैन्य बल था । मंत्री, महामंत्री, सामंत आदि प्रशस्त साधनों से श्रीमान् प्रतापसिंह सुचारु ढंग से राज्य का पालन करते थे ।

एक दिन महाराजा अपनी सुविशाल राज सभा में विराजमान थे । उस समय प्रति हारी द्वारा आज्ञा-प्राप्त एक सार्थवाहने उस सभा में बड़े अदब के साथ प्रवेश किया । शिष्टाचार के बाद महाराजा ने उससे परिचय पूछा तब उसने कहा कि देव ? मैं दीपशिखा का रहने वाला हूँ । मेरा नाम वरदत्त है । व्यापार के निमित्त मेरा यहां आना हुआ है । आज आपके दर्शन पा मैं कृतार्थ हुआ हूँ ।

महाराजा प्रतापसिंह ने आगंतुक व्यापारी का स्वागत करते हुए पूछा कि क्या आप अपनी उस दीपशिखा नगरी का परिचय भी देंगे ? सार्थवाह वरदत्त ने बड़ी प्रसन्नता से कहा क्यों नहीं । देव ? ऐसे तो भारतवर्ष में कई नगर हैं परन्तु दीपशिखा का ठाठ अपूर्व है । देवाधिक सौन्दर्य को धारण करने वाले स्त्री-पुरुषों से वह इन्द्रपुरी को भी मात देती है । भगवान के मंदिरों से कोट और चुर्चो से एवं राज महलों से शोभायमान इस नगरी के समान दूसरी कोई नगरी शायद ही कहीं होगी ? जिसके बीच में चार दरवाजों वाला, कनक कलशों से मंडित श्री आदिनाथ भगवान का एक बड़ा ही रमणीय विशाल जैन मंदिर है । जो उसे तीर्थ स्थान का महत्व प्रदान करता है ।


चारों दरवाजों से प्रारम्भ होकर चारों दिशाओं में दुकानों की श्रेणियों से विराजित चार बड़ी सड़कें जगह जगह चौराहों से मेल खाती हैं ।

दीपशिखा के ईशान कोण में राज-वर्गियों के अग्नि कोण के व्यापारीयों के वायु कोण में क्षत्रियों के और नैऋत्य कोण में सब प्रजाजनों के निवास-स्थान बने हुए हैं । उसके बाहिर पत्थरों से बंधा हुआ कमलों से राज हंसों से विराजित एक बहुत बड़ा पत्र सरोवर नाम का तालाब बना हुआ है । जगह जगह मधुर स्वादिष्ट जल से पूर्ण बावड़ियां कुएँ प्याउ एवं फल फूलों से लदे पड़े पेड़ पौधों वाले हरे भरे उद्यान नगर की शोभा को चौगुनी बढ़ा रहे हैं ।

हे महाराज ! दीपशिखा की तारीफ मुंह से नहीं की जा सकती । देखने से ही पता चलता है कि कैसी है वह ? अच्छा होता यदि आप वहां पधार कर उसे देखते । मैं मानता हूँ आपके आतिथ्य-सत्कार को करने में दीपशिखा के निवासी हमें भी बड़ा आनन्द प्राप्त होगा । आप एक बार जरूर २ वहां पधारें ।

इस प्रकार व्यापारी वरदत्त द्वारा दीपशिखा की विशिष्ट तारीफ को सुन कर एवं उसके भाव पूर्ण आमंत्रण

का खयाल करके महाराजा प्रतापसिंह का चित्त वहां जाने के लिये उत्कंठित हो गया । कई दिनों के बाद उसी उत्कण्ठा से प्रेरित हो देश दर्शन के वहाने अपनी अंग रक्षक सेना को तैयार होने की आज्ञा दी । बात की बात में सारी सामग्री जुट गई । भारी उत्सव के साथ अपने सामन्तों के व योग्य मंत्रियों के साथ दीपशिखा की दिशा में महाराज ने प्रस्थान कर दिया ।



३

दिशाएँ शान्त हों । वायु अनुकूल बहता हो । आकाश निर्मल हो । पक्षी मधुर बोलते हों । ये सब भावी की शुभ सूचनायें हैं महाराजा प्रतापसिंह भावी की मंगल प्रेरणा से प्रेरित हुए, अपने लक्ष्य-दीपशिखा की तरफ अबाधगति से जा रहे थे । मार्ग में आये हुए सुरम्य वन-स्थल ने फिर भी उन्हें कुछ समय के लिये अपनी मनोरम लीला दिखाने के लिये रोक ही लिया ।

महाराज की आज्ञा से तंबू गाड दिये गये । विश्राम के लिये हाथी घोड़े खोल दिये गये । अपने २ डेरों में सभी आराम करने लगे । बढिया कीनखाव के बने तंबू में जिसमें मखमली फर्श और इरानी कालीने बिछी हुई थीं जो चारों ओर रेशमीन रस्सियों से चांदी के खूंटों में

बंथा हुआ था उसमें एक रत्नजटित सुवर्ण पलंग पर लेटे हुए महाराजा अपनी थकावट को दूर कर रहे थे । सुन्दर जरी की पोशाक पहने हाथों में सोने चांदी के दण्ड लिये द्वार-पाल मौन मुद्रा में खड़े थे । डेरे के चारों ओर हाथों में नंगी तलवारें लिये हुए सेना के चुने हुए सैनिक पहरा लगा रहे थे ।

चारों ओर का वातावरण शान्त था । कभी २ आम के पेड़ों पर बैठी हुई मदमती कोयल की कूक और मकरंद के लोभी भँवरों की गूँज कुछ क्षण के लिये शान्ति को अवश्य भंग कर देती थी ऐसे प्रसंग में कोई चार कलावान् द्वारपाल के पास आकर बोले कि हम महाराज के दर्शन चाहते हैं । उनकी इस बात से प्रेरित हो द्वारपाल ने महाराजा को सूचित किया । महाराजा प्रतापसिंह गुणियों का समादर करने वाले थे, अतः उन्हें अपने पास लाने की आज्ञा देदी । राजाज्ञा से वे चारों बड़े विनीत भाव से महाराजा के पास पहुँचे । स्वागत-शिष्टाचार के बाद महाराजा ने उनसे परिचय पूछा, तब उन कलाकारों ने अपनी ओज भरी वाणी से निवेदन किया, कि महाराज ! हम श्री गुणन्धर कलाचार्य के शिष्य हैं । आपके श्री चरणों की सेवामें रहना चाहते हैं । हम में से एक पत्नियों

की भाषा जानने वाला, दूसरा स्वामी के चित्त को पहचानने वाला, तीसरा स्त्री-पुरुषों के लक्षणों को समझने वाला और चौथा रथ को चलाने की कला में प्रवीण है ।

महाराजाने कलाकारों को बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पास रख लिया । ठीक है गुणों का आदर कहां नहीं होता ? कहा भी है—

‘गुणाः पूजा-स्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वयः’

अर्थात् सर्वत्र गुणों की ही पूजा होती है । गुणियों में वय या चिन्ह नहीं देखा जाता ।

थकावट से और भोजन आदि कार्यों से निवृत्त होकर महाराजा उस रमणीय वन-प्रदेश में स्वतंत्रता के साथ घूमते हुए प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने लगे । निर्मल जल से लहराती हुई नदी के प्रवाहों में जल क्रीड़ा का अपूर्व आनंद लेने लगे । अनेक तरह के फल फूलों से लदे हुए पेड़ों की सघन छाया में वन-विनोद करते हुए महाराजा प्रतापसिंह अपने सामंतों मंत्रियों परिचारकों के साथ वापस अपने डेरे में लौट आये ।

सूर्य अस्ताचल की ओट में छिपने लगा । आकाश लाल पीले बादलों से घिरता हुआ अन्धकार के सूँह में

जाने लगा । तारे मार्ग दिखाने लगे । चंद्रदेव भी धीरे धीरे अपनी प्रियतमा चांदनी के साथ अग्रसर हो अमृत वर्षाणा शुरू किया । लोग भी आमोद प्रमोद में प्रसन्नचित्त होते हुए, भावी मंगल की सूचनावाले स्वप्नों के सफल दर्शन के लिये निद्रा देवी की गोद में सो गये ।

रात्री बीतने लगी । पौ फटी । लाल साड़ी पहिने प्रकृति की लाडिली बेटी उषा-रानी हाथ में सोने का थाल लिये पूर्व की तरफ से आने लगी । संसार के समस्त प्राणी जगने लगे और अपनी २ भाषा में स्वागत करने लगे । मंगल वाजे बजने लगे । वैतालिक लोग स्तुति पाठ करने लगे । जय २ शब्दों से शिविर गूंज उठा । महाराजा ने भी अंगड़ाई लेते हुये उठ कर प्रातः कालीन आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो आगे प्रस्थान का आदेश दिया । वात की बात में सब तैयार हो गये और वहां से आगे को चल दिये ।

महाराजा का सारा साथ मार्ग में आन वाली नदियों में, बड़े २ पद्म सरोवरों में, मुक्ता के समान निर्मल जल वाली बावड़ियों में अपनी रुचि के अनुसार क्रीड़ा करता हुआ, रमणीय वनों-उपवनों में कमनीय लता कुंजों उद्यानों में विहार करता हुआ आगे बढ़ रहा था । रास्ते में

अनेक छोटे बड़े राजागण महाराज प्रतापसिंह के दर्शनार्थ आये, सभी ने अपनी २ योग्यता के अनुसार भेंट न्यो-छावर की। महाराज ने उन सब को स्वीकार करके उन लोगों का सम्मान सत्कार किया। अनेकों निर्धन याचकों को अनर्गल दान देते हुए अनेकों प्रकार के कौतुकों को देखते हुए वहां तक पहुँच गये जहां से दीपशिखा की दर्शनीय च्छटा दूर २ से दिखाई देती थी।





महाराजा प्रतापसिंह का शिविर दीपशिखा से थोड़ा दूर पर लग गया । प्रकृति अपने माननीय अतिथी के स्वागत में पक्षियों के मंगल गान सुना रही थी, मंद र हवा के चँवर दुला रही थी, सूर्य की सुनहरी किरणों से भिल भिलाते हुए वृक्ष की फैली हुई छाया छत्र का काम कर रही थी । पड़ोस में ही पद्म सरोवर निर्मल जल-कमल से महाराजा का पूजोपचार कर रहा था । ऐसे सुखमय समय में भोजनादि कार्यों से निवृत्त होकर महाराजा प्रतापसिंह की आभ्यन्तर सभा जुड़ी हुई थी । अधिकारी लोग यथास्थान बैठे हुए थे । चारों कलाविद्व अपनी २ कलाओं के सम्बन्ध में चमत्कारपूर्ण बटनाओं को सुना रहे थे, इतने में किसी पक्षी के बोलने की आवाज

मुनाई दी । पत्नियों के स्वर को जानने वाले कलाविद् ने उसी समय विनय के साथ निवेदन किया महाराज ! आप को निकट भविष्य में भारी प्रिय लाभ होने वाला है । कलाविद् की बात को सुनकर महाराज प्रतापसिंह अत्यन्त प्रसन्न हुए ।

इसी समय दीपशिखा के स्वामी राजा दीपचन्द्र देव अपने मुख्य सामन्तों और मन्त्रियों को साथ लेकर वहां स्वागत के लिये आ पहुँचे । महाराजा का अभिवादन करते हुए बड़े नम्र शब्दों में अभिनंदन किया और कहने लगे—

हे देव ! आज आपके शुभागमन से हमारा देश पवित्र होगया है । हमारी चिरसंचित अभिलाषायें आज पूर्ण होगई हैं । आपकी उज्ज्वल कीर्ति कथा से हमारे कान तो पवित्र थे ही, पर आज आपके पुनीत दर्शनों से हमारी आंखें भी कृतार्थता का अनुभव करने लगी हैं । आप जैसे अतिथि का स्वागत करते हुए हम अपना अहोभाग्य समझते हैं । महाराज आइयें हम लोगों पर कृपा करके अपने पदार्पण से दीपशिखा को पवित्र बनाइयें ।

राजा दीपचन्द्र देव की विनीत प्रार्थना को सुनकर

महाराजा बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने इष्ट वैद्योपदिष्टम् के न्याय से उनका अतिथि होना स्वीकार कर लिया। राजा ने बड़ी सज धज के साथ महाराज को नगर में प्रवेश कराया। दर्शनार्थी प्रजा-जनों का समुद्र उमड़ पड़ा। सारे शहर में आनन्द की लहर दौड़ गई। सवारी देखने की लालसा से ललित ललनाओं ने राजमार्ग की सारी ऊँची नीची अट्टालिकाओं को, भरोखों को अलंकृत कर दिया। नाना प्रकार के मंगल वाजे बज रहे थे।

महाराजा प्रतापसिंह कलाविज्ञों के साथ लक्षण संपन्न सफेद घोड़ों से जुते हुए सुवर्ण-सुन्दर रथ में बैठे हुए, सजे हुए मकानों, मन्दिरों, और बाजारों की शोभा को निहारते हुए जा रहे थे। चारों ओर से जयध्वनि उठ रही थी। नागरिक कन्याएँ केसरिये रंगे हुए अक्षत और सुगंधी फूलों को महाराज पर बरसा रही थीं। अकस्मात् महाराजा की दृष्टि एक उचुंग राजमहल के भरोखे से टकरा गई। उनसे वहाँ एक अत्यन्त रूपवती कमलमुखी कन्या को देखा। उनका मन वहीं उलझ गया। महाराजा जण भर के लिये समाधिस्थ योगी की तरह निरसंज्ञ होगये।

इधर चित्त के भावों को जानने वाले कलावान् ने

महाराज के मन की बात जानकर कहा कि महाराज ! आपके अनुपम पुण्योदय से आपका चिंतित बहुत जल्दी सफल होगा । उस समय सावधान होते हुए महाराज ने कहा मालूम होता है मेरे हृदय को तुम जान चुके हो । बताओ यह किसका महल है ? और यह सुमुखी कन्या कौन है ? तब उस चित्तज्ञ चतुर ने कहा कि महाराज यह आपके अनन्य भक्त राजा दीपचंद्रदेव की महारानी प्रदीपावती का नवखंडी महल है । उन्हीं की क्लृप्त रूप सरोवर में कलहंसी के समान पैदा होनेवाली सर्वाङ्गसुन्दर सूर्यवती नाम की यह उन्हीं की पुत्री है ।

राजा दीपचन्द्रदेव, इस समय महाराज को कौन से अद्भुतसमर्पणों से प्रसन्न करूं ऐसा सोच रहे हैं । इस कन्या के लिये भी वे चिंतित हैं कि कौनसे कुलीन गुणी और श्रीसंपन्न घर के साथ पाणिग्रहण कराकर कर्तव्य पालन करूं । अतः इस काम में कोई देरदार नहीं है । दूध शक्कर के समान यह सुखद संबंध होने ही वाला है आप निश्चित रहें । कलावान की मन के अनुकूल बातों को सुनकर महाराजा बहुत प्रसन्न हुए । राज मार्गों में होते हुए वहां के तीर्थ रूप भगवान श्रीऋषभदेव स्वामी के दिव्य मंदिर के दर्शन किये । भाव भरे स्तोत्रों से भगवान की

स्तुति कर महाराजा ने परमानंद पाया । इस प्रकार आगे बढ़ती हुई सवारी अपने पूर्व निर्धारित स्थान—राजा दीपचन्द्र देव के राजमहल में पहुँची ।

राजमहल में अपने आदरणीय अतिथि के सत्कार में बड़ी सुन्दर सजावट की हुई थी । अद्भुत कला-कौशल से निर्माण किये हुए गलीचे बिछे हुए थे । उन पर मखमली गद्दे तकिये लगे हुए थे । पास ही सभा भवन में रत्न जटित स्वर्ण-सिंहासन महाराजा के लिये लगाया गया था । अधिकारियों के लिये भी योग्य आसन लगे हुए थे । सवारी से उतर कर महाराजा प्रतापसिंह राजा दीपचन्द्रदेव के द्वारा सत्कारित सन्मानित होते हुए बड़े ठाठ के साथ सभा-भवन में रत्न सिंहासन पर आकर विराजमान होगये । यद्यपि महाराज सिंहासन पर विराजमान थे पर उनका मन मधुकर उस भाग्यवती राज कन्या के मुख-कमल का ध्यान कर रहा था ।

अवसर पाकर चिराज कलावान् ने राजा दीपचन्द्रदेव से कहा कि आज यह कितना सुन्दर समय है । महाराजा प्रतापसिंह के प्रताप से आज के सूर्य का आलोक संबंध कितना मुहावना प्रतीत होता है । चिराज की इस बात में अपना मानसिक संकेत पाकर राजा दीपचन्द्र ने महाराज

से प्रार्थना की कि हे महाराज ! कुदरत की अकल कला से प्रेरित हो आपके श्री चरणों का संबंध इस देश के साथ इस नगरी के साथ और इसके निवासी हम लोगों के साथ हुआ है यह एक अभूतपूर्व घटना है । अब मैं अपनी राजकुमारी सूर्यवती जो मेरी एकमात्र लाडली बेटा है, उसका संबंध मैं चाहता हूँ आपसे हो जाय । सूर्य और प्रताप के प्राकृतिक संबंध के जैसे यह संबंध संसार में प्रकाश देने वाला हो । मेरी इस भावना का श्रीमान् भी आदर करेंगे ।

राजा दीपचन्द्र की इस बात को सुन महाराजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा कि—भला ! प्राकृतिक संबंध की बात का कौन हितैषी आदर नहीं करेगा ? आपके इस स्वाभाविक सद्भाव के लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं ।

महाराजा की स्वीकृति से दोनों ओर मंगल किये गये । बाजे बजने लगे । याचकों को दान दिया गया । ज्योतिषी लोगों से मुहूर्त निश्चित किया गया । विवाह की खूब जोरों से तैयारियां होने लगी । आखिर वह शुभ घड़ी भी आ पहुँची जिसमें महाराज का विवाह राजकुमारी सूर्यवती के साथ बड़े आनन्द समारोह के साथ संपन्न हो गया । प्रजाजनों और राजकर्मचारियों ने पूरा २ योग दिया । महा-

राजाने सबको यथायोग्य दान-मान-सन्मान-सत्कार से संतुष्ट किया। इस कार्य से जहां महाराज की इच्छा पूर्ण हुई वहां राजा दीपचन्द्र के सिर से एक बड़ा भारी बोझ भी हल्का हो गया।

सामुद्रिक-अंगविद्या को जानने वाले कलावान् ने रानी सूर्यवती के सुलक्षणों को देखकर महाराजा से प्रेरणा की कि ये अद्भुत स्वरूप वाली देवी पट्टराणी बनने योग्य हैं। इनके शुभ लक्षण स्वामी के स्वसुर के पिता के पिता-महके नाना के एवं पुत्र पौत्रों के छत्रपतित्व को सूचित करते हैं। ये बड़ी योग्य होगी। इनकी कूख में चिंतामणी रत्न के समान दो पुत्रों की उत्पत्ति होगी। सामुद्रिक की इस बात को सुनकर एवं रानी सूर्यवती के प्रत्यक्ष अनुपम गुण गौरव को देखकर महाराजा ने उन्हें अपने अंतःपुर में पट्टराणी पद पर प्रतिष्ठित किया। लोको में यह बात-अहो भाग्य ! अहो रूप !! अहो सौभाग्य !!! पूर्व जन्म में बोये धर्म रूप कल्पवृक्ष के ये प्रागम्भिक फल हैं—इस प्रशंसा के रूप में खूब फैल गई।



सूर्य उदयाचल से ऊपर उठता हुआ आकाश के मध्य-प्रदेश में जा पहुंचा था । कड़ी धूप से तपी हुई जमीन लोगों के गमनागमन में बाधा पैदा करती थी । लोगों के शरीर से पसीना निकल कर गर्म हवा के झोंको को ठंडा कर देता था । ऐसे मध्याह्न में महाराजा प्रतापसिंह दीपशिखा के देवोपम वैभव संपन्न सुसराल में श्रानन्द-मौज कर रहे थे । खस की टट्टियां लगी हुई थी गुलाब जल छिड़का जा रहा था । गुलाब के इत्र की महक दूर २ तक के पदार्थों को सुवासित कर रही थी । महाराजा अपने आराम गृह में आराम कर रहे थे ।

इस प्रसङ्ग में राजा दीपचन्द्र देव अपनी भतीजी चन्द्रवती के पति राजा शुभगांग के भेजे हुए दूत को लेकर

पति के अनुचर हैं। उसी की आज्ञा से हमने यहां चोरी की है।

चोरों की इस बात को सुनकर राजा साहब को बड़ा क्रोध चढा। चोरों से एकावली हार को लेकर शहर कोतवाल को यह आदेश दिया कि इन्हें कारागार में बन्द करदो। कोतवाल ने भी "महाराज की जो आज्ञा"—कह कर उन सबको जेल भेज दिया।

जब ये समाचार पन्लीपति को मालूम हुए वह बहुत बिगड़ा ! एकदम एक बहुत बड़ी सेना लेकर उसने सिंहपुर को घेर लिया। ऐसी स्थिति में रक्षा का कोई दूसरा उपाय न देखकर मुझे दूत बना कर आपकी सेवा में भेजा है। मैंने भी आपके सामने वास्तविक स्थिति को रखकर अपना कर्त्तव्य पालन किया है। इसके आगे जैसा आप उचित समझें वैसा करें। आप हमारे शिरोमणि हैं।

इतना कह कर दूत के चुप हो जाने पर राजा दीपचन्द्रदेव ने भी उसके वचनों का समर्थन करते हुए कहा महाराज ! वास्तव में बात ऐसी ही है। इस दुष्ट पन्लीपति के आतङ्क से यह दीपशिखा भी अत्यन्त भयभीत है। इसका सारा कारोबार करीब २ ठप्प सा होगया है। लोग इच्छानुसार व्यापार नहीं कर पाते। मार्ग इतने

महाराजा की सेवा में उपस्थित हुए । परस्पर में एक दूसरे का अभिवादन करते हुए राजा दीपचन्द्र ने महाराजा से दूत का परिचय कराया । दूत ने राजकीय ढंग से महाराजा को प्रणाम किया । अपने आगमन का कारण बड़े रोचक ढंग से महाराजा की सेवा में इस प्रकार निवेदन किया:—

देव ! यहां से कुछ दूर वासुतिका नाम की एक बड़ी अटवी है । उसमें भीलों का स्वामी शूर नाम का पल्लीपति शासन करता है । आज तक कोई राजा उसे परास्त नहीं कर सका है । उसी अटवी के पश्चिम की ओर सिंहपुर नाम का एक सुन्दर नगर है । उसमें श्री शुभगांग नाम के राजा राज्य करते हैं । राजा दीपचन्द्र देव की भतीजी श्रीमती चन्द्रवतीदेवी उनकी पट्टरानी हैं ।

एक समय कुछ चोर मौका पाकर राजा के महल में घुस गये, और रानीजी के एकावली हार को चुराकर ले गये । मालूम होने पर सिपाहियों ने पद चिन्हों के आधार पर उनका पीछा किया, और कुछ दूर पर माल सहित वे पकड़ लिये गये । दण्ड के लिये राजा के सामने उनको पेश किया । राजा ने उन्हें काफी कड़ा दण्ड देने की आज्ञा दी । तरह तरह की कठोर यातनाओं से व्याकुल होकर उन चोरों ने साफ २ कह दिया कि हम शूरपल्ली

दुर्गम बन गये हैं, कि यात्री उधर से निकलने का साहस नहीं करते ।

इस प्रकार दोनों की बातें सुनकर महाराजा प्रतापसिंह को आंखें लाल हो गईं । भौंहें धनुष की तरह तन गईं । भुजायें फडकने लगी और अपने दांतों से औंठ काटते हुए वे बोले—राजन् ! दुष्ट लोग बिना किसी घोर प्रतिक्रिया के शान्त नहीं होते अतः इस जंगली भील को आगे बढ़ने से पहिले पील देना चाहिये । रण भेरी बजाने की आज्ञा दे दीजियें मेरी ओर आपकी सेनाओं को आक्रमण के लिये तैयार कीजियें ।

महाराजा की आज्ञा पाते ही राजा दीपचन्द्र ने प्रधान सेनापतियों को अपनी २ सेना सजाने के लिये आदेश दिया । वस फिर क्या था ? रणभेरी बज उठी रण बांकुरे सिपाही अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसजित सैनिक वेश में नियत स्थान पर एकत्रित होने लगे । सूर्य की रोशनी में उनके कवच और शस्त्र चमाचम चमक रहे थे । हाथियों की चिंघाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट के साथ सुभटों की सिंह गर्जना से दशों दिशाएँ मुखरित हो उठी । थोड़ी ही देर में चतुरंगिणी फौजें प्रयाण के आदेश की प्रतीक्षा में तैयार हो गईं । विशाल काय तोपें अपनी

भयानक मूर्तियों से दर्शकों के दिल को दहला देती थीं ।

इधर महाराजा प्रतापसिंह और राजा दीपचन्द्र भी अपने सैनिक वेश में वहां आ पहुँचे । उनके सन्मान में तोपियों ने तोपें दाग कर दोनों का स्वागत किया । सैनिकों ने सैनिक ढंग से दोनों का अभिवादन किया । महाराज की आज्ञा पाते ही सेना ने अवाधगति से सिंहपुर की तरफ कूच कर दिया । सिंहपुर के समीप एक सुन्दर नदी के किनारे शत्रुओं की चोट बचाकर डेरे डाल दिये गये ।

भील राजा शूर के गुप्तचरों ने इन समाचारों से अपने स्वामी को परिचित किया । उसने भी अपने बूढ़े भील सरदारों को एकत्रित करके पूछा कि क्या करना चाहिये ? उन्होंने कहा बलवान शत्रु के सामने से भाग जाना ही उचित होता है । भील राज शूर को उनकी यह सलाह पसंद न आई । वह स्वयं एक वीर योद्धा था । कायरता पूर्ण भाग जाने की अपेक्षा शत्रु से दो दो हाथ करके रणभूमि में सदा के लिये सो जाना ठीक समझता था । उसने अपने सैनिकों को अपना निर्णय सुना दिया । स्वामी की उत्तेजनात्मक प्रेरणा से प्रेरित हो सभी लड़ने को तैयार हो गये । श्रेष्ठ गंधहाथी की पीठ पर चढा हुआ

भीलराज शूर अपनी शबर सेना के साथ बड़े वेग से समर भूमी में जा पहुँचा ।

इधर महाराजा प्रतापसिंह भी अपने शत्रु को परास्त करने के लिये रण-भूमी में आ डटे । ज्योंही उन्होंने अपनी फौज को देखा तब उन्हें मालूम हुआ कि सेना के सारे हाथी मद रहित निद्राग्रस्त से हो रहे हैं । आश्चर्य में डूबे महाराज ने राजा दीपचन्द्र से इसका कारण पूछा कि यह क्या बात है ? उनने कहा देव ! भीलराजा शूर का हाथी- गंध हाथी है जिसकी गंध से ये सारे हाथी मद रहित हो गये हैं । महाराजा इस बात को सुनकर कर्तव्य मूढ से हो गये ।

इसी समय रथ विद्या में निपुण कलावान् ने महाराज से अर्ज की, आप रथ पर सवार होकर मेरी भी कला देखियें । उसकी इस बात को सुनकर महाराजा बहुत प्रसन्न हुए और अपना दिव्य धनुष लेकर रथ पर सवार हो गये । अब क्या था ! रण का बाजा बज उठा । युद्ध प्रारम्भ हो गया । रथियों से रथी, पैदलों से पैदल और सवारों से सवार भिड़ गये । तोपें भी भीषण आग उगलने लगी । जिस हाथी के गोला लग जाता था वह वहीं ढेर हो जाता था । घोड़े सवार सहित घायल हो जाते थे और

पैदलों से तो मैदान का मैदान साफ हो जाता था ।

सारथी ने महाराजा के रथ को शत्रु की ओर बढ़ाया । महाराजा की बाण वर्षा से परेशान हुआ भीलराजा शूर भागने की चेष्टा में हाथी को प्रेरणा करने लगा पर सारथी ने रथ को उसके चारों ओर इस प्रकार घुमाया कि वह भाग न सका । दोनों वीरों में घोर घमासान युद्ध होता रहा । दोनों एक दूसरे को हराने की चेष्टा में थे, पर अन्त में महाराज ने उसे अपने बाणों से चत-वित्त करके हाथी पर से गिरा दिया और जीवित पकड़ कर उसे लकड़ी के पींजड़े में डाल दिया । उसके जयकलश नाम के गंधहाथी को अपने वश में करके महाराजा ने दूसरे भील सामन्तों को भी काबु में किया । विना नायक की भील सेनायें हताश होकर भाग गईं ।

चारों ओर विजय दुंदुभियाँ बजने लगीं । जय ध्वनि सुनाई देने लगी घेरा टूटने पर शुभगांग राजा ने भी नगर के बाहर आकर महाराजा को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया । महाराजा ने भी उन्हें अनेक प्रकार से सन्मानित करके अपनी उदारता का परिचय दिया ।

बाद में उस भीलराजा शूर को अपने साथ लेकर

महाराज ने उसे वासुतिका अटवी में प्रवेश किया। उस पल्ली पर अपना आधिपत्य जमा कर एक मुड़ा (१६मण) मोती और छप्पन करोड़ सोना मोहरें दण्ड रूप में प्राप्त की। शेष सब धन राजा दीपचन्द्र और राजा शुभगांग को दे दिया। पल्ली से प्राप्त बहु मूल्य वस्तुएँ कपड़े और धन सैनिकों में भी यथा योग्य रूप से वितरित किया गया। इस प्रकार विजय-वरमाला पहन कर महाराजा प्रतापसिंह अपने साथियों के साथ बहुत प्रसन्न हुए।

महाराजा ने अपने सभासदों के सामने उन चार कलाविज्ञों की भूरि-२ प्रशंसा की। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए महाराज ने फरमाया—आप लोगों की कला के कारण ही हमें कन्या का लाभ और विजय प्राप्त हुई है। आप लोग अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गये हैं। हम आपकी इस सेवा को सदा काल याद रखेंगे। इस प्रकार कृतज्ञता का परिचय देते हुए महाराजा ने उन चारों को बहुमूल्य पुरस्कारों से पुरस्कृत किये।

उस अटवी को महाराजा ने साफ करवा दी। वहीं रानी सूर्यवती के नाम से सूर्यपुर नाम का एक सुन्दर नगर बसा दिया। दोनों राजाओं को बड़े-२ भूखण्ड भेंट किये। राजा शुभगांग के आतिथ्य को स्वीकार करते

हुए महाराजा सिंहपुर पधारे । वहां थोड़े दिन विश्राम करके शुभगांग से विदा लेकर राजा दीपचन्द्र देव के साथ पुनः दीपशिखा नगरी में महाराजा लौट आये ।

दीपशिखा में विजयी योद्धा के वेप में प्रवेश करते हुए महाराजा का भारी स्वागत हुआ । शूर दस्यु के संताप की समाप्ति से सब की अन्तरात्मा हृदय से आशीर्वाद दे रही थी । पुष्पवृष्टि और जयनादों के बीच महाराज अपने निवास स्थान पर पहुँचे । महारानी सूर्य-वती ने मांगलिक वस्तुओं से भरे थाल को लेकर द्वार पर महाराज को बधाये । विशाल भाल पर तिलक किया । अक्षतों के स्थान पर मोती चिपकाये । आरती उतार कर महाराजा को महल में प्रवेश कराया । दान-मान-सन्मान से संतुष्ट हुई प्रजा ने अपने जीवन को उस रोज धन्य माना ।





मनुष्य के जीवन में जननी और जन्म भूमि की महत्ता अवरुणीय है । जन्म भूमि का आकर्षण हृदय में इतना अधिक हुआ करता है इसका प्रधान कारण है वहाँ अपने आदमी रहते हैं । अपनों से रहित देश काणीपीठ कहा जाता । इसी लिये जन्म भूमि के मुकाबले स्वर्ग कमजोर माना जाता है । जैसे कि—

जनम भोम री जोड़, बुधिया कोइ न कर सके ॥
सुरगां भारी खोड़, उठे न कोइ आपणो ॥

उसी जन्म भूमि की याद महाराजा को भी आन लगी । अपने श्वसुर राजा दीपचन्द्र देव से कुशस्थल को लौटने की इच्छा प्रकट की । राजा ने कुछ दिन और

ठहरने का अनुरोध किया । मगर उन्होंने अधिक ठहरने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए राजा दीपचन्द्र के प्रति अनुपम आदर की भावना व्यक्त की ।

राजा ने अपने सामर्थ्यानुसार अपनी पुत्री को हाथी घोड़े दास दासियां सोने और रत्नों के आभूषण, बहु-मूल्य पोशाकें आदि देने योग्य वस्तुओं को दहेज में देकर सैन्द्री आदि सखियों के साथ उसे विदा किया । राजा रानी राज्य के उच्च कर्मचारी और प्रियजन सभी अपनी राजकुमारी महारानी सूर्यवती को पहुँचाने के लिये साथ चले । शास्त्र वचन और लौकिक रिवाज के अनुसार पद्म सरोवर के आने पर सब वहां ठहर गये ।

यथास्थान पड़ाव पड़ गया । सभी अपने-अपने काम में लग गये । महारानी सूर्यवती अपने माता-पिता से दिल् खोल कर मिली । अपने प्रियजनों को रुलाती हुई स्वयं आंसू भर लाई । सबने उसे अंतःकरण से अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दिये । उसने अपने स्नेहमय हृदय को कड़ा करके अपने माता-पिता से अस्फुट स्वर में विदा मांगी ।

माता-पिता उस अपनी लाडली बेटी की वियोग व्यथा से विह्वल हो उठे । उन्होंने जिसे आज तक प्यार से पाला पोसा था, जिसे देखकर वे फूले न समाते थे,

जिस पर वे प्राणों को भी न्योझावर करने में नहीं हिचकिचाते थे, वही आज उनके स्नेह बन्धन को ढीला कर उनसे प्रथमवार विदा हो रही थी ।

दृश्य बड़ा करुणोत्पादक था । सत्रकी आंखों में आंसू थे । सत्रकी वाणी मारे सिसकियों के मूक हो गई थी । राज कुमारी माता-पिता के चरणों का अपने अश्रूजल से प्रक्षालन कर रही थी । उसके सिर के बाल माता पिता के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं से गीले हो चुके थे । आखिर राजा ने अपने अन्तस्तल को कड़ा करके राजकुमारी के सिर पर हाथ रखते हुए कुलीन स्त्रियों के योग्य शिक्षा देते हुए बोले बेटी !

शूश्रूषस्व गुरुन्कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नी-जने,
भतुर्विप्रकृतापि रोपणतया मास्म प्रतीपं गमः ।
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येस्वन्नुत्सेकिनी,
यान्त्येवं गृहणीपदं युवतयो चामाः कुलस्याधयः ॥

गुरुजनों की सेवा करना । सौतेलों के साथ प्रियसखियों
॥ सा व्यवहार करना । कदाचित् पति द्वारा तिरस्कृत
होने पर ईर्ष्या से कभी उनके विपरीत मत चलना । परि-
जनों में चतुराई से बरतना साथ ही सेवकों पर अनुग्रह
रखना । अपने बड़े भाग्य पर कभी गर्व मत करना । ऐसा

करने वाली स्त्रियाँ ही गृहिणी पद के अधिकार को प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाली दूसरी स्त्रियाँ उभय कुल को लजानेवाली होती हैं।

बेटी ! मेरे इस उपदेश को हृदय में सदा धारण रखना। अपने अच्छे आचरणों से उभय कुल की कीर्ति को बढ़ाना। कभी २ हमको भी अपना स्वजन जानकर अवश्य याद करती रहना।

महाराजा प्रतापसिंह की तरफ मुख करके उन्हें भी अपनी बेटी की भोलावण बड़े भाव भरे शब्दों में की। इस प्रकार स्नेह की सरिता बहाते हुए राजा दीपचन्द्र अपनी बेटी को विदा दे दीपशिखा की ओर परिवार के साथ लोट पड़े। वे सर्वस्व खोये हुए व्यक्ति की तरह वेसुध चले जाते थे। चलते २ रुक गये, घूमकर पीछे की ओर देखा सूर्यवती आंखों से ओझल हो चुकी थी। वे लम्बी और गरम सांस लेते हुए बोले :—

अर्थोहि कन्या परकीय एव
तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः।
जातो ममायं विसदः प्रकामं
प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा ॥

निश्चय ही कन्या-धन पराया-धन है। आज उसे अपने पति के घर भेज कर धरोहर वापस लौटा देनेवाले

के जैसे मेरी अन्तरात्मा अत्यन्त प्रसन्न और बौद्ध से हल्की हो गई है ।


महाराजा प्रतापसिंह महारानी सूर्यवती को साथ लेकर कुशस्थल की ओर चल पड़े । थोड़े ही दिनों में कुशस्थल के बाहरी उपवन में जा पहुँचे उनके आगमन की खुशी में सारा शहर तरह तरह से सजाया गया । भारी उत्सव मनाया गया । महाराज शुभ मुहूर्त में नई महारानी के साथ नगर में प्रविष्ट हुए । जनता ने उनका हृदय से स्वागत किया । महाराज नगर के मुख्य राज-मार्ग से होकर अपने विशाल महल में जा पहुँचे । वहाँ एक बड़ा भारी दरवार लग्न और राजकीय रीत रिवाज संपन्न होने पर सब अपने २ घर चले गये ।

राज-काज में फिर पहले की ही तरह महाराज व्यस्त हो गये । उनकी प्रशस्त न्याय नीति से सारी प्रजा पहले भी अधिक उन्हें चाहने लगी । अपने प्राचीन पुण्यों के प्रभाव से माननीय भोग भोगते हुए महाराज बड़ी ही निश्चिन्तता से राज-काज चलाने लगे । सच है पुण्य से क्या नहीं होता ?

सुकुल जन्म-विभूतिरनेकधा,
प्रिय-समागम-सौख्य-परम्परा ।

नृपकुले गुरुता विमलं यशो,
भवति पुण्य-तरोः फलमीदृशम् ॥

उच्चकुल में उत्पत्ति, अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य, प्रिय-जनों का समागम, निरन्तर रहने वाला सुख, राज-कुल में गौरव और निर्मल यश ये सब पुण्य रूपी वृक्ष के ही लो-फल हैं ।





सुखी-दुःखी भोगी-योगी रोगी-निरोगी धनी-निर्धन
ऐसे स्त्री-पुरुषों की टोलियां की टोलियां जिसकी छाती
पर पग रखते हुए जाती हैं । जो मूक भाव से सबको अग्र-
सर होने के लिये मार्ग देती है ऐसी कुशस्थलपुर की सड़क
पर उत्सुक आदमियों का झुण्ड जा रहा था । महाराजा
प्रतापसिंह के चारों राजकुमार अपने बड़े भाई जयकुमार
के साथ अपने महल के भरोखे में इच्छानुसार क्रीड़ा कर
रहे थे । उन्होंने सेवकों से पूछा आज इतनी भीड़ क्यों
इकट्ठी हो रही है । सेवकों ने कहा स्वामिन् ! इन दिनों
नगर में एक भारी निमित्त जाननेवाला परिदत आया
हुआ है । उसी के आस-पास आदमियों का यह समूह
जा रहा है ।

कुतूहलप्रिय राज-कुमारों ने अपने सिपाहियों को भेज कर उस निमित्तज्ञ को अपने पास बुलाया । पारस्परिक स्वागत विधि होने पर निमित्तज्ञ से पूछा— आपका क्या परिचय है ? नैमित्तिक ने कहा मेरा परिचय एक कहानी रूप है । आप लोग सुनना ही चाहते हैं तो सुनियें ।

यहां से पश्चिम में राजा शुभांगदेव की राजधानी सिंहपुर नाम का नगर है । उसमें श्रीधर नाम का एक धनी ज्योतिषी था । उसके नागिला नाम की स्त्री थी । उनके धरण नाम का पुत्र था । वहीं प्रियंकर नाम का एक जैन ज्योतिषी रहता था । उसके शीलवती नाम की स्त्री और श्री देवी नाम की पुत्री थी । वह जैन धर्म में अनुरागिणी और परम रूप लावण्य शालिनी थी ।

श्रीधर की मांगणी से प्रियंकर ने बड़े ठाठ के साथ सुमुहूर्त्त में धरण के साथ श्रीदेवी का विवाह कर दिया । प्रियंकर ने शक्त्यनुसार दहेज और कुलोचित शिक्षा देकर श्रीदेवी को ससुराल में विदा की ।

श्रीदेवी अपने नये संसार—ससुराल में लज्जा रखती हुई लंगन से सारे काम काज करने लगी । फुरसत से धार्मिक कृत्यों में भी उपयोग देने लगी । मित और मधुर भाषण से उसने अपनी ओर से ससुराल वालों को प्रसन्न

करने में कोई क्रोर कसर नहीं रखी, पर उसकी सासु नागिला क्रोधी, कुटिल और निष्ठुर स्वभाव वाली थी। इसलिये वह कुँए पर रहंट के निरंतर चलते रहने पर भी खट २ करने वाली लकड़ी की तरह खट खट किया करती थी। अकारण ही डांटना डपटना, बुरा भला कहना उसका नित्य कर्म होगया था। सच है बहुश्रों का जीवन बड़ा ही कष्टमय होता है :—

शय्योत्पाटन-गेहमार्जन-पयः-पावित्र्य-चुल्ली-क्रिया,
स्थाली-क्षालन-धान्य-पेषण, भिदा गोदोह-तन्मन्थने ।
डिम्भानां परिवेषणादि च तथा पात्रादि-शौच-क्रिया,
श्वश्रूभृत् —ननान्द—देवृविनयः कष्टं चधूर्जीवति ॥

शय्या उठाना, घर में झाडु लगाना, पानी भरना, चौका लगाना, रसोई बनाना, थालियां धोना, धान पीसन गायें दोहना, विलोणा करना, बच्चोंको खिलाना पिलाना वरतन मांजना, और सास पति ननंद एवं देवर आदि की सेवा तथा आज्ञा का पालन करना। इन कामों से ठीक बात है कि बेचारी बहुएँ बड़े कष्ट से संसार में जीते रहती हैं।

जिनेश्वर भगवान के वचनों में श्रद्धा रखने वाली सास के अत्याचारों से पीड़ित होने पर भी माता-पिता या पड़ोसी उसको कुशल पूछते तो वह यही कहती थी कि मैं सब तरह से सुखी हूँ।

इधर उसकी सास उसे दुःख देने पर ही उतारू हो चुकी थी । वह घर की नई पुरानी टूटी फूटी वस्तुएँ अपने पुत्र को दिखाती और वह के विरुद्ध कान भर २ उसे क्रोधित करती और रुष्ट हुआ वह भी उसे पीटता एवं तरह २ के दुःख दिया करता था । इतना होने पर भी वह कुलीन वह दूसरों को दोष न देती हुई अपने पूर्व कर्मों के फल को ही इसका कारण मानती थी ।

इस प्रकार उसी दशा में रहते उसके कई दिन बीत गये । एक समय रात्री में स्वसुर की अँगुठी घर में कहीं गिर गई । किसी को पता तक न चला । प्रातःकाल जब श्री देवी ने घर में बुहारा लगा कर कूड़े करकट को एक स्थान पर जमा किया तो उसमें वह अँगुठी मिली, और उसको उसने अन्दर के कोठे में रखदी । इसके बाद वह गोबर इकट्ठा करने पशुओं के बाड़े में चली गई ।

“प्रभाते कर-दर्शनम्” के नियम से स्वसुर ने दोनों हाथों को मुख पर फेर कर रेखा दर्शन करते समय उंगली में अँगुठी न देख घबड़ाई हुई अवाज से कहा कि क्या करूँ ? मेरी तो अँगुठी कहीं गिर पड़ी, क्या किसी ने देखी है ? यह सुन सब एक दूसरे को आपस में पूछने लगे, इधर उधर खोजने लगे पर अँगुठी का पता न चला तब वे सब निराश होकर बोले कि वह तो गई अब

मिलने की नहीं। यह बात बाड़े में स्थित वहू के कान में सुनाई दी, और उसने शीघ्र ही आकर अंगुठी को अन्दर के कोठे से निकाल कर समुद्र के हाथ में रख दी। सब प्रसन्न हुए।

नागिला को पता चला तब उसे एक ओर छिद्र मिल गया। वह चिल्लाकर बोली अरे ! जिस घर की वहाँ ही चोर हों वह घर कहां तक टिक सकता है। ऐसे तो एकर करके सारी वस्तुएँ चली जायेंगी। अरे लोगों ! इसके आचरणों को तो देखो ऐसी वहू तो मुझे किसी के घरमें दिखाई नहीं देती। अरे इसकी धीठाई तो देखो यह अपने पूज्य समुद्र से भी नहीं चुकी। इसने उनकी अंगुठी भी चुरा ली। क्या करूं ! कहां जाऊँ !! मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। इस राक्षसी ने मेरा सारा घर चौपट कर दिया। यदि मुझे यह पहले से ही ज्ञात होता तो मैं इसके साथ अपने बेटे का विवाह ही न करती।

जब धरण घर लौटा तो मां-नागिला ने उसे खूब वहकाया। सारी बात इस प्रकार कही कि उसका क्रोध भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे उस सती स्त्री को पीटना शुरू कर दिया। डंडे की चोट उसके सिर में बड़े जोर से लगी। सिर फट गया। फिर भी वह श्रीदेवी

समभाव को धारण करती हुई 'णमो अरिहंताणं'—मंत्रको जपती हुई पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी ।

यह बात हवा की तरह सारे शहर में फैल गई । किसी ने उसके मां बाप से भी कह दिया । वे भी सिर पीटते रोते चिल्लाते वहां आ पहुंचे । भारी विलाप करने लगे । श्रीदेवी के बूढ़े मां बाप को रोते विलखते देख कर पति धरण की आंखों में भी आंसू आ गये । वह मन ही मन अपने किये पर पछता रहा था । वह भी दुःख के वेग से विलाप करने लगा ।

अरे ! बिना विचारे क्रोध के वश हो मैंने यह कैसा अनर्थ कर दिया । कान के कच्चे मनुष्यों की यही दशा होती है । हे प्रिये ! तूने कभी मेरी सेवा से मुख नहीं मोड़ा । कठोर से कठोर आज्ञा को सहर्ष पालन किया । यह अनर्थ मेरी अज्ञानता से हो गया है । तेरा कोई दोष नहीं है । तू सदा शांति-युक्त और क्षमामयी रही है । यह सब मेरा ही दोष है । अरे मुझ अपराधी के अपराध को क्षमा करदे । धरण की हालत बड़ी शोक पूर्ण थी ।

इधर लोगों ने नागिला को बहुतेरा धिक्कारा और उसकी तीव्र निंदा की । लोग बोले—यह बड़ी दुष्टा है । श्रीदेवी को इसने बहुतेरा दुःख दिया है । यह इसकी जान

लेकर ही संतुष्ट हुई। विधाता ने ठीक किया जो श्रीदेवी को इस दुष्टा के फंदे से उठा लिया, क्योंकि उसके दुःखों की हद हो चुकी थी।

लोगों में इस प्रकार बातें हो रही थी कि कोई वैद्य उसके भाग्य से प्रेरा हुआ उधर से आ निकला। उसने मंत्रौषधि से अधिवासित जल उस पर कई बार सिंचन किया। कुछ होश आया। फिर भी खतरा दूर न होता हुआ देख वैद्य ने भ्रमोपचार करने की मां वाप को सलाह दी। मां वाप भी उसे अपने घर ले गये।

श्री देवी ने भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखते हुए आराधना-आलोचना की। चौरासी लाख जीवायोनि से खमतखामणा किये। पुण्य की अनुमोदना की। चतुर्विध संघ ४ ज्ञान मन्दिर ५ जीर्णोद्धार ६ और नये मंदिर ७, रूप सात क्षेत्रों में धन का व्यय किया। संघ मक्ति, नवकार मंत्र का जाप, तपस्या की भावना— मारे जाने वाले प्राणियों को अनुकम्पा से छुड़ाना, ममत्व का त्याग, सम्यक्त्व, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों की उच्चारण विधि आदि सुकृत साधना करती हुई पण्डित मरण से सद्गति को प्राप्त हुई।

श्रीदेवी के मां बाप बहुत दिन तक शोक ग्रस्त रहे ।
आखिर धर्म-ध्यान के आलंबन से अपने विचारों को स्थिर
किया । सारे शहर में इस चर्चा के फैल जाने से श्रीधर
को बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया । धरणा भी
पत्नी वियोग से दुःखी रहने लगा ।





क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों कषायों के चुंगल में फँसा हुआ जीव क्या २ अनर्थ नहीं कर देता ? सब कुछ कर देता है । इसीलिए ज्ञानी विवेकी लोग कषायों से बचते रहते हैं । कषाय ही जीवन को विडंबना पूर्ण बना देते हैं । श्रीधर नागिला और धरण इन्हीं कषायों के चक्कर में पड़कर दुःख पाते हुए अपनी जन्म भूमि को छोड़ने को मजबूर हुए और किसी नये नगर में जा बसे ।

नये नगर में रहते हुए श्रीधर का परिचय बढ़ा । व्यवसाय भी उन्नत हुआ । लक्ष्मी देवताकी भी कुछ कृपा हुई । इस हालत में धरण की सादी करने का विचार हुआ । इसी विचार से प्रेरित होकर भद्रंकर नाम के एक ज्योतिषी की लड़की उमादेवी के साथ बात चीत हुई ।

शुभ मुहूर्त में धरण ने उमादेवी का पाणिग्रहण किया ।

उमा बड़ी ही उद्धत क्रोधी और सबसे अप्रिय भाषण करने वाली थी । घर के काम काज में कभी हाथ नहीं बँटाती थी, और पद २ में घर के मर्म को प्रकाशित करती रहती थी । घर का सारा काम काज सासु-नागिला को ही करना पड़ता था । शेरनी के सामने बकरी की सी दशा उमा के सामने नागिला की थी । उसी के दुःख में दुःखी रहते हुए श्रीधर और नागिला कालान्तर में काल कवलित हो गये । उमा की कपट लीला में धरण भी चौंधिया गया । सब तरह से उसके हृदय में इतना दृढ़ विश्वास पैदा कर दिया कि कहीं संदेह नाम मात्र को भी नहीं रहा । थोड़े ही दिनों में वह उमा का भावुक बन गया ।

एक दिन सोमदेव नाम के अपने मित्र के सामने धरण ने अपनी स्त्री उमा की बड़ी तारीफ़ की । उसने कहा भाई तुम जो कहते हो ठीक हो सकता है, परन्तु नीति-शास्त्र में कहा है कि गुरुओं की स्तुति प्रत्यक्ष में, मित्र-बन्धुओं की परोक्ष में, कर्मचारियों की और नौकरों की काम हो जाने पर, स्त्रियों की उनके मरने के बाद में और पुत्रों की तो कभी करनी ही नहीं चाहिये ? कहां तक कहूं । स्त्रियाँ तलवार की धार से भी तेज, हिरण के सींग से भी अधिक टेढ़ी, नदी की तरह नीच गामिनी और

वज्र के समान कठोर हृदय वाली होती हैं। स्त्रियों का मन कहीं होता है, वचन कहीं होता है, और क्रिया में कुछ और ही भाव होते हैं। ऐसी हालत में इनके स्नेह और भोलेपन की क्या व्याख्या करते हो ?

यह क्या कहते हो ? ऐसा धरणा से पूछे जाने पर मित्र ने कहा ठीक कहता हूँ। तुम बहुत सीधे हो इतना एक दम सीधा होना भी एक प्रकार से अपराध है। तुम सुनना चाहते हो लो सुनों—तुम्हारी स्त्री उमा कभी घर पर नहीं रहती है। इसने बाहरी प्रेम से तुम्हें वश कर लिया है। उस मायाविनी का तुम से सच्चा स्नेह नहीं है। मेरी बात का विश्वास न हो तो बाहर गांव जाने के बहाने से परीक्षा कर लो।

मित्र की बात से शंकाशील धरणा ने उमा को समझा बुझा कर बाहर गांव जाने की आज्ञा ली। स्त्री आज्ञा से वह अपने मित्र के घर चला गया। दिन भर वहीं ठहरा। साम को मित्र के कहने से चोर की तरह अपने घर में जा छिपा। उस समय उमा बाहर गई हुई थी।

कुछ ही समय के बाद उमा लौट आई। प्रसन्नता से पक्वान्न—रसवती तैयार की। इतने में कोई मनुष्य

गुप चुप उसके घर आया । छिपे हुए धरण ने विस्फारित नेत्रों से उसे देखा । मन में कहने लगा अरे ! यह पापी क्षत्रिय रणधीर मेरे घर पर कैसे आया ?

उमा ने घर का द्वार बंद कर रणधीर को प्यार से स्नान कराया । बढिया तेल फुलेल लगाये । वस्त्र पहिनाये चाद दोनों ने तैयार रसवती का रसास्वाद लिया । खा पी कर प्रसन्न हुए । भारी प्रेम और उमंगसे दोनों नेरमण किया । रति खेद से खिन्न दोनों को निद्रा आगई । दोनों को सोया हुआ देख कर धरण क्रोधित होकर नीचे आया । विचारने लगा दोनों को मारना ठीक नहीं । क्यों कि स्त्री को मारने का पाप तो मुझे पहिले ही लग चुका है । ऐसा विचार कर उसने कोतवाल के पुत्र रणधीर को तलवार से मार दिया । स्वयं किंवाड़ खोल कर वहीं आगे होने वाली घटना को देखने के लिये ठहर गया ।

इधर रणधीर के खून से लथपथ होने पर उमा जाग उठी । अरे ! यह क्या हुआ ? किसी ने इसे मार डाला । ऐसा कहती हुई वह द्वार की ओर देखती है तो द्वार खुला पड़ा था । उसने निश्चय किया कि किसी दुश्मन ने मेरे प्यारे को मार डाला है । उसने तत्काल शोच विचार कर उसमूर्दे और को तलवार को एक मजबूत चादरे में बांध कर

गठरी सिर पर लादे घर से निकल पड़ी धरणा भी पछे २ हो लिया । शहर के बाहर किसी शून्य कूप में उस लाश को फैंक कर जल्दी ही घर लौट आई ।

घर के बाहर खड़े धरणा ने अपने मनमें उमा के इस घृष्टता-पूर्ण कुकर्म की जी भर कर निन्दा की । इधर उमा ने घरमें जाकर जल्दी से पक्वान्न आदि को एक बड़े वर्तन में भर कर बाहर निकली, और घर के द्वार मजबूती से बंद कर उस वर्तन को सिर पर उठाये चल पड़ी ।

धरणा ने गुप्त रीति से उसका पीछा किया जल-मार्ग से नगर की सीमा को पार करके श्मशान में होती हुई, वह एक पहाड की गुफा में जा घुसी । उस गुफा में एक बहुत बड़ा सुन्दर विशाल भवन था । स्थान २ पर रखी हुई दीपमालाओं से वह जगमगा रहा था । उसके मध्य भाग में एक सुन्दर सिंहासन पर जोगणियों के समूह से घिरी हुई खर्परा नाम की प्रमुख योगिनी विराजमान थी ।

उमा को देख जोगणियाँ मारे प्रसन्नता के उछल पड़ी और उमा आ गई इस प्रकार दर्पध्वनि करने लगी । उमाने अपने साथ लाई हुई मिठाइयों द्वारा उन सब को संतुष्ट किया, और फिर सादर नमस्कार करके उस प्रधान योगिनी के चरणों में बैठ गई । खर्परा ने इधर उधर की बात चीत के

वाद उमा से पूछा कि क्या तुमने उस हमारे दिये मंत्र की साधना करली ? उमाने उत्तर देते हुए कहा स्वामिनि ? मन्त्र आपकी कृपा से सिद्ध हो चुका है । अब मैं तरुत्पत पेड से उडने की-विद्या चाहती हूँ अगर आप देंगी तो बड़ी कृपा होगी ।

खर्परा ने कहा, यदि तेरी यह इच्छा है तो तू मुझे महावली दे । यह सुन उमाने कहा कि काली चौदस को मैं अपने पति की बली आपको दूंगी । ठीक कह कर योगिनी ने उसे विदा की । रवाना होती हुई उसने योगिनी से वशी करण चूरण मांगा । योगिनी ने पूछा कि पहले दिये का क्या हुआ ? उमाने कहा माँ ? उससे एक आदमी को मैंने वश किया था, पर वह विचारा आज मर गया । इसी लिये मुझे उस वश्य चूर्ण की आवश्यकता हुई है । उस की याचना से खर्परा ने उसे वैसा ही चूरण दिया। वह खर्परा को नमस्कार कर, वहाँ से चल कर उसी मार्ग से अपने घर लौट आई ।

इधर धरण भी उसके इस प्रकार के चरित्र को देख कर और जोगणियों की बातें सुन कर दिल में बहुत डरा उसके रोम २ खड़े हो गये । कलेजा धक् धक् करने लगा । उसके आश्चर्य की सीमा न रही । उसके हृदय में कभी

वीर रसका कभी वीभत्सरस का संचार होने लगा । हास्य और श्रृङ्गार रस तो लुप्त प्राय होगये । परम सुखदायी शान्तरसकी तरफ झुकते हुए उसने अयनी स्त्री के प्रति घृणा दिखाते हुए कहा कि धिक्कार है इस के कर्मों पर, लानत है इस के विचारों पर, और थू है इस के दुराचारों पर । बली देने के लिये यदि यह वश्य चूर्ण से मुझे वश कर लेंगी तो सांक्रल से बंधी गाय की तरह मैं अन्यत्र कैसे जा सकूंगा ?

इस प्रकार विचार कर वह वहां से सीधा मित्र के घर पहुँचा । मित्र के पूछने पर जो घटनायें घटी थी वे सभी सचाई के साथ उसने कह सुनाई । मित्र ने कहा—हेमित्र ? दुःखः, भय, निन्दा से क्या है ? स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल होती हैं । कहा भी है—

रवि चरिय गह चरियं, ताराचरियं च राहु चरियंच ।
जाणंति बुद्धिमन्ता महिला चरियं न याणंति ॥
जल मञ्जे मच्छपयं, आकासे पंखियाण पयपंती ।
महिलाण हियय मग्गो, तिन्हिवि लोए न दीसंति ॥

सूर्य-ग्रहोंके-तारा के और राहु के चार को पण्डित लोग जानते हैं पर स्त्रियों को नहीं जान सकते । पानीमें मछलियों के पदचिन्ह, आकाश में पंखियों के पदचिन्ह

और कुलटा स्त्रियों के हृदय का मार्ग ये तीनों लोक में दिखाई नहीं देते हैं ।

अब तुम क्या करोगे ? इस प्रकार मित्र द्वारा पूछे जाने पर गद् गद् स्वर से धरण ने कहा कि मैं इस स्त्री उमा का मूँह देखे बिना ही कहीं अन्यत्र चला जाऊँगा । मैं हत्यारा हूँ, पापी हूँ इस लिये अब मैं ज्यादा जिना नहीं चाहता । अब कहीं जाकर शांति से प्राण त्याग करना ही मेरे लिये श्रेयस्कर है ।

मित्र ने कहा ऐसा मत करो । अपने घर जाओ । वहाँ से किसी प्रकार धन ग्रहण करो फिर कहीं जाकर किसी सुविहित गुरु से प्रायश्चित्त करो । नहीं तो जिस प्रकार दूध पीकर नागनी उन्मत्त हो जाती है इसी प्रकार वह उन्मत्त हो जायगी और ओर भी अधिक अनुचित कार्य करेगी ।

मित्र की प्रेरणा से धरण डरे हुए भावों से अपने घर गया । पति को आया हुआ देख उमा बड़े आदर के साथ बनावटो प्रेम दिखाती हुई एक दम खड़ी हुई और सम्मुख जाकर बोली प्राणेश ? आइयें पधारियें यह विरहानल से संतप्त दासी आपका स्वागत करती है । इस प्रकार कहती हुई पति का हाथ पकड़ बड़े प्रेम से अंदर ले

आई । यह देख धरण के आश्चर्य की सीमा न रही । वह मन ही मन जल रहा था, फिर भी उसने अपना मनोभाव तनिक भी प्रकट न होने दिया । उल्टा प्रसन्नता पूर्ण विश्वासी के जैसे कुछ इधर उधर की बातें करके अपने काम में लग गया ।

इधर रणधीर के पिता ने रणधीर की खोज शुरु की । शहर का कोना कोना छान डाला, पर कहीं पता न चला । अंतमें शून्य कुँए से निकलती दुर्गन्धसे उसका पता चला शव निकाला गया । सर्वत्र हाहाकार मच गया । उसने भी इसकी चर्चा पति के सामने की । उसने भी दुनियावी ढंग से शोक प्रदर्शित किया । इस प्रकार करते धरते कुछ दिन बिते । एक दिन मौका पाकर मायाविनी उमा से विरक्त हुआ धरण धरका सारा धन बटोर कर घर से निकल गया ।



संसार की रंग भूमि में जीव नाना प्रकार की अत्र-
 स्थाओं में परिणत होता हुआ अनेक विध खेल खेलता
 है। धरण भी उन्हीं खिलाडियों में से एक खिलाडी होने
 के नाते उमा को छोड़ कर मित्र की सलाह से विदेश के
 लिये चल पडा। रास्ते में अपने लिये अवधूत का वेश
 निरापद समझ कर उसने अपने कपडे गेरुए रंग में रंग
 लिये। किसी सच्चे गुरु की खोज में कई नगरों में घूमता
 हुआ किसी गांव की प्याउ पर जा पहुँचा। वहाँ रहे हुए
 एक सिद्ध पुरुष से उसका परिचय हुआ। वह नमस्कार
 कर उसके पास बैठ गया।

धरण को विनयादि गुणों से युक्त देख कर उभ सिद्ध पुरुष ने पूछा कि हे भाई ! तुम कौन हो ? इस प्रकार पूछे जाने पर उसने अपना आदि से लेकर अन्त तक का सारा वृत्तान्त कह सुनाया, और पूछ बैठे, कि मेरे द्वारा की गई दोनों हत्याओं के पाप से मेरा छुटकारा किस प्रकार होगा ?

मुझ अपरिचित को भी अपनी गुप्त बात कह देने वाला यह निश्चय ही निष्कपट और भोला व्यक्ति है। ऐसा अपने मन में सोच कर सिद्ध पुरुष ने कहा “ हे भाई ! इस समय मैं स्वयं चिन्तित हूँ । बुद्धि स्वस्थ मनुष्यों की ही काम देती है । अतः मैं तुम्हें उपाय नहीं बता सकता ।”

सिद्ध की बात को सुन कर धरण ने पूछा श्रीमानजी ! आपको कौनसी चिंता सता रही है । प्रश्न का उत्तर देते हुए सिद्ध ने कहा । “ मेरे गुरु ने पहले मुझे संतुष्ट होकर एक विद्या दी थी । वह विद्या सोने के पुतले के सामने सिद्ध होती है । सोना उतना मेरे पास है नहीं । पुतला बना नहीं, विद्या सिद्ध होती नहीं । वस यही चिंता आज भी मुझे कांटे की तरह कष्ट पहुँचा रही है ।

धरण बोला “मेरे पास अनेकों रत्न हैं जिनसे सोना खरीदा जा सकता है । आइये इन्हें बेचकर सोना खरीदें

और आप वचनानुसार सुवर्ण पुरुष बनना कर आप विधि-पूर्वक विद्या सिद्धी के लिये प्रयत्न करें ।

उसके इस उदारता गुण से अत्यधिक प्रसन्न हो कर और अपरिचित मनुष्य में भी सहसा विश्वास कर लेने की स्वाभाविक वृत्ति को देख कर प्रशंसा करके उस सिद्ध पुरुष ने कहा “मुझे रत्नों से कोई प्रयोजन नहीं है, तुम इन रत्नों को सुरक्षित रखलो” मैंने तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ही की है । क्यों कि एकदम किसी पर विश्वास नहीं किया जाता । सुवर्ण पुरुष का मतलब भी सोने के पुतले से यहां नहीं है, किन्तु श्रेष्ठ-वर्ण वाले उत्तम—पुरुष की पात्रता से ही देखी जाती है । इस लिये तुम्हें पात्र देख कर और तुम्हारी नम्रता से संतुष्ट होकर गुरु द्वारा दी हुई उस श्रेष्ठ विद्या को मैं तुम्हें दे रहा हूँ । अच्छे भाग्य से प्रेरित हो तुम यहां आये हो ।

सिद्ध कहता है—मैं वृद्ध हो गया हूँ । मेरे पास कर्ण पिशाचिनी नाम की सिद्ध विद्या है उसे तुम भक्ति पूर्वक ग्रहण करो । जो तुम्हें त्रिकाल संबंधी सभी वस्तुओं का ज्ञान देगी । धरण ने उस विद्या को विधि पूर्वक आदर से ग्रहण की । विद्या-सिद्धि होने पर उसकी चारों तरफ प्रसिद्धि हो गई । कुछ दिन उस सिद्ध पुरुष की सेवामें

रह कर बाद में वह उसकी आज्ञा पाकर पृथ्वी पर घूमने लगा ।

जंगलों, पहाड़ों, नगरों, और गावों में तरह तरह के कौतुक देखता हुआ, अपनी इच्छानुसार घूमते हुए उसने एक दिन किसी आम के पेड़ की छाया में बैठे हुए एक साधु-महात्मा के दर्शन किये । बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ वंदन किया एवं अपनी आत्मा को धन्य धन्य समझता हुआ उन साधुराज के श्रीचरणों में बैठ गया । मुनिराज ने उसे 'धर्मलाभ'-का आशिर्वाद दिया । साथ ही परम विजयी जैन-धर्म का उपदेश देना शुरु किया ।

हे भव्यात्मन् ! दुर्गति में पड़ते हुए प्राणी को जो बचाता है, और सन्मार्ग में लगाता है। उसी का नाम धर्म है । वह अहिंसा संयम और तप के द्वारा प्राप्त होता है । जिस प्रकार मेरे प्राण मुझे प्यारे हैं, उसी प्रकार दूसरे शरीरधारी को भी उसके प्राण उतने ही प्यारे हैं । ऐसा समझ कर बुद्धिमानों को चाहिये कि प्राणी-मात्र की रक्षा करें । अहिंसा का ठीक से पालन जीवन को संयम में रखने से होता है । संयमी आदमी ही सदा सुखी रहता है । संयम रखने के लिये मन वचन क्राया की चंचलता पर

नियंत्रण करना पड़ता है वह नियंत्रण विवेक पूर्वक की हुई तपश्चर्या से होता है ।

हे देवानुप्रिय ! इस संसार में नवकार के समान कोई मन्त्र नहीं है । प्राणियों की रक्षा-अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं है, और श्री शत्रुंजय तीर्थ के समान कोई तीर्थ नहीं है । ये तीनों त्रिलोकी में अद्वितीय माने जाते हैं । नमस्कार मंत्र के प्रभाव से प्राणी पापों से छूट जाता है आपत्तियां मिट कर संपत्तियां हो जाती हैं । अहिंसा से जीवन अभय होकर अजरामर-पद का अधिकारी हो जाता है । शत्रुंजय-तीर्थ के स्पर्श से अनन्त आत्मा वाद्याभ्यन्तर शत्रुओं को जीत कर विजयी हो जाते हैं । श्री शत्रुंजय-सिद्धाचल तीर्थ पर जाने से पापी आत्मा भी निष्पाप हो मोक्ष में जाते हैं ।

इस प्रकार उन मुनिराज की देशना को सुन कर धरणा धर्म में बहुत प्रभावित हुआ और अपने दोनों हाथ जोड़ कर किये हुए पापों को प्रकाशित करता हुआ अपनी आत्मा की निन्दा करने लगा । हे पूज्य ! मैं हत्यारा बड़ा पापी हूँ । कुकर्मों को करने वाला हूँ । मेरे से जो दो हत्याएँ हुई हैं इससे मेरी क्या गति होगी ? आप कृपा कर मेरे मार्ग-दर्शक बनें ।

धरण की बात को सुन कर उत्तर देते हुए मुनीश्वर ने फरमाया हे भव्यात्मा ! तुम पाप-भीरु हो इसलिये निश्चय ही लघुकर्मा हो । तपश्चर्या से सारे पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है । अतः तुम श्रीसिद्धाचल तीर्थाधिराज जो कि सौराष्ट्र देश में वर्तमान है—वहां जाकर तपश्चर्या करते हुए विधि पूर्वक श्री नवकार मन्त्र का जाप करो जिससे तुम्हारा परम-कल्याण होगा ।

मुनि महाराज के वचनों को सुनकर उनमें श्रद्धा को रखता हुआ वीतराग दर्शन में आत्म शांति को देखता हुआ मुनिमहाराज को वारंवार वन्दना की । अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिये वह श्री तीर्थाधिराज शत्रुंजय की तरफ चल पडा । चलते २ अनेक ग्राम-नगरों को पार करता हुआ इस कुशस्थल-पुर में आ पहुँचा हूँ । मैं वही धरण हूँ । उन सिद्ध-पुरुष की कृपा द्वारा मन्त्र-विद्यासिद्धि से मैं भूत-भविष्य और वर्तमान ऐसे तीन काल की बातों को जानता हूँ । इसी लिये सब लोग मुझे निमित्तिया कह कर पुकारते जानते हैं ।

धरण के विस्तृत चरित्र को सुनकर चारों राज-कुमार बड़े विस्मित हुए और आपस में कुछ विचार करने लगे । कुछ सोच कर उनमें से ज्येष्ठ राजकुमार जय ने उस नैमित्तिक

के सामने फल और द्रव्य रखकर पूछा कि हम चारों में से पिता का राज्य किसे मिलेगा ?

इस प्रकार पूछे जाने पर उसने शास्त्र की विधि से एवं अपने इष्ट से विचार करके सिर हिलाते हुए कहा कि "आप लोग ऐसा अनिष्टकारी प्रश्न क्यों करते हैं ? नाराज होने की बात नहीं है । आप चारों में से किसी को भी पैत्रिक-राज्य मिलने की संभावना भी नहीं है । राज्य तो तुम्हारी विमाता सूर्यवती से उत्पन्न होने वाला राजकुमार ही भोगेगा । इसमें सन्देह की कोई बात नहीं है ।

इस प्रकार उस कालज्ञ के कहुए बचन को सुन कर चारों राजकुमार क्रोधित हुए से बोले । अरे ! तुम कुछ नहीं जानते । देखा तुम्हारा शास्त्र ! और देखी तुम्हारी इष्ट शक्ति ! तुममें सोचने समझने की शक्ति की दिवाला ही मालूम होता है । वीराग्राणी जयकुमार के रहते और हम लोगों-के रहते दूसरा कौन राजा हो सकता है ? इस प्रकार राजकुमारों के क्रोधावेश को देखकर वह बोला कुमारों ! इस समय मेरा चित्त स्थिर नहीं है । अभी मैं जा रहा हूँ फिर जब वापस लौटूँगा तब भली प्रकार इस बात पर विचार कर आप लोगों से कहूँगा । ऐसा कह वह उठा, धन को वहीं छोड़, बड़ी शीघ्रता से वहाँ से चल दिया, और क्रम

से शत्रुञ्जय पर पहुँच कर साधु द्वारा बतलाई हुई विधि से तपस्या करने लगा ।

इधर निमित्तज्ञ के कथन को सुनकर राजकुमार बड़े सोच विचार में पड़ गये । वह बात सत्य है, या असत्य है ? इसका निर्णय कर न सके । उनमें से एक ने कहा कि निमित्तज्ञ चाहे सत्य वक्ता हो और देवताओं की तरह सफल-वाणी वाला ही क्यों न हो कोई न कोई उसकी बात असत्य भी हो सकती है । किसी की बात को सहसा आँख बन्द करके नितान्त सत्य मान कर चिन्तित हो जाना यह कोई बुद्धिमानों का काम नहीं है ।

मंत्रा-पुत्र रोहिण्य देवी द्वारा बतलाये हुए भावी-संकट से बचने के लिये भूमीगृह में जा कर बैठ गया, और वह संकट उसका बाल बाँका किये बिना ही आकर चला गया । इस लिये हमें भी कोई सफल उपाय सोचना चाहिये । जिस से हम अपने अधिकारों का रक्षा कर सकें ।

इस बात को सुनकर बुद्धिमान जय कुमार कहने लगे भाई ! व्यर्थ की चिन्ता क्यों करते हो जो होनी होगी सो तो होकर ही रहेगी वह तो किसी के हाथ की बात नहीं है । वह कोई ऐसा सर्वज्ञ भी नहीं था, जिससे उसकी बात विधाता के अंकों की तरह अमिट और अशुभसत्य मान्य

जाय । अगर ऐसा होना ही है तो उसे रोक भी कौन सकता है ।

अवश्यं भाविनो भावा, भवन्ति महतामपि ।

नम्रत्वं नीलकण्ठस्य महाहि-शयनं हरेः ॥

कहा है, अवश्य होने वाले भाव बड़े आदमियों के भी हो के रहते हैं । जैसे नीलकण्ठ महादेव की नग्रावस्था, और हरि का शेष की शय्या पर सोना ।

ऐसा होने पर भी इतना तो अवश्य करना होगा कि हमारी विमाता सूर्यवती के पुत्र हो तब उसे गुप्तरिति से मौत के घाट उतार देना चाहिये ।

जब ये चारों भाई इस प्रकार एकान्त में आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, उस समय रानी सूर्यवती की सखी सैन्द्री सीढी के नीचे खड़ी उनकी ये सब बातें सुन ही थी । उसने अपनी स्वामिनी रानी सूर्यवती को निमित्तज्ञ की बात से लेकर अब तक की सारी घटना जल्दी से सुना दी । यह सुन रानी हर्ष और विपाद से युक्त हो अपनी सखी सैन्द्री से बोली : "हे सखि ! तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ ?" "न मालूम अब क्या होगा ? अगर कहे तो मैं यह सारा हाल महाराजा से कहूँ ? अथवा सोच विचार से क्या जो होना होगा सो तो होगा ।"

ही । भला ऐसी किसमें शक्ति है जो इस कर्म रेखा को मिटा सके ? । अतः धैर्य और शान्ति ही इस चिन्ता के भार को हलका कर सकती है ।

ऐसा कह वह अपने कार्य में लग गई, और दिनों दिन परमेष्ठी स्मरण, तपस्या, एवं देव-दर्शन में उत्साह और उमंग बढ़ाने लगी ।

एक समय रात्री में सुख-पूर्वक नींद में सोयी हुई, महारानी-सूर्यवती ने चार भिन्न २ स्वप्न देखे । प्रथम स्वप्न तो उसने यह देखा कि—निर्मल पूर्णिमा की रात्री में आधी रात के समय चन्द्रमा का विम्ब वेग से अपने स्थान से चलकर फिर वहीं अपने नियत स्थान पर आ गया । दूसरा स्वप्न उसे यह दिखाई दिया कि किसीने लाकर एक खिला हुआ कमल उसके हाथ में दिया, और उसने मुग्धाते हुए उस कमल को अपने हाथ से विकसित किया । तीसरे स्वप्न में उसने देखा कि अमृत के समान सफेद जिन मन्दिर वर्षा के कारण स्याम पड़ गया और चारों तरफ मन्दिर का यह हाल न हो ऐसा विचार कर महाराजा ने उसे मणिमय बना दिया । चौथे स्वप्न में वह क्या देखती है ? कि किसीने कहीं से आकर एक बन्द छत्र उसके सिर पर रखा, और वह छत्र अपने आप खुलकर तन गया ।

इस प्रकार इन चारों स्वप्नों को देखकर वह जाग उठी और उमने राजा को बड़ी नम्रता से वें चारों स्वप्न कह सुनाये । राजा ने भी इन स्वप्नों को सुनकर और पृथक्-२ उनके फलों का विचार करके रानी से कहा कि हे देवि ! तुमने बड़े ही सुन्दर स्वप्न देखे हैं अतः तुम्हारे बड़ा भाग्यशाली पुत्र होगा ।

यह बात सुन कर वह बड़ी प्रसन्न हुई, और धर्म की महिमा गाती हुई अपने महल को चल दी ।

दूसरे दिन प्रातःकाल दरवार के समय महाराजा प्रतापसिंह अपनी राज-सभा में पधारे । सभा में पहले से ही उपस्थित अमीर उमरावों सरदार और सामन्तों ने तलवारें निकाल कर महाराजा का मूक अभिवन्दन किया । अभिवन्दन के बाजे बज उठे । चारणों और बन्दीजनों के स्तुति पाठ और जय जयाराव से सभा-मण्डप गूँज उठा । कुछ ही क्षणों में वे रत्न-जटित-सिंहासन पर आ विराजे । संकेत पाकर सब यथा-स्थान बैठ गये ।

इसके बाद सभी मंत्रियों निमित्तज्ञों और स्वप्न के फलों को बताने वाले-स्वप्न-पाठकों को बुलाकर राजा ने विधि पूर्वक महारानी द्वारा देखे हुए स्वप्नों के फल पूछे ।

उन्होंने उत्तर दिया कि हे राजन् ! स्वप्न में पूर्ण चन्द्रमा के देखने के कारण कलाविज्ञ, कमल के देखने से लक्ष्मीवान् मन्दिर के देखने के कारण अद्भुत धर्मात्मा छत्र देखने के कारण संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र शासक-ऐसा आपके छत्रपति पुत्र होगा । यद्यपि इन स्वप्नों के भाव अतीव दुर्ज्ञेय हैं फिर भी ये बातें तो जरूर होकर रहेंगी ।

यह सुन राजा बहुत हर्षित हुए और उनसे स्वप्न पाठकों का खूब सत्कार किया । अनंतर महाराणी को इन स्वप्नों के भावी फलों से जल्दी ही सूचित किया ।

इधर रोहणाचल में रत्न के जैसे महारानी श्रीमती सूर्यवती की कूख में गर्भ बढ़ने लगा । एक समय रानी को चन्द्रपान का दोहला-इच्छा हुई । लेकिन उसकी पूर्ति न होने के कारण वह अतीव निस्तेज और दुर्बल हो गई । एक दिन राजा ने राणी की ऐसी दशा देखकर पूछा कि क्या बात है ? तब उसने राजा को अपना मनोरथ कह सुनाया । कैसे पूर्ण किया जाय ? इस प्रकार मन में चिंतित राजा ने शीघ्र ही इस कार्य की पूर्ति के लिये मन्त्री को आदेश दिया ।

मन्त्री ने कुछ सोच विचार कर राजा से कहा कि यह मनोरथ तो जल्दी से पूर्ण होगा आप चिन्ता न करें ।

उसने नई व्याई हुई गायों के मधुर और पौष्टिक दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर लघु और सुपाच्य बनाते हुए उसमें मिश्री मिलाकर बहुत स्वच्छता के साथ उबाल लिया । एक बन्द कमरे में ऊंची कनारवाले चांदी के थाल में दूध पिरस कर सुन्दर पर्णकुटी में चन्द्रमा की चांदनी को आने योग्य गुप्त छेद कर दिया । चन्द्रमा से प्रति-विम्बित दूध को ब्राह्म-मुहूर्त में बड़ी चतुराई के साथ महारानी को पिला दिया । वह इस प्रकार के चन्द्रपान से बड़ी संतुष्ट हुई ।

चन्द्रपान के दोहद की पूर्ति से प्रसन्न हुए राजा रानी ने अपने पुत्र का नाम गर्भ में रहते हुए ही उस स्वप्न के अनुसार श्री चन्द्रकुमार रख दिया । नामाक्षरों से अंकित हीरे से जड़ी हुई एक सोने की अंगूठी भी बनवा दी । इस तरह भावी पुत्र की लालसा से राजा रानी इतने खुश हो रहे थे, कि उनकी खुशी त्रिलोकी में भी समाती नहीं थी ।



११

एक समय महाराजा प्रतापसिंह वन विहार के लिये गये हुए थे। वहां उनके सामने बड़ी तेजी से कुछ गुप्तचर आये और इस प्रकार अपनी पुकार महाराजा को सुनाने लगे।

हे देव ! नैऋत्य कोण के समुद्रतट पर रत्नपुर और कण-कोट्टपुर नाम के दो नगर हैं। वहां के मल्ल और महामल्ल नाम के दोनों राजाओं ने मिलकर अपनी सीमा का उल्लंघन कर देश गांव और पुरों को नष्ट कर दिये हैं। साथ ही बड़े वेग से उनकी फौजें इधर की तरफ बढ़ रही हैं।

यह बात सुनकर महाराज एकदम राजमहल को लौट आये। सेनाधिपति को सेना सजाने और रण दुंदुभि

बजाने का आदेश देकर सीधे अन्तःपुर में महारानी सूर्य-वती के पास पहुँचे और बोले, हे प्रिये ! यह रण-यात्रा अचानक आ खड़ी हुई है । इसलिये तुम सुख-पूर्वक रहना, मैं शत्रुओं को बहुत शीघ्र ही जीत कर वापस लौट आऊँगा ।

महाराज की इस बात को सुनकर रानी ने महाराज से प्रार्थना का, कि देव ! गर्भवती होने के कारण यद्यपि मेरा आपके साथ चलना उचित नहीं है तो भी मैं आपकी अनुपस्थिति में क्षण भर के लिये भी यहाँ नहीं ठहर सकती । क्योंकि मुझे मेरे गर्भ के लिये अमंगल का भय आठों प्रहर सताता रहता है । इतना कह उसने उस निमित्तज्ञ की भविष्यवाणी और जयादि चारों राजकुमारों की बातचीत भी राजा को कह सुनाई ।

महारानी के वचनों को सुनकर कुछ क्षण तक विचार कर महाराज बोले प्रिये ! दुःखी मत हो । सब ठीक होगा । मैं इन चारों राजकुमारों को अपने साथ ले जाऊँगा । तुम शेरनी की तरह निर्भय होकर यहीं सुख से निवास करो ।

इधर वे चारों राजकुमार महाराज का बुलावा पाकर परस्पर में सलाह करके जयकुमार को महल में ही छोड़कर जहाँ सामन्त आदि खड़े थे क्रम पूर्वक जा पहुँचे । राजा ने

केवल तीन ही पुत्रों को आये हुए देखकर जय के अना-
गमन का कारण पूछा । उन्होंने निवेदन किया कि महाराज ?
जयकुमर बीमार हैं । अतः आने में अशक्त हैं । कुमारों
के कहने पर विश्वास न करते हुए महाराज ने उसे बुलाने
को फिर सिपाही भेजे । जय ने उनको भी कुछ घूँस देकर
और बीमारी का बहाना बनाकर वापस लौटा दिया ।
बारंबार बुलाने पर भी जब वह महाराज के पास न आया,
तो उन्होंने सारी बात भावी पर छोड़कर उसकी उपेक्षा कर
दी । एक बड़ी सेना के साथ प्रयाण भी कर दिया—कहा
भी है :—

उदयति यदि भानुः पश्चिमायां दिशायां,
प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्नि ।
विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां,
तदपि चलति नो या भाविनी कर्म-रेखा ॥

यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उदित हो जाय, यदि मेरु
चलायमान हो जाय, यदि आग शीतल हो जाय, और
यदि पर्वत की शिला पर कमल खिल उठे तो भी भविष्य
की कर्म रेखा कभी नहीं टल सकती ।

नाना देशों के माण्डलिक राजा स्थान २ पर अपनी २
सेनाओं के साथ आकर महाराज की सेना में मिलने लगे ।
इस तरह महाराजा प्रतापसिंह की फौज एक बड़ी वेगवती

नदी की तरह इठलाती हुई शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुँच गई। सेना को विश्राम करने की आज्ञा प्रदान करके उन्होंने अपने गुप्तचरों द्वारा उन दोनों शत्रुओं का पता लगवाया और ससैन्य उन्हें जा घेरा।

मोर्चे लग गये। युद्ध के नगाड़े बज उठे। दोनों सेनायें समर भूमि में आमने सामने आ डटी। दोनों ओर से तीरों की बौछार होने लगी। तलवारे चमक उठी। बछे और भालों की चमक से सारा रणस्थल चमचमाने लगा। इधर महाराज भी प्रधान शत्रुओं के साथ भयंकर रूप से जा भिड़े। रणचण्डी के खप्पर भरे जाने लगे। भाले वाले भाले वालों से, तलवार वाले तलवार वालों से, गदाधारी गदाधारियों से जुथ गये। रथी रथियों से सामन्तों से सामन्त, घुडसवारों से घुडसवार, हाथीचढ़ों से हाथीचढ़े दिल खोल कर बड़ी बहादुरी के साथ लड़ने लगे।

दुश्मन वीरों ने लड़ाई के मैदान में ऐसे खुल कर हाथ दिखलाये कि महाराज की सेना में एक वारगी भारी भगदड़ मच गई। परन्तु हाथी पर सवार तीनों विजय आदि राजकुमारों ने अपनी औजस्विनी रणचातुरी से अपनी सेना का साहस बढ़ाकर फिर से शत्रुओं पर धावा बोल दिया। इस वार शत्रुओं की सेना राजकुमारों के

बाणों की बौझार को सहन न कर सकी । एवं उसके पैर उखड़ गये । अपने वीरों को भागते देख क्रोध से अपने होठों को दांतों से काटते हुए मल्ल और महामल्ल ने राजकुमारों पर धावा बोल दिया । बहुत देर तक घमासान युद्ध हुआ । अक्सर पाकर मल्ल ने विजय कुमार को तलवार की चोट से मूर्च्छित कर दिया ।

इधर महाराज अपने पुत्रों व सिपाहियों को कुछ खिन्न देख उसी जगह आ धमके और अपना चन्द्रहास खड्ग निकाल कर मल्ल पर टूट पड़े । कुछ ही क्षणों में महाराज प्रतापसिंह ने मल्ल का सिर काट डाला । यह देख कुशस्थलीय फौज ने अपने महाराज की जयध्वनि से आकाश को गूंजा दिया ।

इधर मल्ल की मृत्यु के समाचार पाते ही महामल्ल अपने जीवन को और बची खुची सेना को लेकर रत्नपुर की ओर भाग गया । महाराज प्रतापसिंह ने भी कणकोट्टपुर आदि उसके सब प्रदेश अपने आधीन करके क्रमशः रत्नपुर को और महामल्ल को घेर लिया । शत्रु को बलवान और नगर को अभेद्य जानकर महाराज आक्रमण के अक्सर की प्रतीक्षा में वहीं उटे रहे । वहां समुद्र के किनारे नौका विहार आदि क्रीडा करते हुए अपना समय बिताने लगे ।

उधर सूर्यवती महाराज के चले जाने से हृदय में उत्पन्न होने वाले दुःख को वीतराग भगवान के वचनों से दूर करके स्वाभाविकतया धार्मिक कृत्यों में लग गई । एक दिन उसने अपने महल के बाहर सशस्त्र सिपाहियों को देखकर अपनी सखी से कहा हे सखि ! देखो ये सिपाही किसके हैं ? और ये यहां क्यों आये हैं ? यह सुन सैन्द्री-ने उनके पास जाकर उन्हें पूछा कि तुम कौन हो ? उसके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे बोले 'हे सैन्द्री ! हम महाराजा के नौकर हैं रानीजी के गर्भ की रक्षा के लिये हमें रत्नपुर से यहां भेजा है । तुम किसी बात की अपने मन में शंका मत करो' । उनके इस प्रकार के वचन सुनकर और उनकी अलग २ अच्छी तरह जांच करके वापस लौटी हुई उसने रानी से कहा—“हे स्वामिनी ! सुनो द्वार पर खड़े ये सिपाही जयकुमार के प्रीति होते हैं और झूठमूठ में अपने को महाराज के सबक बता कर हमें धोखा देते हैं । ऐसा मालूम होता है कि जयकुमार ने गभ-रक्षा के बहाने अपनी दुष्ट-बुद्धि से गर्भ-हत्या के लिये इन्हें नियुक्त किया है ।

सैन्द्री के मुख से इस दुःखद वृत्तान्त को सुनकर रानी ने एक लम्बी सांस भर कर कहा—हा सैन्द्री ! मैं अब क्या करूं ? । कहां जाऊं ? तुमने जो उस निमित्तज्ञ के वचन,

और इनकी आपसी सलाह को सुना था, वह तुम्हें इस समय याद है ? प्रयाण के समय महाराजा के वारवार बुलाने पर भी यह कुटिल जयकुमार विमारी के वहाने यहीं पर अड़ा रहा । न मालूम इस दुष्ट के यहां रहते क्या २ अनिष्ट होगा ? रानी इतना कह कर शोक में लीन हो गई ।

इधर जयकुमार ने बाल-हत्या के लिये तरह २ के कई उपाय किये लेकिन वे सब भाव-रहित धर्म, और जल रहित अंकुरों की तरह निष्फल हुए । अन्त में वह शुभ दिन आ पहुँचा जिसकी प्रतीक्षा बड़ी उत्कण्ठा से की जा रही थी । पूर्ण समय में और शुभ लग्न में अधिरात्री के समय महारानी सूर्यवती ने पुत्र-रत्न पैदा किया ।

उसके जन्म समय में सभी ग्रह उच्च के थे । वह अपने तेज से दीपक की आभा को निस्तेज कर रहा था । सूर्य की तरह सुन्दर और तेजस्वी पुत्र रत्न को देखकर रानी का हृदय-रूपी सरोवर हर्ष-रूपी जल से भर गया, और वह उसके शरीर से रोमांच के वहाने बाहर निकल कर बहने लगा ।

उस सुन्दर सौभाग्यशाली सम्पूर्ण-सामुद्रिक शुभ-लक्षणों से युक्त पृथ्वीचन्द्र के जैसे मुख वाले खिले हुए कमल

की पांखड़ी के समान विशाल नेत्रवाले और अष्टमी के चन्द्रमा के जैसे सुन्दर ललाट वाले बालक को देखकर रानी प्रसन्नता के अतिरेक से अपने को भूल गई । उसका मन मयूर नाच उठा, हर्ष के आंसू और शरीर में रोमांच हो आया । पर क्या करती बाहर यमदूतों की तरह खड़े जयकुमार के सिपाहियों को देख उसकी बड़ी २ उमंगें और आशाएँ विलीन होगईं । उसने अपनी प्यारी सखी सैन्द्री और दूसरी सखियों को गद्गद् स्वर से कहा—
 “सखियों ! मेरे हीन-कर्मों की ओर तो बरा निहारो, देखो ऐसे सुअवसर में महाराज भी यहाँ नहीं हैं । पितृ वगै भी उपस्थित नहीं हैं । मैं बधाई द्वारा किसको आनन्दित करूँ । मुझ भाग्य-हीना को धिक्कार है । सखि ! नाच गान आदि महोत्सव तो दूर रहे आज थाली का बजाना भी खतरे से खाली नहीं है । यद्यपि यह पुत्र सब गुणों की खान है, फिर भी इसका यह जन्म-समय संपूर्ण प्रकार के हर्षों का शोषण करने वाला है ।

यह सुनकर सब सखियाँ उसके दुःख से बड़ी दुःखी हुईं, और अपनी स्वामिनी से बोली “महारानीजी ! अपने चित्त में दुःख मत कीजियें, अभी प्रसूति समय है । बुद्धि हीन हो जाती है । इसलिये आप जैसे विवेकियों को चिंता नहीं करनी चाहिये । इस दुःख से, ऐसे विकल्पों से, ऐसी

हार्दिक चिंताओं से क्या होता है? भाग्य से ही आपके इस कुमार का सब कुछ ठीक होगा। आज पुत्र जन्म से तुम्हारा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष पुष्पित और फलित हुआ है। अतः इस नामाङ्कित मुद्रा से इसे विभूषित कर दो”।

ऐसा कहकर सखियों ने कुमार को नहला-धुला कर बेश कीमती सुन्दर वस्त्राभूषण पहना दिये। श्रीचन्द्र नाम से अंकित अंगुठी से उसे विभूषित कर दिया। उसको इन्द्र के समान सर्वांग सुन्दर और अद्भुत रूपवान देखकर सैन्द्री ने सखियों से कहा “वहनों! देखो तो सही विधाता ने इस कुमार के सुन्दर शरीर को मणि-रत्नों के सारतत्त्वों का संग्रह करके ही बनाया मालूम देता है। दही को मन्थन कर निकाले हुए मक्खन के पिण्ड की तरह इसका कोमल और स्निग्ध शरीर है। महाराजा प्रतापसिंह के घर कल्पवृक्ष के समान आज यह राजकुमार पैदा हुआ है। अतः बड़े २ प्रयत्नों से इसकी रक्षा होनी चाहिये। वताओ, इसकी रक्षा का शीघ्र कोई उपाय बताओ। नहीं तो प्रातःकाल होते ही जयकुमार के सेवक दृढ़कर इसे शीघ्र ही हस्तगत कर लेंगे। हम अनाथ हैं अतः उपाय के सिवाय हम कोई कुछ नहीं कर सकती हैं। इतना कह वह सैन्द्री रुक गई।

उसके रुकते ही उनमें से एक ने कहा, “पुत्र को किसी सन्दूक आदि में छिपा देना चाहिये” । इस बात को सुन दूसरी बोली यह उपाय तो ठीक नहीं । क्योंकि ये लोग जब बालक को खोजने के लिये बल पूर्वक प्रविष्ट होंगे तब हममें से कौन इनको रोक सकेगा ? । इन घातियों के सामने हमारा बालक कब तक छिपा रह सकता है ! । क्या बादलों से घिरे हुए चन्द्रमा को राहु नहीं ग्रसता ? अतः हे सैन्दी ! तुम बड़ी बुद्धिमती हो । तुम्हीं इसवाल-रक्षा का कोई उपाय बताओ । क्योंकि जो काम बुद्धि से होता है वह न तो बल से होता है, न भाई बन्धुओं की सहायता से ही हो सकता है अतः तुम कोई अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखा दो ।

इस पर सूर्यवती ने कहा ‘सखि ! मैंने पूर्व जन्म में कोई बड़ा भारी पुण्य किया था जिससे मैंने इस जन्म में ऐसे पुत्र-रत्न को पैदा किया है । अब उसकी रक्षा के उपाय को तुम्हारी प्रशस्त बुद्धि ही निश्चित कर सकती है ।



भावी-भाव एक अद्भुत शक्ति है। वैसे ही सहाय्य और वैसी ही बुद्धियां मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं जैसे भवितव्यता होती है। नव-प्रसूत राजकुमार श्रीचन्द्र के लिये भी प्रकृति का यही अटल नियम लागु हो गया।

रानी सूर्यवती की परम-सखी सैन्द्री ने सोच विचार कर यह राय निश्चित की कि राजकुमार को महल के बाहर किसी अच्छी जगह रख दिया जाय। ऐसा करना भी बड़ा कठिन है। क्यों कि द्वार पर खड़े सिपाही जाने वालों की पूरी छानबीन करते हैं। बाद बाहर जाने देते हैं। पर जो दासी हमेशा उपवन में से सायंकाल के समय शय्या के लिये ताजेफूलों का टोकरा भरकर लाती है और प्रातः वापस काम में लाये हुए फूलों को लेजाकर उपवन में एक

तरफ ढाल आती है। उसे ही राजकुमार को बाहर ले जाने का काम सौंपा जाय। प्रतिदिन के व्यवहार से उस फूल लाने वाली मालिन पर सिपाही शक न करेंगे।

सूर्यवती ने सैन्द्री की राय की प्रशंसा करते हुए कहा हे सखि ! तुम धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि देवताओं से भी बढकर है। तुम्हारी सलाह ने मुझमें जीवन ला दिया है। वास्तव में तुम भारी शोक को भी हरने वाली हो।

इस प्रकार की मंत्रणा करते २ रात्री बीत गई। मानों उस कुमार के दर्शन के लिये उदयाचल के ऊंचे शिखर पर सूर्य देवता अपनी सुनहरी किरणों को फैकने लगे। सखियों ने कुमार को हाथों हाथ अपनी २ गोदी में लेकर किसी ने तिलक, किसी ने अंजन और किसी ने वस्त्रा-भूषण से सुसज्जित किया। महारानी सूर्यवती ने भी अपने पुत्र को गोद में लेकर बड़े प्रेम से बहुत देर तक तृपित नयनों से निहारते हुए खूब दूध पिलाया। वह अपने आप कुमार को सम्बोधित कर कहने लगी—“प्यारे श्रीचन्द्र ! कैसे तुम अकेले रहोगे ? पहाड़ों—जंगलों में कौन तुम्हारी रक्षा करेगा ? अपने कमल के समान कोमल मुख के जल्दी दर्शन देना”—इत्यादि वचन वह कह ही रही थी कि इतने में पहिले से आज्ञा-प्राप्त वह वन-मालिन

आ खड़ी हुई। उसने बड़ी चतुराई से कुमार को फूलों के टोकरे में रखकर हमेशा की तरह बेरोकटोक सिपाहियों के सामने से उपवन में पहुँच गई।

रत्न-कंबल में छुपाये हुए राजकुमार को टोकरे में से निकालकर उसने उन फूलों के ढेर में सुरक्षित रख दिया, और बोला—“हे कुमार ! भेद खुलने के भय से मैं यहाँ क्षणमात्र भी नहीं ठहर सकती हूँ, आप चिरंजीवी-प्रसन्न रहें। मैं फिर आऊंगी—ऐसे कहती हुई वह वार २ सिंह-की तरह घूम २ कर देखती हुई महारानी के पास चली आई इतने में दिन भी पुरी तरह से निकल आया।

प्रातः काल में जय कुमार के सिपाहियों ने महारानी के प्रसव के निशान देखकर उन्होंने सारा हाल जय से जा सुनाया। सुनते ही साथियों के साथ जय कुमार वहाँ आ गए और सावधानी से शोध करने पर भी कुछ न मिलने से उसने सैन्ट्री से पूछा कि बता—रानी के क्या हुआ ? तब सैन्ट्रीने महारानी के गर्भाशय के निकले हुए मैले को दिखाते हुए रोनी सी सूरत से कहने लगी—मालिक ! गजब होगया ! हमारे तो सारे मनोरथ मिट गये !! आशायें अधूरी रहीं !!! क्या बताऊँ महारानीजी के पुत्र होना तो सर रहा पुत्री भी नहीं हुई।

जयकुमार मन ही मन प्रसन्न होता हुआ सोचने लगा
 गया। चलो बिना औपधि के रोग मिट गया। परंतु
 पहरी दिखावे के लिये शोक करता हुआ कहने लगा
 सैन्त्री ! अगर सचमुच ऐसा ही हुआ है तो बहुत बुरा
 हुआ। मैंने तो सोचा था भाई का जन्मोत्सव बड़े ठाट
 से मनाउंगा। पर दुष्ट विधाताने मेरी अभिलाषायें पूर्ण
 नहीं होने दी। ऐसे बनावटी शोक को करता हुआ सिपाहियों
 के साथ वह वहां से चला गया।

जय कुमार के चले जाने पर सर्वत्र शांति हो जाने
 से रानी ने सैन्त्री से कुमार को लाने के लिये आज्ञा दी।
 उसने उपवन में फूलों के ढेर को खूब ढूंढा पर दरिद्री को
 निधान के जैसे कुमार को न पाकर रोती बिलखती वापस
 घर लोट आई। उसकी बात सुनकर रानी सूर्यवती बेहोश
 होकर गिर गई। समय के अनुकूल उपचार से रानी को
 होश में लाया गया। पुत्र स्नेह से व्याकुल रानी संकटा-
 पन्न अवस्था में भी साहस कर के सखियों के साथ उपवन
 में पहुँची और चारों ओर कुमार को ढूंढना शुरू किया।
 वन-मालिन से भी पूछा कि बताओ राजकुमार को कहां
 छिपाया है ? उस बेचारी ने रोते हुए फूलों के ढेर की
 तरफ अंगुली निर्देश करते हुए कहा स्वामिनी ! यहीं,
 इसी ढेर में मैंने तो कुमार को छिपाया था, पर न जाने

क्यों कुमार के दर्शन नहीं मिल रहे। रानी और सखियों ने बड़ी होशियारी के साथ चारों ओर शीघ्र कुमार को ढूँढा, मगर कहीं भी उसका पता न चला सच है पुराय-हीन-प्राणी के लिये कल्पवृक्ष कहां रखे दैवयोग से चिन्तामणि रत्न किसी निर्धन को प्राप्त जाय पर वह उसके पास थोड़े ही ठहरता है ? हाय बेटे का क्या हुआ ? क्या किसी ने उसे मार दिया अथवा कोई उसे चुरा ले गया ? सखियों ! मुझ अभागि के भाग्य में ऐसे पुत्र रत्न का टिकाव कैसे हो सकता है ! हा ! दुर्दैव मैं तो जींदा भी मरी हुई हूँ। ऐसे रानी स्ववती मुक्कण्ठ से विलाप करने लगी। लडखडाती हुई रानी को सैन्द्री हाथ पकड कर महल में ले आई। वही भी रानी का विलाप जारी रहा—

हायरे दुर्दैव ! मैंने तेरा क्या विगाडा है ? जो तैं मुझे पहिले ऐसा पुत्र रत्न दिया और देकर वापस छिन्न लिया ? क्या मुझ पर अनर्थ परम्परा प्रारम्भ करने के लिये ही ऐसा अनिष्ट शरु किया है ? अथवा हे दैव ! गम्भारा इसमें क्या दोष है ?

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता
 परो ददातीति कुबुद्धिरेषा ।
 अहं करोमीति वृथाभिमानः
 स्व-कर्म-सूत्र-प्रथितो हि लोकः ॥

कोई किसी को सुख या दुख पहुँचाता है यह धारणा गलत है । मैंने उसे ऐसा कर दिया, यह भी एक झूठा भिमान है । वस्तुतः सारा संसार अपने २ कर्मों से था हुआ है ।

पूर्व-जन्म में अवोध-अवस्था में मैंने ही कभी शील ष्ट किया होगा । या किसी जीव को सताया होगा ? उसी की कोई बड़ी भारी चोरी की होगी ? किसी के बच्चे को उसकी मां से जुदा किया होगा ? करडके मोड़े गे या किसी पत्नी के अंडे फोड़े होंगे ? द्वेष वश किसी । झूठे कलंक दिये होंगे ? अथवा ऐसे ही घोर पाप मैंने किये होंगे ? जिनको जिनेश्वर भगवान ही जान सकते हैं—उन पापों का दुष्परिणाम आज मैं इस प्रकार भोग रही हूँ ।

महारानी के विलाप से दुःखी हुए निकट रहनेवाले स्वजन स्वयं दुःखी होते हुए भी उनको धीरज बंधाने लगे “स्वामिनि ! भावी किसी के टाले नहीं टलती । संयोग वियोग सुख दुःख ये सब अपने किये कर्मों का ही फल है । ये अवश्य भोगने होते हैं इसमें किसी का किन्तु परन्तु नहीं चलता । आप स्वयं तत्त्व को जानती हैं अधिक शोक करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । आये हुए दुःख को मिटाने का उपाय धीरज से शोचना चाहिये ।

स्वजनों के आश्वासन से विवेकवती रानी सूर्यवती आखिरकार दिल को मजबूत बनाया। अपने इष्ट ध्यान में लीन होगई। उसी समय कुछ देर के लिये आलस गई। उस अर्धनिद्रित अवस्था में उनने स्वप्न-सफेद वस्त्र धारण की हुई अपनी कुल देवी के दर्शन किये। प्रसन्नवदना देवी दिव्य वाणी से कहती है वेति दुःखी मत हो। मैंने ही तेरे भाग्यशाली बेटे को फूलों ढेर से हटाकर सुरक्षित स्थान में पहुंचाया है। तेरे प रहने में उसे अधिक कष्ट उठाना पडता। आज बारह वर्ष बाद वह तेरा बेटा श्रीचन्द्र राजाधिराज बन अचानक ही तुम लोगों को मिलेगा। मैं तुम्हारी देवी हूँ”।

इस प्रकार दिव्य स्वप्न देखकर सहसा रानी जा हो जाती है, और बड़े प्रसन्न मन से सैन्द्री आदि सखियों को सारा सुखद स्वप्न वृत्तान्त कह सुनाती है। सखियों भी रानी का अभिनंदन करते हुए बड़ी खुशी के स मंगलाचार किया।

पुत्र मिलन की पुनीत आशा से सखियों के स रानी सूर्यवती दान-पुण्य देव पूजन, जप-तप, नवका मन्त्र स्मरण आदि धर्मकृत्य विशेष रूप से करने लग धर्म में पहिले से भी कई गुनी अधिक श्रद्धा उसकी होग

पुण्यै विना नहि फलन्ति समीहितार्थाः ।

पुण्य से मनुष्य को मनचाहे फल मिलते हैं अतः अपना हितचाहने वालों को चाहिये कि हमेशा पुण्य कार्य करते रहें ।

महाराजा प्रतापसिंह के न्यायी राज्य में नगर सेठई भोगने वाला राजा-प्रजामें सन्मान प्राप्त लक्ष्मीदत्त सेठ अपने विशाल वैभव के साथ कुशस्थल नगर को सुशोभित करता था । उसके पास सौन्दर्य शालिनी शीलालंकार धारिणी लक्ष्मीवती नाम की सेठानी थी । पति-पत्नी दोनों ही बड़े प्रेम और आनंद से अपना सुखमय जीवन बीताते थे । दान और सन्मान में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था । सभी तरह के सुख होते हुए भी संतान का

अभाव उन्हें कांटे की तरह रात दिन खटकता था । पुत्र प्राप्ति के लिये उन्होने कोई भी शक्य-प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ा था । तदर्थ कोई न कोई देवी देवता को वे मनाते ही रहते थे ।

जिस रात महारानी सूर्यवती को स्वप्न में देवी ने दर्शन दिये थे उसी रात में उसी समय में सेठ लक्ष्मीदत्त को भी स्वप्नमें देवी ने दर्शन दिये, और कहा—“सेठ ! सुनो, प्रातः काल तुम्हारे घरमें सत्पुत्र रूप कल्प-वृक्ष की पधरावणी होगी उसके लिये तुम अपने यहां भारी महोत्सव के मंडाण मंडाओ इस दिव्य संदेश को सुनकर सेठ जग जाता है । सेठानी से कहता है आज मैंने पुत्र रूप कल्प वृक्ष की प्राप्ति का संकेत स्वप्न में पाया है । सेठानी के भी सपना का पार न रहा ।

प्रातःकाल सेठ ने अपने कुटुम्बियों को एकत्रित कर खुशी का भोजन करवाया । आमोद-प्रमोद नाच-गान करवाये । मंडप सजाने के लिये राजाज्ञा से राजवाडी से फूल लाने के लिये वह महाराजा के उद्यान में पहुँचा । सेवकों से मन पसंद फूल इकट्ठा करवाते हुए सेठ ने फूलों के ढेर में रत्नकंबल में लपेटे हुए नामांकितमुद्रा से मुद्रित तुरत के जन्मे तेजस्वी बालक को बाल-क्रीडा करते हुए देखा । सेठ ने चुपचाप उसे उठालिया रात्री में गोत्र

देवता के दिये हुए स्वप्न को याद करते हुए फूलों के टोकरे में छिपा कर सेठ उसे अपने घर ले आया । एका-न्त में उसकी प्राप्ति के समाचार सुनाते हुए सेठ ने सेठानी की गोद में बालक को सुला दिया ।

पुत्र जन्म के समय का मंगल थाल स्त्रियों ने बजाया बधाइयाँ बाँटी जाने लगी । सेठने सेठानी के गूढ गर्भ था—की बात चारों ओर फैला दी । लोग भी सुन कर बड़े प्रसन्न हुए । बाजे बजने लगे । स्थान २ पर मंगल गीत गाये जाने लगे । भाट चारण याचकों की प्रशंसात्मक ध्वनि से सारी दिशायें गूँज उठी । हजारों सोने चाँदी के थाल-सजा कर फल-फूल मेवा-मिठाई आदि इधर उधर भेजे जाने लगे । कुटुंबियों, बन्धुओं, साधर्मियों-का बड़ी ही श्रद्धा भक्ति और प्रेम से आदर करते हुए सेठ-ने पुत्र जन्मोत्सव बड़े ठाठ से मनाया ।

अंगुठी में अंकित मन पसंद नाम को देखकर सेठ ने सब लोगों के सामने—“श्रीचन्द्रकुमार” ऐसा उसका नाम संस्कार किया । इस प्रकार एक ओर राजकुमार संकटों को पार कर पुण्य के योग से सेठ के महल में नन्दन वन में कल्पवृक्ष के जैसे प्रतिदिन बढ़ने लगा । दूसरी ओर धन-धान्य रत्न-सुवर्ण आदि लक्ष्मी से दिन दूना और रात चौगुना सेठ बढ़ने लगा । मणि-रत्नों के दिव्य-सुन्दर-खिलोनों से

खेलता हुआ श्रीचन्द्रकुमार धीरे धीरे चलने के लिये भी कदम उठाने लगा बन्धुजन उसको एक के बाद एक गोदी में लेते हुए नहीं अघाते थे । जिसके पास वह जाता था, उसी के सुख का कारण वह बन जाता था उसने कभी किसी वस्तु के लिये न हठ किया, न मुंह ही बिगाडा । सदा प्रसन्न रहने वाला वह कुमार जब पांच-वर्ष का हुआ तब उसमें बल-बुद्धि और तेजो-लक्ष्मी का संचार अपने आप होने लगा । एक बार सुना, देखा, ज्ञान-विज्ञान पहले अभ्यास की हुई विद्या के जैसे आसानी से ही उसे आ जाता था ।

एक समय श्रीचन्द्रकुमार कौतुक देखने की इच्छा से अपने पिता के साथ रथ पर सवार हो उद्यान की ओर चला । फल फूलों से लदे हुए हरे भरे पेड़ों को संगमरमर से बने हौज, बावडियों को देखता हुआ वह घूम रहा था इतने में ही वह क्या देखता है—वाजे बज रहे हैं । खुले हाथों दान दिया जा रहा है । नाटक हो रहे हैं । हटो हटो की आवाज लगाते हुए छड़ीदार प्रजाजनों को हटाकर सड़क साफ कर रहे थे । सत्रके आगे हाथी पर राष्ट्रध्वज फहरा रहा था । उसके पीछे कई तरह के वाजे बजाने वालों की टोलियां चल रही थी । सजे सजाये कोतल घोड़े चलते थे । घुड़ सवार अमीर उमराव सामंत मन्त्री अपनी २

राजक्रीय पोशाकों को पहने बड़ी आन वान और शान के साथ चल रहे थे । इनके पीछे मदमस्त चाल से चलता हुआ, खरेमोतियों की झालरों वाली झूल से सजा हुआ, सोने चांदी के गंगा-जमुनी हौदे को रेशम के रस्सों से कसा हुआ मनोहर चित्र कारी से सजाई हुई सूडवाला माथे पर कानों में दांतों में, और पावों में धुनहले रत्न जडित आभूषण पहना हुआ गजराज जरीकी पोशाक पहने अंकुश लिये महावतसे प्रेरित होता हुआ धीरे धीरे चल रहा था । उसके हौदे में रानी की तरह आदर प्राप्त एक-सारिका बैठी थी । उसके गिर पर छत्र था । दोनों और दासियाँ चामर ढाल रही थीं । विस्मय पैदा करने वाली ऐसी सवारी को देख कर वह स्तंभितसा होकर सोचने लगा कि यह क्या घटना है ? ।

देखते २ वह सारिका हाथी के हौदे से उतर कर श्री आदीश्वर भगवान के भव्य मन्दिर में प्रविष्ट हुई । उसके पीछे पालकी से एक सुन्दर स्त्री उतरती है और वह अपने सेवकों को आज्ञा प्रदान कर रही है । पिता की आज्ञा से कुमार ने उसे पूछा कि—हे देवि ! तुम कौन हो और यह पत्नी होती हुई भी मानवी के समान आचरण करने वाली सारिका कौन है ? भगवान के मन्दिर में आने का व इस

बड़े भारी इस ठाठ का वृत्तान्त अगर छुपाने योग्य न हो तो मैं सुनना चाहता हूँ ।

कुमार की ओर ललचाई हुई निगाह से देखती हुई वह स्त्री कहती है कुमार ! मैं महारानी सूर्यवती की मुख दासी हूँ । मेरा नाम सैन्द्री है । यह सारिका मेरी स्वामिनी सूर्यवती की परम-प्रेम-पात्र है । इसका जन्म ककों टक द्वीप में हुआ है । किसी जहाजी व्यापारी ने इसे महाराजा प्रतापसिंह को यहां भेंट की थी । यह अपने ज्ञान गुरु के प्रसंग से प्राप्त कला के द्वारा महाराज का मनोरंजन किया करती है ।

कुमार ! सुना होगा ? महारानी को पुत्र वियोग का असह्य दुःख हुआ था । महाराज दुश्मन को जीतने गए थे । पत्र द्वारा दुःखद समाचार को पाकर महाराजा बड़े दुःखित हुए थे । उस समय महारानी के मन को शांत करने के लिये इस सारिका को महाराजा ने यह भेजी थी । तब से यह महारानीजी को समय २५ उपदेश देकर और श्री श्रीतराग की वाणी को सुना कर ध्यान में प्रेरित करती है, और दुःख का समय काटने में साथ देती है ।

इस सारिकाने किसी ज्ञानी गुरु से यह सुन रखा है कि तू राजकुमारी होगी, बस तब से ज्ञानी भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखती हुई तीव्र तपस्या कर रही है महारानी जी के मना करने पर भी परम श्रद्धा से इसने आठ दिन के व्रत किये हैं। उसीका उद्यापन—निर्वाण समारोह कर के रानीजी ने अपने जन्म को सफल माना है। इस प्रकार कह कर सैन्त्री रुक गई।

सैन्त्री की बात सुन कर श्रीचन्द्र-कुमार सारिका की प्रशंसा करते हुए बोला—अहो, इसकी शक्ति—निर्मल श्रद्धा—वैराग्य और भाग्य सभी प्रशंसनीय हैं। तिर्यच योनी में रहते हुए भी शुभ कर्मों का उदय होने से इसने धर्म की कितनी सुन्दर आराधना प्राप्त की है।

कुमार भी मन्दिर में पहुँचा। भगवान को भाव पूर्वक नमस्कार किया। सारिका की क्रियाओं को कौतुक भरी दृष्टि से देखता हुआ वह वहीं पर ठहर गया। सारिका ने चोंचसे विधिवत् जल चंदन पुष्प आदि चढा कर भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा की। स्तुति स्तोत्र और चैत्य-वन्दन करके भाव पूजा भी संपन्न की। वाद ज्यों ही मन्दिर में से रवाना होने के लिये वह घूमी त्यों ही अचानक उस की दृष्टि उस दिव्य कुमार पर पड़ी। सुन्दर स्वरूपवाले उस

कुमार को देख कर वह वापिस भगवान श्री आदिदेव के चरणों में विनय-बंदन कर जोर से प्रार्थना करने लगी ।

हे भगवन् ? मैं अत्म-भाव से श्री वीतराग परमात्मा को देवरूप निर्ग्रन्थ महात्मा को गुरु रूप, और केवली भगवान प्ररूपित विधि विधान को धर्मरूप मानती हूँ । यही सम्यक्त्व जन्म-जन्मान्तरों में भी आपकी दया से प्राप्त होता रहे और यह सुन्दर सुकुमार-कुमार ही मेरा स्वामी होवे । ऐसी प्रार्थना करके उसने अनशन व्रत ग्रहण कर लिया, और भगवान श्री आदीश्वर के चरणों का ध्यान लगा कर वहीं बैठ गई ।


यह सब देख सुन श्रीचन्द्र कुमार ने उस सारिका से कहा-मैना ! तुम्हारा ऐसा करना उचित नहीं है । श्री जिनेश्वर देवने इस प्रकार से नियाणा-भावीफल की मांग-णी-करने का निषेध किया है । ऐसा करने से जीव सद्गति से वंचित हो जाता है ।

कुमार के ऐसे वचन को सुनकर सारिका कहने लगी हे कुमार ! मुझे नियाणा-करने की कोई आवश्यकता नहीं है पर कुत्सित-स्वामी के मिलने पर सुचारु धर्म का आराधन नहीं होता । इस धार्मिक सहूलियत के विचार से ही मेरी यह प्रार्थना है-और मैंने आमरण अनशन कर लिया है ।

सारिका की इस भावना से परिचित हो सैन्द्रीने महारानी सूर्यवती से सारिका के आमरण अनशन लेने की बात कही। तब वह बवराई हुई सी वहां आई, और उसने सारिका को ऐसा आमरण अनशन न लेने के लिये बहुतेरा समझाया। परन्तु उसने रानी को उत्तर दिया—“स्वामिनि ! मेरे लिये ज्ञानी गुरु की ऐसीही भविष्य-वाणी है। उसी प्रेरणा से आज जो मैंने भगवान श्री ऋषभदेव स्वामी के सामने जो प्रतिज्ञा की है, वह कभी मिथ्या नहीं होगी। अब आप कृपा करके इस कार्य में सहायक बनें। वस, इतना कहकर मैंना बौन करके स्थिर हो गई।

उसकी ऐसी धारणा को देख रानी गदगद स्वर से कहने लगी। प्रिय सखि ! तेरे विना मेरे ये दुःख के दिन कैसे कटेंगे ? मैं तेरे इस शुभ संकल्प को तुडाना नहीं चाहती। तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर रानी ने, सखियों ने और नगर निवासियों ने मिलकर अनेक प्रकार से उस अनशन की भारी महिमा की। तीन दिन के अनशन को करके सारिका ने अपने इस नश्वर-शरीर को त्याग दिया। रानी की आज्ञा से चंदन की चिता में उसका अंतिम संस्कार बड़े समारोह से हुआ रानी उसकी मृत्यु से शोक-संतप्त हो उसके महान गुणोंको रह रह कर याद करने लगी।

सब लोग सौरिका के गुणों को याद करते हुए अपने २ स्थान पर चले गये । श्रीचन्द्र कुमार भी अपने पिता श्री लक्ष्मीदत्त सेठ के साथ चकोरों को प्रसन्न करने वाले चन्द्रमा के जैसे—अपने घर पर पहुँच कर अपने दिव्य गुणों से सब का मनोरंजन करने लगा ।



१४

कुशस्थल नगर में धीश्रन मंत्री के मतिराज और सुधिरान नाम के दो पुत्र थे । दोनों मंत्री-पद से विभूषित थे । छोटे भाई सुधीराज के कमला नाम की रूपवती गुणवती सती-पतिव्रता पत्नी थी । । उसने गुणों के सागर रूप गुणचन्द्र नाम के पुत्र-रत्न को जन्म देकर अपने श्वसुर-कुल में सन्मान प्राप्त किया था । मन्त्री-पुत्र गुणचन्द्र श्रेष्ठी-पुत्र श्रीचन्द्रकुमार के साथ पूर्व-जन्म के पुण्य-संस्कारों से अभिन्न-मित्र बन गया था । उन दोनों में क्षीर-नीर के समान घनिष्ठ प्रेम हो गया था । विनय विवेक-विचार-भक्ति और निस्वार्थ सेवा के गुणों से गुणचन्द्रने श्रीचन्द्र का मन अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था । दोनों परस्पर में परम विश्वासी और एक मन वाले थे ।

श्री लक्ष्मीदत्त सेठ अपने चिरंजीवी कुमार श्रीचन्द्र को पुरुषों की बृहत्तर कलाओं में निपुण देखना चाहते थे। संपूर्ण कलाओं की शिक्षा देने वाले कलाचार्य को खोज करते हुए उन्हें सद्भाग्य से गंगा तट की तरफ से यात्रा करते हुए श्री गुणंधर नाम के कलाचार्य की भेंट हुई।

श्री गुणंधर—उपाध्याय सब विद्याओं में पारंगत जितेन्द्रिय, स्पष्ट-वक्ता, शान्त स्वभाव वाले, जैन दर्शन के अनन्य उपासक और बृहस्पति के समान सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अधिक क्या जितने गुण एक गुरु में होने चाहिये वे सब उनमें मौजूद थे।

लक्ष्मीदत्त सेठ को एक दिन अचानक श्रीगुणंधर उपाध्याय से मुलाकात हो गई। एक दूसरे के परिचय के बाद सेठ ने अपने पुत्र को पढाने के लिये उनसे प्रार्थना की। उपाध्यायजी ने भी कुमार श्रीचन्द्र को विनयादि-गुणों से संपन्न और सामुद्रिक शास्त्र के शुभ लक्षणों से युक्त योग्य—मुपात्र समझ कर अन्यत्र जाने का विचार स्थगित करते हुए विद्या पढाना स्वीकार कर लिया।

सेठ ने उपाध्याय को प्रसन्न करने के लिये धन देना चाहा पर उनने इस बात का निषेध करते हुए कहा सेठ !

उपकार के सामने धन क्या चीज है ? मैं कोई तुच्छधन पर उच्च विद्या को न्योच्छ्रावण करने वाला ओछा आदमी नहीं हूँ ।

पढते सहस्रों शिष्य हैं पर फीस ली जाती नहीं, वह उच्चशिक्षा तुच्छ धन पर बेच दी जाती नहीं। दे वस्त्र भोजन भी स्वयं कुलपति पढाते हैं उन्हें, बस भक्ति से सन्तुष्ट हो दिन २ बढाते हैं उन्हें ॥

विद्या के बदले में विद्या देने वाले और धन से विद्या देने वाले दोनों लोभी कहलाते हैं । विनय से सन्तुष्ट हो मुफ्त में विद्या प्रदान करने वाले गुरु होते हैं और वेही सच्चे पुण्य के अधिकारी होते हैं ।

उपाध्याय की उदारता और निस्पृहता से परिपूर्ण-वाणी को सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ । बहुमूल्य वस्त्राभरणों से स्वागत करते हुए उपाध्याय से निवेदन किया कि हे मान्यवर ! हम आपकी क्या सेवा करें ? हम आर यह कुमार सदा आपके आभारी रहेंगे । आप इसे पढाना-प्रारम्भ करें और इसे कलावान बनावें ।

श्री गुणधर उपाध्याय ने सेठ लक्ष्मीदत्त से कहा विद्याभ्यास एकान्त में निरुपद्रव ठिकाने पर ही ठीक होता है । अतः ऐसा स्थान खोजना चाहिये । तब सेठ ने कहा भूदेव ! राजा की आज्ञा से मैंने लक्ष्मीपुर नाम का एक

नगर बसाया है । वहां मेरे कई मकानात हैं । आप वहां पधारें और विद्याभ्यास के योग्य स्थान निर्धारित करें ।

आचार्य ने सेठ के साथ लक्ष्मीपुर में जाकर अपनी इच्छानुसार सुविधाजनक एक सुन्दर स्वच्छ और विशाल भवन विद्याभ्यास के लिये चुन लिया । स्थान का निश्चय हो जाने पर सेठ ने शुभ मुहूर्त में चन्द्रमा आदि का प्रशस्त विचार करके विद्याभ्यास के समस्त उपकरणों-से उपयुक्त लेखशाला का निर्माण करा दिया ।

उस विद्यालय में श्री गुणंधराचार्य की अध्यक्षता में शुद्ध-वस्त्रा भूषणों से सज-धजकर गुणचंद्रादि मित्र छात्रों-के साथ श्रीचन्द्रकुमार ने बड़े भारी विनय भाव से—ओंकार के उच्चारण के साथ शिक्षा प्रारम्भ की । सेठ ने भी इस प्रसन्नता के उपलक्ष्य में उपस्थित छात्रों को बहुमूल्य पुँ प्रदान की ।

श्रीचन्द्रकुमार गुणंधर उपाध्याय की एवं विद्या की उपासना इस प्रकार करने लगा कि उसे अल्पकाल में बहुतेरी कलायें प्राप्त हो गई । नम्रता के कारण सारे गुण अपने आप उसमें आकर रहने लगे । विद्यालय में बहुत-तों के रहते हुए भी लोग उसी की ओर देखा करते थे । सच है, आकाश में चन्द्रमा के रहते विचारे

पारों को कौन देखता है ? श्रीचन्द्र केवल पढ़ने के लिये श्री गुरु की उपासना नहीं करता था, बल्कि उनके गुणों के प्रेम के कारण उनका तनिक समय के लिये भी विछोह महन नहीं कर सकता था ।

थोड़े ही काल में कुमार श्रीचन्द्रनेलक्षण शास्त्र छन्दः शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में निपुणता प्राप्त की । उसने साहित्य शास्त्र एवं गणित शास्त्र का गहरा ज्ञान प्राप्त करलिया । सामुद्रिक शास्त्र, अश्वविद्या, शास्त्रार्थ-विद्या, आयुर्वेद, गण-ज्ञान, स्वरोदय-विज्ञान, रसायन-विद्या और नाट्य-शास्त्र आदि सांगोपांग अभ्यास किया । रत्न-परीक्षा, राज-शिक्षा, लेखन-कला आदि विद्यायें विना किसी महिनत के जान ली । आचार्य ने अपनी संपूर्ण विद्याओं-को कुमार के हृदय रूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित कर दीं ।

पुत्र को इस ढंग की पढाई को देखकर सेठ फूला न समाया । उसका हृदय वांसों ऊंचा उछलने लगा । प्रानन्द की लहरों से लहराता हुआ वह आचार्य के पास जाकर बोला—“आचार्य मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मेरे पुत्र को सभी शास्त्रों में पारंगत कर दिया । मैं और मेरा पुत्र कभी आपके इस उपकार-भार से मुक्त नहीं हो सकेंगे । मेरी आपसे एक और प्रार्थना है, कि आप इसे अनुवेद (अस्त्र-शास्त्र विद्या) का भी अभ्यास करा दें ।

इस पर कुमार ने बड़े करुण स्वर में कहना शुरू किया :
 पिताजी ! आपने जो बातें फरमाई, उनमें से एक भी का
 मेरी उदासी का नहीं है । मेरे हृदय में ज्ञान प्रकाश फैलाने-
 वाले आचार्य मुझे छोड़ कर अपने देश की ओर प्रस्थान
 करने का कहते हैं । उनके वियोग-दुःख के विचार-मा
 से मैं दुःखी हूँ । उनके बिना मुझे कौन नेक सलाह देगा
 कौन मेरे संशयों को दूर करेगा ?

पिता पुत्र के बीच इस प्रकार का वार्तालाप हो
 रहा था, कि इतने में आचार्य भी वहां अपने घर जाने की
 अनुमति लेने आगये । उन्होंने कुमार को जब इस अवस्था
 में देखा तो वे उसकी भक्ति, गर्वशून्यता, नम्रता आदि
 गुणों से प्रभावित हो उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे

सेठ ने कलाचार्य का आदर करते हुए अपने शिष्य
 की हालत पर गौर फरमा कर कुछ समय तक ओर ठहरने
 के लिये प्रार्थना की । आचार्य ने भी प्रार्थना स्वीकार
 कर ली । यह देख श्रीचन्द्रकुमार का मन मन्दिर प्रसन्न
 के प्रकाश से आलोकित हो गया ।



१५

वीर पुरुष की हुई प्रतिज्ञा को और प्रारम्भ किये हुए कार्यों को पूरा करके ही छोड़ते हैं। आनेवाली विघ्न-बाधाओं से उनका मन मूर्च्छित नहीं हुआ करता है।

महाराजा प्रतापसिंह ने अपने शत्रु रत्नपुराधिपति के साथ आठ वर्ष के घोर संग्राम के पश्चात् उसे हरा दिया। रत्नपुर पर अपना अधिकार जमा लिया। वहां अपनी विजय वैजयन्ती फहरा कर अपनी शासन-सत्ता स्थापित कर दी। बाद में अपनी विजय-वाहिनी-विशाल फौज के साथ निरन्तर प्रयाण करते हुए अपनी राजधानी कुश-स्थलपुर में आ पहुँचे।

राज-मन्त्रियों ने महाराज की पधरावणी में नगर को खूब सजाया। सामंत-सेनापति-सभासद-सेठ साहुकार-

लोग महाराज के स्वागत में उनके सामने गये । नगर-सेठ लक्ष्मीदत्त अपने पुत्र के साथ एक अपूर्व भेंट लेकर उनके सत्कारार्थ उपस्थित हुए । महाराज ने भी क्रमशः उपाधि और योग्यतानुसार सारे सामन्तों-मन्त्रियों-नागरिकों के साथ हाथ मिला कर अभिवादन किया ।

नगर सेठ लक्ष्मीदत्त के सर्वांग सुन्दर कुमार श्रीचन्द्र-के अनुपम आकर्षण से आकृष्ट हुए महाराज ने पूछा कि यह अद्भुत बालक कौन है ? तब सेठ ने कहा महाराज ! यह आपके सेवक का उत्तराधिकारी है । कुमार ने बड़ी वीरोचित वृत्ति का प्रदर्शन करते हुए, महाराज को विनीत प्रणाम किया । अपने पुत्र चन्द्र को देखकर समुद्र जैसे उमड़ता है ठीक उसी प्रकार महाराज प्रतापसिंह भी श्री चन्द्रकुमार को देखकर अन्तरंग स्नेह से आन्दोलित हो उठे । उन्होंने उसे ताजिम के साथ कणकोटपुर की जागिरी बख्ति कर दी । दूसरों को भी यथायोग्य पुरस्कार दान किया । महाराजा अपने महल में चले गये । जरूरी कामों को निपटाते हुए सुख से आराम करने लगे ।

इधर श्रीचन्द्रकुमार का विद्याभ्यास सर्वतो-भावेन पूर्ण होगया । गुणधर गुरु ने उसे प्रेमपूर्वक शस्त्र-धारा की बांधनेवाली दिव्य जड़ी प्रदान की और वे स्वदेश लौट

गये । संपूर्ण कलाओं में कुशल कुमार कामदेव के समान सुन्दर रूपवान नवजवान होगया । कुशस्थल में रहने वाले धनप्रिय, धनमित्र आदि आठ व्यापारी सेठों ने अपनी धनवती लक्ष्मी आदि आठ कन्याओं का सम्बन्ध कुमार-से करना चाहा । लक्ष्मीदत्त सेठ ने उनकी प्रार्थना से प्रेरित हो अपने कुल के योग्य उन कन्याओं को जानकर बड़ी धूमधाम से कुमार को परणा दिया । कलाओं से चन्द्रमा के समान वह उन पतिव्रता गुणवती पत्नियों को पाकर विशेषतया सुशोभित हुआ ।

कमला कमल को छोड़ कर कुमार के कर कमलों में आवसी । चन्द्र अपनी क्षीणता को मिटाने कुमार के मुख-में लीन होगया । हमेशा चन्द्र के उदय से कमल संकुचित और श्री हीन रहेगा ऐसा समझ कर श्री कुमार के नाम-के अग्रभाग में रहने लगी । अन्तर्निहित गुण रूप रत्नों से कुमार रोहणाचल पर्वत के समान गौरव पाया । विबुधों से सेवित ऐश्वर्य संपन्न इन्द्र के समान कुमार सब की आंखों को आनन्द देने वाला हुआ । सुमेरु के समान धीर, सागर के समान गंभीर-गुणी श्री चन्द्रकुमार सर्वत्र सत्कार पाता हुआ भी भगवान श्री जिनेश्वर देव के शासन का अनन्य अनुरागी सेवक बना रहा । नित नये कवीश्वर नित नयी कविताओं द्वारा उसकी यशोगाथा गाया करते थे । दान-

पुण्य से प्रेरित उसकी लक्ष्मी दिन-दुर्गा रात-चौगुली बढती जाती थी । दुर्जनों को उसकी पुण्य-लीला खटकती थी । कई बार सेठ लक्ष्मीदत्त के कान भरे जाते थे । पर सेठ सुनी अनसुनी करके कुमार के प्रति अपने स्नेह भाव को बनाये रखता था ।

एक दिन अपने अभिन्न मित्र गुणचंद्रको साथ लेकर श्रीचन्द्र कुमार हवाखोरी के लिये उपवन में गये । वहां उनने तालाब के किनारे डेरे डाले हुए घोड़ों के सौदागरों-को देखा । उनके पास शोभा और चंचलता में सूर्यरथ-के घोड़ों को भी मात करने वाले अद्भुत घोड़ों को देखा । अपने अभिन्न मित्र को प्रेरित करते हुए कुमार ने कहा प्रिय मित्र ! इन व्यापारियों से इन घोड़ों का मूल्य तो पूछो । गुणचंद्रने मित्र के कथनानुसार घोड़ों का मूल्य पूछा तब एक वृद्ध व्यापारी ने कहा आज तक हमने बहुत घोड़े बेचे हैं, लेकिन ये सोलह घोड़े बहुत ही उत्तम जाती-के और बेशकीमती हैं ।

इस बात को सुनकर कुमार घूम घूम कर एक एक घोड़े को देखने लगा । मित्र के पूछने पर उसने उन घोड़ों को जाती और गुणों का वर्णन बड़े पाण्डित्य-पूर्ण-ढंग से किया । वह कहने लगा, मित्र ! मुख चरणों में सफेदरंग-वाला यह अष्ट-भंगल-जाती का अश्व है । लालवर्ण का

किराह, और श्याम रंग का खुगाह जाती का है। घी की कांति के समान सुन्दर यह सराह जाती का, और यह कवरे रंगवाला हलाह जाती का घोडा है। यह सब घोडों में श्रेष्ठ उराह जाती का अश्व है। हल्के पीले रंग का और काले घुटनों वाला यह बडा ही वेगवान कुलाह जाती का है। कुछ लाल कुछ पीला काले घुटनोंवाला यह रोकनाह है। यह होलक, और यह हरिक जाती का घोडा है। ये दोनों पंचभद्री जाती के अश्व हैं। ये सबसे अधिक वेगवान हैं। इनके हृदय मुंह और बाजुओं में भँवर पडते हैं। ये दोनों सुंदर लक्षणों से संपन्न हैं। दीखने में पतले दुबले दीखनेवाले ये घोड़े लाख लाख देने पर भी मिलने मुश्किल हैं।

इतने में वहां कई राजकुमार और राजवर्गी लोग आते हैं, और अपनी २ पसंद के कोई पचास, कोई सित्तर, और कोई पिचहत्तर हजार रुपया दे देकर घोडे ले जाते हैं। श्रीचंद्रकुमार भी वायुवेग और महावेग नाम के पंचभद्रजाती के पतले दुबले दीखने वाले दो घोडों को दो लाख रुपये देकर खरीद लाया।

दुर्जनों की वन आई, उन्होंने लक्ष्मीदत्त सेठके कान भर दिये कि सेठ ! देखो तो आपके घर की लक्ष्मी किस कदर कचरापट्टी के घोडों की खरीद में वहाई जा रही है।

आपके धनधेले बेटे को कुछ होश हवास नहीं है । अगर ठीक प्रबंध न किया तो आपको भीख मांगनी पड़ेगी । दूसरे लोगों ने जहां मोटे ताजे तगड़े घोड़ों की कीमत थोड़ी दी है वहां आपके इस कुमार ने पतले दुबले घटिया दर्जे के घोड़ों की कीमत लाख लाख रुपया देकर चुकाई । उसमें भी तुरा यह कि आप को पूछा तक नहीं । अरे बाबा ! आपको वह कुमार तिनके के बराबर भी कब मानता है ?! हम तो आपके हित के लिये कहते हैं कि सावधान हो जाओ । नहीं तो बुढापे में तकलीफ उठानी पड़ेगी । वह बेटा किस काम का जो बाप की आज्ञा न माने । इस कार्य के लिये उसे उचित शिक्षा जरूर दीजिये तभी ठीक होगा ।

यह सब सुनकर सेठने उन लोगों को डांटते हुए कहा—अधिक बकवाद मत करो । यह जो कुछ ऋद्धि सिद्धि है वह इसी के पुण्यों का प्रताप है । वह चाहे जितना धन खर्च करे, कर सकता है । उस भाग्यशाली के धन की कमी कभी न होगी । सेठ की इन बातों से वे विघ्न-संतोषी चलते बने, और कहते गये सेठजी ! हमने तो आपके भले के लिये ये बातें बतलाई थी न मानो आपकी मरजी है ।

इधर कुमार घोड़ों को लेकर आता है, और सेठ से निवेदन करता है, कि पिताजी ! दो लाख में ये दो घोड़े लाया हूँ । 'बहुत अच्छा किया' इस प्रकार कहते हुए सेठने उसे स्नेहामृत से सिंचन किया । बाद में पिता की आज्ञा लेकर गारुडी मणियों से जडा हुआ सुवेग नाम का एक सुन्दर रथ तैयार करवाया । उसके लिये कुल क्रमागत रथ हांकने की विद्या में निपुण धनंजय नाम के सारथी को नियुक्त किया ।

एक दिन सुमुहूर्त्त में उन दोनों घोड़ों को रथ में जोत कर उनकी चाल ढाल और स्वभाव की परीक्षा के लिये कुमार अपने मित्र के साथ किसी एक दिशा को लक्ष्य करके बड़े वेग से चला । घोड़े इतने वेग से दौड़े कि रथ में बैठे तीनों को पेड़, पहाड़, नदी, नाले सब दिखाई दिये । प्रत्येक वस्तु आंखों के सामने आने के साथ ही उसी क्षण में आंखों से ओझल हो जाती थी । इस प्रकार आधे प्रहर में कोई पनरह योजन—साठ कोस तक चले गये । वहां विश्राम कर वापस उसी वेग से लौट आये ।

इस प्रकार श्रीचन्द्रकुमार हमेशा अपने मित्र के साथ रथ में बैठ अपनी इच्छानुसार नये २ पहाड़ों वनों और प्रदेशों आदि को देखता हुआ अपना मनोरंजन करने

लम्बी दूर-दूर चले जाने पर देरी से आये हुए कुमार को सेठ ने एक दो वार बड़े प्यारभरे शब्दों में कहा बेटा ! तुम्हारे दूर चले जाने से देरी से आने से तुम्हारे विरह में हमारा मन जल बिना मछली के जैसे तड़फता है । बड़े विनीत भावसे कुमार हाथ जोड़कर अपने पिता से कहता है पूज्य पिताजी ! क्या बताऊं रथ में बैठे बाद स्वतन्त्रता के साथ घूमने में जो आनन्द आता है उसको छोड़ने में मेरा मन भी बहुत दुःख पाता है । पर अब मैं जल्दी आने की चेष्टा करूंगा ।

पुत्र के विनीत वचनों को सुनकर सेठ गदगद होता हुआ कहता है बेटा ! यदि ऐसा है तो जिस प्रकार तुम प्रसन्न हो वैसा ही करो । मैं तो तुम्हारे दुःख में दुःखी और तुम्हारे सुख में सुखी हूँ । मेरी ओर से तुम्हारी क्रीडाओं में आज से कोई बाधा न होगी ।


पिता की आज्ञा को पाकर कुमार बहुत प्रसन्न हो गया । एक रोज वह त्रिकूट पर्वत की शोभा देखने गया । वहाँ पद्मासन लगाये हुए किसी भैरव नाम के योगी को ध्यान करते हुए देखा । कुमार ने योगी को नमस्कार किया । उसके गुणों से और लक्षणों से प्रसन्न होकर योगी ने उसे कहा बेटा ! तुम अभी छोटे हो इस डरावने जंगल में अकेले कैसे आये हो ? ।

कुमार ने कहा योगिराज ! मैं मनोरंजन के लिये घर से निकलता हूँ । आप जैसे महात्माओं की दया से मुझे कहीं कोई भय नहीं होता है ।

योगी ने कुमार की वीरवाणी को सुनकर कहा कि भाग्यशाली मुझे कोई मंत्र सिद्ध करना है, आज अर्धरात्री के समय तुम मेरे उचार साधक बन सकोगे क्या ? कुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया । योगी ने अपनी साधना कुमार के उत्तर साधकत्व में की मंत्र जापआहुति आदि से वह सफल मनोरथ होगया । उसने मधुर स्वर में कहा कुमार ! मैं तुम्हारे साहस से सन्तुष्ट हुआ लुद्र प्राणियों को अन्धा बनानेवाली यह दिव्य जड़ी देता हूँ । तुम इसे ग्रहण करो । एक बात और कहता हूँ, आगे से तुम कभी किसी योगी का विश्वास मत करना ।

श्रीचन्द्रकुमार ने कहा महात्मन् ! आपकी बड़ी कृपा है जो हित शिक्षा के साथ इस दिव्य जड़ी की वचिस मुझे दी । विधि पूर्वक जड़ी को लेकर योगी को नमस्कार कर और आज्ञा पाकर कुमार अपने घर को लौट आया ।

इस प्रकार वह कुमार अपने मित्र के साथ रथ का योग से नये २ स्थानों की यात्रा, महात्माओं के दर्शन सिद्ध पुरुषों से सिद्धियाँ अपूर्व जड़ी बुंटी मणि मन्त्र औषधियाँ प्राप्त करता जाता था । इस तरह बड़े आनन्द और सुख से निश्चिन्त समय बिताने लगा ।



१६

वसंत का समय था । आम के वृक्षों पर मंजरियाँ फूट रही थी । उनकी महक चारों ओर फैल रही थी । लाल आँखों वाली काली कोयलें कषाय कण्ठों से—पंचम-स्वर में कुहू कुहू कर रही थी । सारे वन और उपवन ऋतु-राज का स्वागत करने के लिये मस्ती में भूमते हुए हरे भरे इठलाते खडे थे । मकरंद के लोभी भौरे पुष्पों की प्याली में रखे हुए रस को बार बार पीकर उन पर मंडरा रहे थे ।

श्रीचन्द्र कुमार, अपने मित्र के साथ भूला भूल रहा था । मंलयाचलकी शीतल मंद और सुगन्धित पवन उनके ललाट से पसीने की बूंदों को पोंछकर उनके वस्त्रों और बालों को हिला रही थी । दोनों दोस्त बड़ी प्रसन्नता-से सामने के बड़े झरोखे की राह से एक टक वसंत की

शोभा को निहारते थे । इतने में श्रीचन्द्र के मुंहसे ये भाव निकलने लगे ।

कूलनमें केलिमें कछारनमें कुंजनमें
क्यारिनमें कलिन कलीन किलकंत है ।

कहे 'पद्माकर' परागनमें पान हू में
पानन में पीक में पलाशन पगंत है ॥

द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में
देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है ।

वीथिन में ब्रजमें नवेलिन में वेलिन में
वनन में वागन में बगरो वसन्त है ॥

इन भावों को सुन कर गुण चन्द्र भी अपने को रोक न सका, और बोल उठा—

द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्मं,

स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः ।

सुखाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः,

सर्वं सखे ! चारुतरं वसन्ते ॥

मित्र ! क्या बताऊं ? विकसित फूलों वाले पेड़, कमलों से परिपूर्ण जलाशय सकामा स्त्रियें, सुरभित पवन, सुखकारक सायंकाल, और रमणीय दिन अधिक क्या वसंत में सभी सुन्दर हो जाते हैं ।

इस प्रकार उनमें परस्पर विनोद वार्तालाप हो रहा था कि अचानक उनके कानों में बाजों की आवाज सुनाई दी। चतुरंगिणी सेना मंत्रियों और साधुओं के साथ जय आदि राजकुमारों को नगर से बाहर जाते देखा। श्रीचन्द्र-ने गुणचन्द्र से पूछा कि मित्र ! कहो यह किस बात का जलूस है ? गुणचन्द्र को इस बात का पहिले से प्रताप था अतः उसने मित्र के प्रश्नका उत्तर विस्तार पूर्वक देना प्रारंभ किया। वह बोला—

मित्र ! यहां से दक्षिण की ओर तिलकपुर नाम का एक नगर है। वहां तिलकसेन नाम का राजा राज्य करता है। उसके सुतिलका नाम की पटराणी है। उस महारानी के तिलकमंजरी नाम की कन्या है जो स्त्रियों की चौसठ-कलाओं में प्रवीण हैं। इस समय वह पूर्ण तरुण अवस्था में होने से पाणिग्रहण के योग्य हो गई है। एक समय राज-सभा में अपनी प्रतिज्ञा प्रकाशित की थी कि जो कोई वीर राधा-वेध करने में समर्थ होगा वही मेरा स्वामी होगा।

राजा तिलकसेन ने उसे विवाह योग्य समझ कर स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निश्चय कर लिया है। राधावेध के आचार्य की देख रेख में शास्त्र की विधि से राधावेध

आदि की सारी सामग्री जुटाली है। देश-देशान्तरों के राजाओं के पास निमंत्रण-पत्र भेजे गये हैं। अतः उस स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले सभी राजा लोग अपने राज्यों से चल कर निश्चित तिथि पर वहां पहुँच जायेंगे। आजसे सत्रह दिन बाद राधावेध का मुहूर्त है। तिलकपुर यहाँ से लगभग अस्सी योजन दूर है। ये जयकुमार आदि वहीं पहुँचने को जा रहे हैं।

इस प्रकार दोनों मित्रों को स्वयंवर सम्बन्धी बात-चीत करते हुए अचानक आये हुए सेठ लक्ष्मीदत्त ने सुना। गुणचन्द्र को अलग बुलाकर कहा कि पुत्र ! तिलकपुर में राधावेध आदि होने वाले हैं। अगर श्रीचन्द्र जाना चाहे तो पूछो।

मित्रने पिता की इच्छा पुत्र के सामने प्रकट कर दी लेकिन कुमार ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। सोलहवें दिन की संध्या को कुमार ने सारथि को रथ जोतने को आज्ञा दी। अपने मित्र को साथ लेकर पिता को विना पूछे ही वह वायुवेग से तिलकपुर की ओर चला गया। मार्ग में आने वाले पहाड़ जंगल नदी नाले आदि सब को पार करता हुआ सुत्रह होते-२ तिलकपुर के उद्यान में जा पहुँचा। सारथि को रथ सौंप कर, अपने मित्र को साथ ले वह

धावेध मंडप की ओर चला । चारों ओर लोगों के झुंड-
 झुंड खड़े राधावेध की साधना के सम्बन्ध में तरह-
 २ की बातें कर रहे थे । स्थान २ पर आश्चर्यकारी दृश्यों को
 खता हुआ वह समित्र स्वयंवर मण्डप में प्रविष्ट हुआ ।

योग्य सिंहासनों पर देवताओं की शोभा को हरने वाले
 राजा लोग विराजमान थे । बीचमें राधावेध स्तम्भ खड़ा
 था । उस पर शास्त्र सम्मत उल्टे सीधे आठ २ चक्र
 चक्कर काटते थे । उनके बीच में एक मछली लगी हुई
 थी जिसकी बांयी आंख का तारा राधा कही जाती है ।
 स्तम्भ के पास ही तेल से भरा कड़ाह रखा था । उसमें घुमते
 चक्रों के बीच रही राधा का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था । उस
 स्तम्भ के पास धनुष बाण रखे हुए थे । कड़ाहमें नीचे पर-
 छाँई को देखता हुआ उल्टे सीधे चक्रों के बीच की राधा
 को बाणसे बाँधने वाला वीर राधावेध को सिद्ध करनेवाला
 माना जाता है । श्रीचन्द्र कुमार ने अपने मित्र को ये सारी
 बातें समझा कर उचित स्थान पर बैठ गया ।

इतने में वहाँ बाजे बजने लगे । चलो, हटो की
 आवाज़ आने लगी । सब एक तरफ हो गये । सुन्दर वैवा-
 हिक वेश पहिने परिवार के साथ राजकन्या पालकी में
 बैठ कर सभा मण्डप में आई । पालकी से अभ्रान्त भाव

से उतर कर हाथों में वरमाला लिये वह खम्भेकी जिमण तरफ आकर खड़ी हो गई । हजारों आंखें एक साथ ऊपर आकृष्ट हो गई । उसके सौन्दर्यामृत पान में राजलोग इतने लीन हो गये जो उन के मन शरीर से बाह हो गये । सिंहासन पर केवल शरीर मात्र ही रह गये ।

श्रोचन्द्र ने मित्र से कहा मित्र! अलौकिक सौंदर्यमयी इस राज-बाला का कहां तक वर्णन करें यह तो—

अनाघ्रातं पुष्पं किसलय मलूनं कररुहैः

अनाविद्धं रत्नं मधुनव मनास्वादितरसम् ।

अखण्डं पुण्यानां फल मित्रच तद्रूप मनघ,

न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥

बिना सूंघा हुआ फूल है । नखों से अछूता यह कोमल पान है । अणवींध रत्न है । बिना चखा हुआ यह नवीन पुष्प रस है । इसका निष्पाप रूप, पुण्यों का मानों अखण्ड फल ही है । न मालूम विधाता किसको इस का भोक्ता नियत करेगा ? मित्रने जवाब दिया अभी सब कुछ सामने ही आया जाता है ।

स्वयंवर मण्डप में श्रीपेण हरिपेण आदि बहुत से राजा और राजकुमार आये हुए थे । तिलकसेन की आज्ञासे वहां के भट्ठे उन सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजाओं के नाम

पिता वंश जाति देश और पुरादि कों का परिचय कराया । अपनी ओजस्विनी वाणी से उन सब को राधावेध के कार्य में प्रोत्साहित किया । भट्टवाणी से प्रोत्साहित राजा लोग क्रमशः राधावेध के खम्भे के पास आते और उस विधि को न जानने के कारण हंसी के पात्र बन कर चले जाते ।

जय आदि राजकुमार भी अपनी अपनी बारी से वहां आये परन्तु लक्ष्य भ्रष्ट रहने के कारण लज्जित और निराश होकर मुंह नीचा किये वहां से हट गये । नरवर्मा राजा ने एक चक्र को तो बांध दिया, पर वाण टूट जाने के कारण वह भी शर्मान्दा होगया । शेष बचे कामपाल वामांग शुभगांग का पुत्र श्रीमल्ल वरचन्द्र और दीपचंद्र के पुत्र आदि जो प्रवीण और विचारवान थे वे लोग तो पहले से ही इस कार्य की गुरुता को सोच कर अपने स्थानों पर ही बैठे रहे ।

जब यह दुष्कर कार्य किसी से पूरा न हुआ तो राजा तिलक सेन उसकी कन्या उसका परिवार और अध्यापक आदि सभी बड़े चिंतित हुए । तब भट्ट ने फिर जोशीली भाषा में कहना शुरू किया—“उपस्थित कोई चीर नहीं है, जो प्रण को पूरा करके सबको

करे ? क्या पृथ्वी निर्भीरा हो गई है ? क्या राजकन्या-को आजन्म क्वारी रहना पड़ेगा ? ठीक है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है । अब भविष्य में ऐसे कठोर प्रण करने का किसी को साहस नहीं करना चाहिये ।

भट्ट की उस तर्जना भरी वाणी से श्रीचन्द्रकुमार की वीरता जाग उठी । मित्र की प्रेरणा ने उस उठती आगमें घृत की आहुति का काम किया ! वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ । खंभे के सन्मुख जा पहुँचा और धनुष टंकार करके धनुष पर वाण को चढा लिया । शास्त्रोक्त विधि से उसने वाण चला कर सबके देखते लक्ष्मण-भूत-राधा-को बंध दिया । चारों और जय२ ध्वनि से आकाश गूँज उठा । प्रसन्नता से कन्या का परिवार वाँसों उछलने लगा । पुरवासी आनन्दातिरेक से "जय चिरंजीव" कह कर फूल बरसाने लगे । राज कन्या का मुख उज्ज्वल हो उठा । उसकी चिंता मिट गई । बड़ी उत्सुकता से आगे बढ़कर उसने कुमार श्रीचन्द्र के गले में वर माला पहिना दी ।

यह कौन है ? किसका पुत्र है ? इस प्रकार कहते हुए और उसके भाग्य-विद्या-बल-बुद्धि और मन्त्र विधि की प्रशंसा करते हुए राजादि सभी लोग वहां आ उपस्थित

हुए, और वहां बड़ीभारी भीड़ और कोलाहल मच गया। भीड़ में अवसर पाकर श्रीचन्द्रकुमार अपने मित्र का हाथ पकड़ कर अपने रथ के पास आ पहुंचा। मित्रने उसे बहुत समझाया कि मित्र ! यहां ठहरो और विवाह करके राजपरिवार और माता पिता को आनन्दित करो।

मित्र को उत्तर देते हुए श्रीचन्द्रकुमार ने कहा—“हे सखे ! तुम्हें इस बात का तो पता ही है कि हम पिताजी को सूचित किये बिना ही चुपचाप यहां आये हैं। अतः अब देर मत करो शीघ्र रथ में बैठो”। इतना कह उसने मित्र के रथ में बैठ जाने पर घोड़ों की लगाम ढीली कर दी। घोड़े हवा से बातें करने लगे।

इधर बन्दी जनों ने श्रेष्ठी-पुत्र श्रीचन्द्रकुमार को पहचान लिया, और सबके सामने उसके दिव्य चरित को प्रकट कर दिया कि यह—‘कुशस्थलपुर निवासी सेठ लक्ष्मीदत्त का श्रीचन्द्र नाम का कुमार है। इसके आठ पत्नियां हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री गुणधर गुरु के पास सारी विद्यायें पढी हैं और सारी कलाओं का अभ्यास किया है। इसके पास सुवेग नाम का रथ है जिसमें पवन-वेग और महावेग नाम के घोड़े जोते जाते हैं। वह महाराज प्रतापसिंह द्वारा प्रदान किये गये कणकोटपुर का अधि-पति है।

यह सुनकर राजा तिलकसेन ने अपने अपने सिपाहियों को कुमार को खोज लाने की आज्ञा दी । राजा की आज्ञा को पाकर कई घोड़ों पर और कई रथों पर सवार होकर उसके पीछे दौड़े परन्तु वह उनके हाथ न आया । वहां उपस्थित राजा लोग उसके दुष्कर कार्य और त्याग की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करने लगे ।

भेजे हुए सिपाही खाली हाथ लौट आये । राजा बड़ा दुःखी हुआ । वह राजकुमारी तिलक मंजरी बेहोश होगई । होश में आने पर वह इस प्रकार विलाप करने लगी ।

हा प्राणनाथ ! आप मुझ अभागिनी को विना वर किये ही क्यों चले गये । अगर विवाह की इच्छा न होती तो राधावेध जैसे दुष्कर कार्य को करने का साहस क्यों किया ? । स्वामिन् ! इस प्रकार रोती विलखती अवला को अविवाहित अवस्था में ही छोड़ कर चले जाना आप जैसे प्रणपूरकों का धर्म और कर्तव्य नहीं है । देव ! आपने मुझे किस अपराध पर यह दण्ड दिया है ! वायु के वेग से भी अधिक तेज उस रथ से मेरी दृष्टि ओझल होगये हो पर मेरे हृदय से आप कभी दूर हो सकते । हे स्वामिन् ! जलहीन मछली के समान

फती हुई मुझे दर्शन रूप जल से जीवन प्रदान करने की कृपा करिये ।

इस प्रकार पत्थरों को भी पिघला देने वाले त्रिलाष करती हुई राजकन्या को उसके पिता और जयकुमार आदि लोगों ने समझा बुझा कर शान्त किया ।

जयकुमार ने सबके सामने कहना शुरु किया ओह वह तो हमारे नगर का रहने वाला, सेठ लक्ष्मीदत्त का कुमार, हमारे पिता का स्नेहपात्र, कणकोट्टपुर का जागीरदार है । उसके लिये अधिक दुःखी मत होओ । यदि राजकुमारी मेरे साथ चले तो हमारे नगर में वह श्रेष्ठिकुमार आसानी से मिल सकता है । मैं भी राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता से ले जा सकता हूँ । इसमें अफसोस करने जैसी कोई बात नहीं है आप सब लोग शान्ति रखें जयकुमार की इस प्रकार आश्वासन भरी बातों से राजा और राजकन्या बड़े ही सन्तुष्ट हुए मानों प्यासे के शीतल जल मिल गया हो ।

स्वयंवर में आये हुए राजाओं को राजकुमारों को हाथी घोड़े और वस्त्राभूषणों से उचित सत्कार करके उनको अपने २ नगरों की तरफ विदा किये । तिलकमंजरी भी बड़ी सजधज के साथ तैयार हुई । त्यों ही मंत्री ने राजा

से प्रार्थना की कि राजन् ! जयकुमार के डेरे से गुप्तचरों द्वारा जो समाचार जानने को मिले हैं मालूम होता है दाल में कुछ काला है। बिना सोचे समझे जय के साथ राजकुमारी को भेजना, खतरे से खाली नहीं।

मंत्री के इस प्रकार चेतावनी भरे वचन सुनकर राजा तिलकसेन ने राजकुमारी तिलकमंजरी को भेजने का विचार स्थगित कर दिया और अपने धीर नाम के मंत्री के श्रीचन्द्रकुमार को लाने के लिये भेज दिया।

इधर श्रीचन्द्रकुमार मित्र के साथ जल्दी से अपने नगर में पहुँच गया। सेठ लक्ष्मीदत्त उसकी राह में अपने आँखे विछाये बैठा था। दूज के चन्द्रमा के जैसे कुमार को घर पर आया देख सेठ ने उसे बड़े प्रेम से स्नेहालित किया। पिता के देरी से आने का कारण पूछने पर इधर उधर के कोई खेल का बहाना बताकर उत्तर को टाल दिया।

कुछ दिनों बाद जयकुमार आदि स्वयंवर से लौट आये। राधावेद्य आदि की साधना का सारा धर्म अपने महाराजा को विस्तार पूर्वक कह सुनाया।

महाराजा ने प्रसन्नता के साथ कहा कि आज मुझे श्रीवन्दन के सफल होने पर उतनी ही खुशी हुई है जितनी

तुम्हारी सफलता पर होती। आज इसने अपने यश के साथ मेरे नाम को भी देश-देशान्तरों में सुप्रसिद्ध कर दिया है। इसने इन सब विद्याओं को कब किस श्रेष्ठ आचार्य से सीखी है। छोटी अवस्था वाले इस श्रीचन्द्र-कुमार का पौरुष प्रशंसनीय है।

मंत्रिराज श्रीमतिराज ने विनय के साथ महाराज से अर्ज की कि—महाराज ! श्री गुणधरोपाध्याय ने इस कुमार को कलायें सिखाई हैं। यह मेरे भतीजे का दोस्त है। इसका चरित्र सदा एक आश्चर्य रूप में देख रहा हूँ। यह कब तो स्वयंवर में गया और कब वहां से लौट आया ? कुछ पता नहीं। महाराज ने आश्चर्य करते हुए यह सब जानने के लिये उन पिता पुत्र को आदर के साथ बुलाने का आदेश दिया।

इधर राधाबेध की अद्भुत बात सुनकर सेठ लक्ष्मी-दान ने प्यार भरे शब्दों में श्रीचन्द्र से कहा—“बेटा बारह प्रहर में तिलकपुर तक जाकर कैसे लौट आये हो” ज्यों ही कुमार अपनी यात्रा के वृत्तान्त को सुनाने लगा उसकी माता सेठानी लक्ष्मीवती भी सुनने की इच्छा से वहां आ गई। कुमार कहने लगा—“पिताजी ! आपको कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, और पूर्व पुण्यों के प्रभाव से ही मैं ऐसा करने में समर्थ हो सका हूँ। दूसरी

वात यह है कि मेरे पास जो घोड़े हैं वे वेग में वायु का भी तिरस्कार करने वाले हैं। वैसे ही सुन्दर सुदृढ उनके उपयुक्त रथ है जिसमें बैठकर मैं चार प्रहर में सौ योजन जा सकता हूँ।

उसके वचन सुन प्रसन्न चित माता-पिता ने कहा “ओ हमारे वीर बेटे ! तूने राधावेध करके राजकन्या के साथ विवाह कर हमें पूज्य क्यों नहीं बनाया ?। वीच में ही उत्तर देते हुए मित्र गुणचन्द्र ने वरमाला आदि के वृत्तान्त को विस्तार पूर्वक कह कर उन्हें और भी अधिक प्रसन्न किया। आपकी आज्ञा के बिना यह काम संपन्न न हो सका। आज या कल में राजकुमारी या तिलक नरेश का कोई मंत्री आने ही वाला है।

मित्र की बातों को सुन खुश हुए माता-पिता कहते हैं—हमारा यह सौभाग्य है जो ऐसा धीर वीर उदार गुणी पुत्र मिला। राजकन्या जैसे अमूल्य रत्न को बिना व्याहे आजाना क्या कुछ कम निस्पृहता है ? इस प्रकार पुत्र की प्रशंसा करते हुए घर में भारी महोत्सव करके लोगों को बधाइयाँ बांटी।

१७

सज्जन साधु पुरुषों के सत्संग में, देश विदेश की
त्तर घटनाओं के दर्शन में, परोपकार करने में, और
प मनोविनोद की साधना में उत्तम पुरुषों का समय
बीतता रहता है ।

चरित नायक श्री चन्द्रकुमार अपने अभिन्न मित्र श्री
चन्द्रकुमार के साथ हमेशा की तरह रथ में बैठ कर
के लिये पूर्व की ओर एक दिन सायंकाल के समय
ल पड़ा । उनके माता पिता अपने योग्य पुत्र के इस
के हमेशा के कार्य क्रम को जानते
क्त रहा करते थे ।

कुमार घर पर नहीं था उस समय महाराजा प्रताप-सिंह के मंत्री ने आकर सेठ से संदेश सुनाया कि आपके चिरंजीवी को बड़े आदर के साथ बुलाया है । सेठ ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि कुमार तो क्रीडार्थ गया हुआ है, चलियें मैं ही महाराज की आज्ञा का पालन करता हूँ । छत्र चासर आदि राजकीय लवाजमे से सन्मानित हुए सेठ मंत्रियों के साथ राज-महल में पहुँचे । महाराज ने उनका अनुपम स्वागत करके पूछा सेठ ! कहियें आपके कुमार ने किस साधन से ऐसे अद्भुत कार्य किये ?

सेठने बड़े विजय से उत्तर दिया महाराज ! मेरे बेटे के पास न तो कोई यंत्र और न कोई मंत्र न कोई जादु-टोना है और न कोई देव की साधना ही । वह तो गुणधर शुद्ध के पास सब विद्याओं में पारंगत हो बड़े धीर वीर और साहसी कामों को करता है । उसके पास पवन वेग महावेग नाम के घोड़ों वाला सुवेग नाम का दिव्य रथ है । इसी पर बैठकर वह असंभव कर््यों को संभव कर देता है । मुझे भी इसकी इस अद्भुत लीला का पता थोड़े ही दिन हुए लगा है । एसा कहते हुए सेठने तिलकपुर की राधावेध की घटना विस्तार के साथ बड़े रोचक ढंग से कह सुनाई और कहा कि देव ! आज भी वह अपने मित्र के साथ वैसी ही कोई क्रीडा के लिये रथमें बैठ कर गया है ।

इसीसे आपकी सेवा में वह न आसका और मुझे उपस्थित होना पडा है ।

यह सुन महाराजाने कहा सेठ ! तुम्हारा पुत्र बड़ा भाग्य शाली और लोकोत्तर चरित वाला है । जब वह क्रीडा से वापस लौटे तब मुझसे जरूर मिलाना । मैं उसे अपने पुत्रों से भी बढकर महत्तम पद प्रदान करना चाहता हूँ । ऐसा कह कर सेठ द्वारा की हुई भेंट को स्वीकारते हुए महाराज ने सेठ को कुमार के लिये वस्त्रालंकार और जागीर प्रदान की । इस प्रकार महाराजा से सन्मानित हो सेठ जगह २ कुमार के गुणग्राम को सुनता हुआ और याचकों को दान देता हुआ घर लौट आया ।

इधर कुमार को रथ में धूमते २ जंगल में आधी रात का समय हो गया । उसे निद्राने आ घेरा । सारथि को रथ खोलने की आज्ञा दी । रथ एक सघन वृक्ष के नीचे खोल दिया गया । मित्रने शय्या तैयार कर दी । कुमार सो गया । मित्र जगता हुआ पहरा देने लगा । उसी वृक्ष की डाली पर बैठे एक शुक युगल ने कुमार के तेजस्वी चेहरे को देख आपस में बातें करना शरु किया ।

कहा हे प्यारे ! इस राज कुमार को दो बीजोरे कर अतिथि-सत्कार करके हमें अपना जी चाहिये । बडे फल के खाने से राज्य के

खाने से मंत्रीपद की प्राप्ति होती है । ऐसा कह उस शुक युगल ने उडकर कहीं से दो वीजोरे के फल वहां लाकर कुमार के सामने रख दिये और उडकर कहीं अन्यत्र चला गया । गुणचन्द्र ने उठाकर उन फलों को अपने पास रखलिया ।

राजकुमार के जगने पर मतिमान् गुणचन्द्र ने उन दोनों फलों को उसके सामने रखकर बड़ी प्रसन्नता से शुकयुगल का वृत्तान्त कह सुनाया । कुमार ने कुशल मनाते हुए उन फलों को सुरक्षित रखने का कह सारथि से रथ जुडवा कर मुसाफरी शुरु की । चलते २ वे एक बड़े तालाब के किनारे पहुंचे । प्रातःकाल होगया था । सबने वहां रुक कर प्रातःकालीन कृत्य किये । यहीं पर मित्र द्वारा दिये राजयोग कारक पहले वीजोरा फल को कुमार ने खाया । मंत्री पद कारक दूसरे वीजोरा फल को गुणचन्द्र और सारथि—दोनों मित्रों में बांट दिया ।

भोजन कार्य से निपट कर कुमार मित्र के साथ उस सुन्दर वन को देखने के लिये इधर उधर घूमतेर वहां शान्त स्वरूप दयालु जितेन्द्रिय और संयम साधना में रमण करनेवाले श्रीसुव्रत नाम के एक मुनीश्वर को देखा ।

साधुओं का दर्शन पुण्यकारी होता है । साधु जंगम-चलते फिरते तीर्थ रूप होते हैं । दूसरे तीर्थ तो समय पर

देते हैं । पर साधुओं का सत्संग तत्काल फल देने होता है । इसीलिये कहा है—

साधूनां दर्शनं पुण्यं—तीर्थ-भूता हि साधवः ।

तीर्थं फलति कालेन—सद्यः साधु-समागमः ॥

कुमार साधु दर्शन से आत्मा को कृतार्थ मानता हुआ वेनय से उन साधु महाराज को नमस्कार करके अपने त स्थान पर बैठ गया । उन मुनिराज ने भी धर्म-रूप आशीर्वाद देकर उन्हें अधिकारी समझ समयो-धर्मोपदेश दिया ।

अथ भव्यात्माओं । मानव जीवन बड़ी कठिनता से होता है । उसमें भी आर्यदेश और श्रावककुल में पाना और भी कठिन होता है । उसके पा लेने पर आरोग्यमय दीर्घ-आयुष्य, सद्गुरु का समागम, व्र-श्रवण, तास्त्रिक बातों की श्रद्धा और सदाचार में फल को लगाना किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त है ।

अथ महानुभावों ! अप्राप्य सामग्री को पाकर के भी दी मानव धर्माचरण से वंचित रह जाता है । इसलिये फल को छोड़कर दान शील तप और भाव पार्थ को लगाना चाहिये । धर्माराधन

अनन्त संसार सागर को पार कर जाता है । अनादिकाल से आत्मा मोह से बेहोश रहता आया है । उसे होश में लाकर व्रत साधना से जीवन को ऊंचा उठाना चाहिये ।

सर्वथा हिंसा-भूँठ-चोरी-विषयसंग और मूर्च्छा के त्याग से पंच महाव्रतों को धारण करने वाला व्यक्ति साधु होता है । जो साधु-जीवन नहीं बीता सकते, उन्हें गृहस्थ धर्म-संर्यादित जीवन रूप सम्यक्त्व मूल वारह व्रतों को धारण करने चाहिये ।

हे कुमार ! तुम्हारे शरीर में छत्राकार तीन रेखाएँ हैं । इससे पता चलता है कि तुम छत्रधारी पिता के पुत्र और छत्रधारी नाना के दोहिते कोई छत्रधारी राजा होने योग्य लक्षणों वाले दीखते हो । इस हालत में अग अधिक साधना तुमसे न होसके तो भी समय पर सामायिक व्रत की साधना और अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु रूप पंच परमेष्ठी नमस्कार मन्त्र का निरंतर स्मरण तुम्हें अवश्य करना चाहिये । शास्त्रों में कहा है-

सामाह्यं कुणतो, सम भावं सावत्रो वडिन्नु दुगं ।
 आउं सुरेसु वंधइ, कम्माण च निज्जरं कुणइ ॥ १ ॥
 समो य सन्व भूणसु, तसेसु थावरेसु च ।
 तम्हा समाह्यं कुज्जा, इइ केवलि भासियं ॥ २ ॥
 दिवसे दिवसे लक्खं, देइ सुवणणस्स खंडियं एगो ।
 इयरो पुण समाह्यं, करेइ न पहुप्पण तस्स ॥ ३ ॥

अर्थात्—जो भव्यात्मा कच्ची दो घड़ि अडतालीस मिनीट तक समभाव से सामायिक करता है वह कर्मों की निर्जरा करता हुआ कम से कम वैमानिक देवता के आयुष्य का अधिकारी होता है । ॥१॥ जो त्रस और स्थावर जीवों के प्रति शत्रु मित्र भाव की विषमता न रखता हुआ समभाव रखता है । वही व्यक्ति सामायिक करने का अधिकारी होता है ॥२॥ एक आदमी हमेशा एक लाख खांडी— (सोलह मण की एक खांडी) सोना दान करता है और दूसरा केवल सामायिक करता है । वह सोना देने वाला सामायिक करने वाले की बराबरी नहीं कर सकता ॥३॥

जहं अहिणा दृष्टाणं, गारुडमंतो विसं पणासेइ ।
 तह नवकारो मंतो, पाव विस नासेइ असेसं ॥१॥
 न य तस्स किंचि पहवइ, हाइणि देयाल रक्ख मारीयं ।
 न कार पहावेण य, नासंति असेस दुरियाइं ॥ २ ॥
 थंभइ जल जलणं चितियमित्तो वि पंच नमुवकारो ।
 अरि-मारि-चोर-राउल-घोरुवसगं पणासेइ ॥३॥
 जे के वि गया मुक्खं, गच्छंति य केइ कम्ममल
 ते सव्वे विय जाणसु, जिण नवकार . . .

अर्थात्—सांप इसे आदमियों के वि
 डि मंत्र नष्ट कर देता है उसी प्रकार
 के पाप रूपी विष को मिटा देता है ।

के जाप करने वाले का डाकिनी वेताल राक्षस और महा मारीकुछ नहीं बिगाड सकते और सारे पाप अपने क नष्ट हो जाते हैं ॥२॥ पंच परमेष्ठि नमस्कार मंत्र के चिंतन मात्र से जल-आग-दुश्मन-प्लेग-चौर-राजा के किये घोर उपसर्ग मिट जाते हैं ॥३॥ जो कोई म त्मा कर्म मल मुक्त हो मोक्ष में गये हैं जाते हैं-और जोयेगे वे सभी नवकार मंत्र के प्रभाव से ही जाते हैं ।

अतः हे महानुभाव कुमार ! नवकार मंत्र का स्मरण सदा करते रहना चाहिये जिससे जीवन मंगलम बन जाता है ।

इस प्रकार गुरुमहाराज के उपदेश को सुन कर प्रति बोध पाये हुए उन श्री चन्द्रकुमार ने गुणचन्द्रने और शारधि ने गुरुदेव से आत्म दर्शन रूप सम्यक्त्व स्वीकार किया और श्रावक धर्म के अधिकारी हो गये । अमृत-स्वा दन से भी अधिक आनन्दित हुए कुमार ने हाथ के कर कहना शरु किया-गुरुदेव ! आप जंगम तीर्थ हैं आपके दर्शन पाकर आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ । की दया के बिना बुद्धिमान पुरुष भी धर्म तत्व को जानने में सफल नहीं हुआ करता है । इस तरह सिद्धि-कलायें-सव प्रा की विद्यायें और आत्म हितकारी धर्मतत्व ये सब गुरु से ही प्राप्त होते हैं । संसार के सुख और संबंधी त

मेला ही करते हैं पर तारणहार तीर्थरूप सद् गुरु का समागम भारी भाग्य से ही मिलता है । मैं आज धन्यों से भी धन्य जीवनवाला आप के श्री चरणों के दर्शन से हो गया हूँ ।

हे भगवन् तत्त्व ! भरे आप के प्रवचन ने मुझे नवजीवन प्रदान किया है । हृदय की आंखें आज मेरी खुल गई हैं । मैं आज पंच परमेष्ठी महा मंत्र का जाप करने की प्रतिज्ञा करता हूँ । इस प्रकार श्री गुरु महाराज की स्तुति और वंदना करके कुमार ने वहां से आगे के लिये प्रस्थान किया ।



भुवन भास्कर दिन मणि सूर्य प्राणि मात्र को अपनी प्रखर किरणों से संतप्त कर रहा था। आकाश से आग बरस रही थी। गरम हवा के झोंके शरीर पर जलते अंगारों के सामान लगते थे। सभी पेड़ पौधे झुलस गये थे। गर्मी के मारे पृथ्वी तबे के समान तप रही थी। ऐसे समय में श्रीचन्द्र कुमार अपने मित्र के साथ सुवेग रथ में बैठ नदी नालों वनों उपवनों को पार करता हुआ एक गहन जंगल में जा पहुँचा था।

गर्मी की अधिकता ने कुमार को भी आघेरा था। उस का मुख मुरझा गया था, और प्यास के मारे उसका

कण्ठ सूखने लगा था। पानी का कहीं पता नहीं लगता था। मित्र बहुत दुःखी थे। वे आपस में कहने लगे, न मालूम आगे क्या होने वाला है ? ” कुमार सूखे पत्ते की तरह कुम्हला गया है। केवल एक यही उपाय शेष रह गया है कि इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ कर जल की तलाश की जाय।

सारथी झपट कर पेड़ पर चढ़ गया। उस ने इधर उधर चारों ओर नजर दौडानी शरु की। थोड़ी ही देर में दक्षिण की ओर उसे एक सरोवर दिखाई पडा। वह बड़ी प्रसन्नता से नीचे उतरा और गुणचन्द्र से बोला “ मित्र यहां से दक्षिण की ओर बगुले और चकवे उडते नजर आते हैं। अतः अवश्य ही उधर कोई तालाब है। सारथि रथ पर बैठ गया और बात की बात में वे तीनों वहां पहुंच गये। सरोवर के किनारे पर आमों का एक सुन्दर वन था। वहीं पर एक सघन आम के पेड़ के नीचे रथ ठहराया गया। दोनों मित्र दौड़कर स्वादिष्ट और शीतल जल ले आये। कुमार ने खूब धाप कर पानी पिया। कुछ स्वस्थ होने पर सरोवर की पाल पर आया, और वहां बैठ कर तलाब की शोभा निहारने लगा। कला पूर्ण पत्थरों की सुन्दर बांधनी को देख कर वह अचरज में डूब गया।

थोड़ी देर बाद मित्रों के साथ तालाब के किनारे २ कुमार घूमने लगा । एक जगह उसने देखा कि कोई धोबी सुन्दर और बहुमूल्य वस्त्रों को धो धो कर धूप में सुखा रहा है । कुमार की दृष्टि धूप में सुखती एक बहुमूल्य और बारीक साड़ी पर पड़ी । उसे देख उससे न रहा गया, और उसने अपने मित्र गुणचन्द्र से कहा—मित्र ! इस साड़ी की ओर देखो । गंध के वशीभूत हुए भौरे इस पर मंडरा रहे हैं । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह किसी पद्मिनी स्त्री की साड़ी है । जिसके पसीने की पद्म गंध से प्रेरित ये भौरे इस पर मंडरा रहे हैं । कहा भी है—

पद्मिनी पद्म-गंधा च मदगंधा च हस्तिनी ।

चित्रिणी चित्र गंधाच, मत्स्य गंधा च शंखिनी ॥

अर्थात्—पद्मिनी स्त्री के शरीर में कमल के समान सुगंध होती है । हस्तिनी स्त्री के शरीर में हाथी के मूत्र के जैसी गंध होती है । चित्रिणी के शरीर में तरबूज की गंध निकलती है, और शंखिनी स्त्री के शरीर में मछली की सी गंध होती है ।

कुमार की बात से आश्चर्य चकित हुए गुणचन्द्र ने धोबी से पूछा हे भाई ! इस स्थान का नाम क्या है ? और ये बहुमूल्य वस्त्र किस के हैं ? धोबीने उत्तर दिया “भाई

तुम विदेशी मालूम देते हो इसीलिये सुनो। यह दीपशिखा नाम की नगरी है। महाराज दीपचन्द्रदेव यहां के शासक हैं। मैं उन्हीं का नल नाम का धोवी हूँ। जिसके किनारे पर आप खड़े हैं—यह यहां का सुप्रसिद्ध पद्मसरोवर नाम-का तालाब है। ये वस्त्र तो महारानी प्रदीपवती के हैं, और जो ये साड़ियां हैं, वे उनकी भतीजी और भतीजी की पुत्री की हैं।

गुणचन्द्र ने पूछा महाराज की भतीजी कौन है ? इस पर धोवीने कहा देव ! सुभगांग राजा की रानी श्री चन्द्र-तीजी महाराज दीपचन्द्रदेव की भतीजी हैं। उनके वामांग-नाम का एक कुमार और शशिकला तथा चन्द्रकला नाम-की दो पुत्रियां हैं। शशिकला को तो उसके पिता—राजा सुभगांगने रत्नपुर के स्वामी महासल्ल नरेश के साथ याह दी थी। छोटी कुमारी चन्द्रकला बड़ी ही रूपवती और अन्दर्य से काम प्रिया रतिका भी तिरस्कार करनेवाली परम रूपवती कन्या है।

महाराजा दीपचन्द्र देव कुल—देवी के कथनानुसार इमिनी चन्द्रकला को अपने यहां ले आये हैं, और यहीं निहाल (नानेरे) में विवाह महीत्सव करेंगे। किसी रानी मुनि की यह भविष्य--वाणी है कि—“यह पद्मिनी

चन्द्रकला किसी राज राजेश्वर की राजमहिषी-पटरानी होगी" ।

पद्मिनी चन्द्रकला माता--भाई आदि के साथ इस समय यहां रह रही हैं । इनके नानाजी ने व पिताजी ने विवाह योग्य सारी तैयारियाँ कर ली हैं । केवल बरक प्रतीक्षा में दिन बीत रहे हैं ।

धोबी के ऐसे वचन सुनकर रथको वहीं छोड़ कुमार अपने मित्र के साथ उस नगरी को देखने के लिये चला तालाब के एक ओर उसने बड़े २ तम्बू गड़े देखे । पास खड़े एक व्यक्ति को उसने पूछा कि यह किसका पड़ाव है । उस व्यक्ति ने कहा--'महानुभाव ! तिलकपुर के प्रधान मंत्री 'धीर' अपने स्वामी तिलक नरेश की आज्ञा से दलबल के साथ कुशस्थल की ओर जा रहे हैं । विश्राम के लिये यहां ठहरे हैं । इस समय मंत्रीराज यहां की राज-सभा में अपने 'वीणारव' नाम के गायक के साथ गये हुए हैं ।

इस प्रकार सुनकर कुमार मित्र के साथ आगे बढ़े । मित्र ने कहा सखे ! लो आपके तो एक और निमंत्रण आ पहुँचा मालुम देता है । इस तरह वे दोनों परस्पर बातें करते हुए मार्गमें आये हुए उद्यान को देखने के लिये अन्दर प्रविष्ट हुए । उनके देवोपम सौंदर्य से आकृष्ट

हुए उद्यान रक्षकने उनको शकुन के लिये अनुपम प्रके हुए आम का फल भेंट किया कुमार ने बड़े आदर के साथ उस फलको लेते हुए, उसे यथायोग्य इनाम देकर सन्तुष्ट किया । भीतर की ओर आगे बढे ।

कहीं आमों पर कोयल बोल रही थी, तो कहीं चम्पा अपनी सुनहरी आभा के साथ सुगंधी बखेर रहा था । कहीं कचनार और कदम्ब फूल रहे थे, तो कहीं गुलाब और बकूल की बहार दर्शकों के मन को मोह रही थी । कहीं अशोक वृक्ष अपनी मस्ती में फूल रहा था, तो कहीं नीबू और लीची के पेड़ लहलहा रहे थे । जगह २ बड़ नीम अर्जुन सरल ताल-हिंताल-मंदार-जामुन-शहतूत-आंवला-कटहल-जम्बीर नारंगियों के हरे भरे पेड़ खड़े हुए थे ।

तरह तरह के फल-फूलों से लदे हुए पेड़ों की अनुपम-छटा को देखते हुए कुमार ज्यों ही किसी निकुंज के पास पहुँचे, त्यों ही उन्हें रूप-लावण्यवती लीलावती साखियों के साथ पुष्प क्रीडा करती हुई साक्षात् वनश्री के समान कोई दिव्य कन्या दिखाई दी ।

कमल पर जिस प्रकार भौरे मंडराते हैं उसी प्रकार उसके अलौकिक शरीर पर भौरे मंडरा रहे थे । यह देख

कुमार ने यह निश्चय किया कि निस्संदेह यह पद्मिनी है। उसे सकाम-भाव से देखता हुआ कुमार धीरे-धीरे २ मि. के साथ उद्यान से बाहर निकल आया।

उधर वह राज कन्या भी धीरे-धीरे ललित गति वाले वी. कुमार को देख कर मोहित हुई अपनी चतुरा सखी से बोली—
प्रिय सखि ! मेरे चित्त के सर्वस्व को चुराने वाले ये पुरुष सिंह कौन हैं ? और कहां के निवासी हैं ? उनके साथ को पूछ कर परिचय तो प्राप्त करो ।

आज्ञा पाते ही चतुरा गुणचन्द्र के पास जा पहुँची और बड़ी नम्रता से बोली—हे आर्य ! मैं चन्द्रकला नाम की राजकन्या की चतुरा नाम की दासी हूँ । कुमारी : यहाँ आप लोगों के दर्शन किये हैं । स्निग्ध भाव से मेरे द्वारा स्वागत करती हुई वे कुमार के नाम और निवास स्थान को जानना चाहती हैं । अतः आप बताने की कृपा करें । और अपना परिचय दें । चतुरा के पूछने पर ज्यों ही मित्र गुणचन्द्र ने प्रसन्न होकर कुमार का कुछ परिचय दिया, त्यों ही कुमारने उसे बलपूर्वक रोक कर नगरी की ओर आगे बढ़ना जारी रखा । नगरी की विशाल सड़कें, कोट कांगरों की कारीगरी सजी हुई सुन्दर दुकानों की श्रेणियां, आकाश से बातें करनेवाले उंचे

उंचे राजमहल और चतुरश्लिपियों के कला कौशल को प्रकट करनेवाले श्रेणिवद्ध भव्य-भवन- इन सबको देखता हुआ कुमार भगवान श्रीआदिनाथ के मंदिर के पास पहुँचा। श्रीजिन दर्शन की भव्य भावना से उसने विधि पूर्वक मन्दिर में प्रवेश किया।

उधर चतुरा से सारा हाल सुनकर कुमार की उपेक्षा-वृत्ति से दुःखी हुई चन्द्रकला ने दृढता से कहा कि मैंने अपने मन से इन कुमार के प्रति पति-भाव धारण कर लिया है। ये कुमार ही इस जन्म में मेरे पति होंगे। मेरा अन्तःकरण ही इसमें पक्का प्रमाण है। इनका पता जानने के लिये हमें इनके पीछे चलना चाहिये। ऐसा कह वह सखियों के साथ कुमार के पीछे पीछे चली। कोविदा नाम की सखी को अपने मन की बातें बताने के लिये अपनी मां चन्द्रवतीजी के पास भेज दी।

इस प्रकार पत्नी चन्द्रकला श्रीचन्द्र कुमार का अनुसरण करती हुई श्रीजिन मंदिर में पहुँची। वहाँ कुमार द्वारा कराती हुई भाव भरी भगवान की स्तुति को सुन कर वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने भी भगवान को विधि पूर्वक वंदन किया। वहाँ चतुराने गुणचन्द्र को इशारे से कुमार का नाम व स्थान पूछा। उसने भी इशारे से ही कुमार

का परिचय—“कुशस्थलपुर के रहने वाले लक्ष्मीदत्त सेठ का पुत्र श्रीचन्द्र कुमार नाम”—बता दिया । चतुरा ने चन्द्रकला को सारे संकेत सुना दिये उसने भी गुणचन्द्र को कुछ विलम्ब करने का संकेत किया । एवं कुमार का परिचय अपनी माता को भी सूचित कर दिया ।

इधर कुमार भगवान की चैत्य-वंदना विधि-पूर्वक करता हुआ मूल मन्दिर से निकल कर बाहर मंडप में लौट आता है । वहां कुशल कारीगरों के द्वारा निर्माण किये हुए हाथी सिंह, शुक सारिकाओं के जोडले, पेड-लता व पतलियों के दिव्य दृश्य देखता हुआ कुमार अपने मित्र-को भी बड़ी बारीकी से दिखाता हुआ द्वार देश के पास आता है । वहां मित्र ने प्रेरणा की कि ‘सखे ! इस स्वर्गोपम स्थान की अवर्णनीय सुन्दरता को कुछ देर के लिये बैठ कर देखने को जी चाहता है’—इष्ट वैद्योपदिष्ट के न्याय से कुमार भी मित्र की बात को मंजूर करता हुआ वहां बैठ जाता है । उतने में पद्मिनी चंद्रकला उसके दृष्टि पथ की अतिथि हुई ।

वह बोला—प्रिय गुणचन्द्र ! देखो तो सही कितना सुन्दर रूप है ? इस कन्या के प्रत्येक अंग से अमृत के झरणे झरते हैं । प्रकृति का यह अनुपम निर्माण नहीं

क्या ? मैंने बहुत सी स्त्रियों को देखी हैं परन्तु ऐसा तोहर रूप किसी का भी नहीं देखा । इस प्रकार स्नेहभरी दृष्टि से प्रशंसा करते हुए कुमार को देख कर गुणचन्द्र मन ही मन राजकन्या की मनोरथ सिद्धि मानी ।

इसके बाद कुमार फिर अपने मित्र गुणचन्द्र से कह लगे—कि भाई ! संसार में सिर्फ मन ही एक ऐसी स्तु है जो मोक्ष और बंधन का कारण है । यह बड़ा ही चंचल है वडे २ योगी महात्माओं के लिये भी दुर्जेय है । सी मन के कारण—

विमुच्यं दृग्लक्ष्यगतं जिनेन्द्रं,
ध्याता मया मूढधिया हृदंतः ।
कटाक्ष-वक्षोज-गमीर-नाभि-
कटीतटीयाः सुदृशां विलासाः ॥

सामने विराजमान जिनेन्द्र देव का ध्यान छोडकर [दुबुद्धिवाले मैंने अपने मनमें स्त्रियों के कटाक्ष स्तन-नाभि और कटि आदि अंगों के विलासों का ध्यान किया ।

मित्र ! वेही मनुष्य धन्य है जो इन लीलावतियों को चक्कर में न फँस कर अपने मन पर काबू रखते हैं । मेरी राय में अब यहां अधिक ठहरना उचित नहीं है । इसा कह कर कुमार वहां से चल पडा ।

इधर गुणचन्द्र ने कुमार श्रीचन्द्र को कुमारी के संकेत से प्रेरित हो कुछ देर और ठहरा ने के लिये राज-भवन आदि दर्शनीय स्थानों को देखने का प्रस्ताव रखा। परन्तु स्त्री लाभ की ओर से निस्पृह वृत्ति वाले कुमार ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जन्दी से रथ की ओर चलते हुए उनसे राजमहल--बाजार--चौराहे--प्याऊँ--बागडियाँ--दुकान-मकान आदि सरसरी निगाह से देख लिये और सीधे रथ की ओर जा पहुँचे।

कुमार की इस निस्पृहवृत्ति को मन ही मन सराहता हुआ गुणचन्द्र इस प्रकार के उदार और आदर्श गुणी दोस्त को पाने के कारण अपनी आत्मा को धन्य मानता हुआ, अपने भाग्य को अत्यधिक मानने लगा। उसने सोचा अभी तक न वह कन्या आई न वह दासी ही यहाँ कहीं दिखाई देती हैं। चलने की उतावल करनेवाले कुमार को कैसे ठहराऊँ ? इतने में उसे बड़ी मधुर मुरजध्वनि के साथ संगीत सुनाई दिया। उसने कुमार से कहा--देव ! इस मधुर संगीत में भारी आकर्षण है। इस देश के इस प्रकार के संगीत का रसास्वादन बार २ कहां होगा ? मेरी राय में इस आनंद का रसास्वाद लेकर फिर पीछे अपने रथ की ओर चलेंगे। कुमारने भी मित्र के इस प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की। संगीत की सुधामधुर स्वलहरी में दोनों दोस्त लीन होगये।

१६

संसार में आदमी सोचता कुछ है। अकृति में कुछ और ही निर्माण होता जाता है। इसी लिये ज्ञानी लोग फरमाते रहते हैं कि निरभिमान भावसे संसार के प्रत्येक काम को करते जाओ। होना है वह होकर के ही रहता है और नहीं होना है वह कितना ही संकल्प विकल्प करते रहो नहीं होगा। संसार का प्रत्येक प्राणी प्रकृति की अनंत शृंखला की एक कड़ी रूप है। प्रत्येक कड़ी दूसरी कड़ियों से जुड़ी हुई है। अपेक्षा रहित कहीं कुछ नहीं है।

दीपशिखा के सेठ वरदत्त को स्वप्न में भी खयाल नहीं था कि मेरे बच्चे के लेखशाला समारोह में मेरे माननीय सेठ लक्ष्मीदत्त या उनके कुमार श्रीचंद्र आसकेंगे।

न कुमार श्रीचन्द्र को ही पता था कि इस समारोह में अपने को पहुंचना है। प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण से खींचे हुए ही कुमार दीपशिखा में केवल मनोरंजन के लिये पहुंचे थे। अपने दोस्त के साथ दीपशिखा की अपूर्व चछटा को देखते हुए अपने पिता के अनन्य अनुरागी वरदत्त सेठ के घर में होनेवाले समारोह संगीत को अनजान अवस्था में देख सुन रहे थे। इतने में अचानक सेठ वरदत्त की दृष्टि श्रीचन्द्र कुमार पर जा पड़ी। उसने कुमार को पहचान लिया। भारी प्रसन्नता से बड़े आदर के साथ स्वागत करते हुए उसने कहा—“अहा ! सेठ लक्ष्मीदत्त के उदार कुमार श्रीचन्द्र के दर्शन पाकर मेरे नेत्र मेरा जन्म और मेरा यह घर आंगन पवित्र होगये हैं। कुमार आप कहां ठहरे हैं ? क्या आप मुझे नहीं जानते जो इस प्रकार अजनबी के रूप में दूर २ खडे हैं। यह विशाल वैभव सब आप लोगों की कृपा का ही तो फल है फिर इस प्रकार परायेपन का भाव क्यों प्रकट किया जा रहा है। आइयें आज मेरे बच्चे के लेखशाला-प्रवेश संस्कार का समारोह चल रहा है। हे कुमार ! इस प्रकार अचानक आपके पुण्य पदार्पण से मेरे घर में सोने के सूर्य का उदय हुआ मैं मानता हूं।

कुमार ने वरदत्त को पहचान लिया। यों ही क्रीडा

करने के लिये घर से निकलना हुआ है और अतर्कित भावसे यहां आना हुआ है ऐसा कहते हुए कुमार को वरदत्तने वडे अनुनय विनय और आदर के साथ घर में लिया। स्नान-भोजन आदि से अपूर्व सत्कार किया।

गुणचंद्र इस प्रकार रुकने से बहुत प्रसन्न हुआ। कुमार की आज्ञा से वरदत्त की प्रेरणा से गुणचंद्र सुवेग रथ को इसी जगह ले आया।

दीपशिखा के व्यवहारियों को पता चला कि कुशस्थल के नगर सेठ-लक्ष्मीदत्त के चिरंजीवी श्रीचंद्र कुमार यहां आये हैं। सबने उन का सुंदर स्वागत किया। सब के बीचमें बैठा श्रीचंद्र शरद् ऋतु के पूर्ण चंद्र की तरह शोभा पाने लगा। वहां उपस्थित भाट चारणों ने कुमार को पहचान कर उन के दिव्य गुणों से भरे कीर्ति काव्य कहने शरु किये। उस समय कुमार और वहां का दृश्य बड़ा ही दर्शनीय हो रहा था।

उधर दीपशिखा के स्वामी दीपचन्द्र देव राजसभा में अपने मन्त्री सामंत सेठ साहुकारों के साथ विराजमान थे। तिलकपुर के मंत्री 'धीर' भी वडे आदरणीय स्थान पर महाराजा के सामने बैठे थे। उन्हीं के साथ आया हुआ वीणारव नाम का मुख्य गायक दूसरे सोलह गयकों के

साथ तरह २ की कला-वाजियों से राजा की प्रसन्न कर रहा था । अंत में उसने अनेक भाषाओं और राग रागणियों से युक्त श्रोताओं के कानों में अमृत जैसा श्रीचंद्र का निर्मल चरित्र गाना शरु किया ।

सभी सभासद उपर को गर्दन उठाये कान देकर मंत्र मुग्ध सुन रहे थे । राजा के पीछे की तरफ परदे की आड़ में बैठी हुई महारानी प्रदीपवती महाराजा की भतीजी राजा सुभगांग की रानी चन्द्रवती आदि रानियां भी बड़े चाव से सुन रही थी ।

इस बीच में कोविदा और चतुरा नाम की दसियों ने आकर कुमारी चन्द्रकला के संकल्पों को स्पष्ट किया । कुशस्थानपुर के श्रीचन्द्रकुमार के प्रति कुमारी का स्नेह हो चुका है । उद्यान में-मिन्दर में कुमार के देखे बाद कुमारी ने दृढ संकल्प कर लिया है कि इस जन्म में यदि पति होगा तो वह कुमार ही होगा । अतः आप लोग उचित प्रबंध करें ।

इस बात को सुन कुमारी की माता चन्द्रवती ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है । कुल-शील का पूरा पता लगे बिना अज्ञान अवस्था में कैसे यह संबंध हो सकता है ? । चलो चाचाजी के पास चलो और उन्हें इस समाचार से अवगत करें ।

राजा दीपचन्द्र के पास पहुंच कर उनकी भतीजी रानी चन्द्रवती ने अपनी कन्या चन्द्रकला के सारे विचार कह सुनाये । सुनकर राजा कुछ हंसते हुए बोले—“विवाह संबंध-जीवन संबंध कहा जाता है । बच्चों के बनाये मिट्टी के घर जैसा वह नहीं है जो जब चाहा बनाया, बिगाड़ा जा सके बिना कुल, शील, प्रभुत्व, विद्या, शरीर, धन आदि के विचार किये, विवाह की बात करनी भी हमें शोभा नहीं देती । एक अपरिचित मुसाफिर को कन्या दान करने में हमारा कोई यश न होगा । मेरे कंवर सहाव राजा सुभगांग देव क्या कहेंगे ? राजन्यों में हम कैसे मुंह दिखायेंगे ? ! बेटा चन्द्रवती ! क्षमा करो । चन्द्रकला का विवाह तो स्वयंवर से किसी राज-राजेश्वर के साथ ही करेंगे ।

उधर चन्द्रकला जिनमंदिर में दर्शन पूजन विधि को करके अपनी माता के पास महल में पहुंची । रास्ते में हताशमनवाली चतुराने माता और मातामाह के द्वारा वर-विषय में जो अरुचि प्रकट की थी उसे राजकुमारी को सुना दी । सुनते ही चन्द्रकला के हाथ पैर शिथिल हो गये । सिर घूमने लगा । वह बेहोश होकर भूमी पर गिर पड़ी । पास में सेवा में खड़ी सखियों ने बहुत प्रकार के

शीतल उपचार कर के बड़ी कठिनता से उसे होश लाई । सारे राज महल में भारी तहलका मच गया ।

यह सारी घटना दौड़ कर प्रियंवदा ने राजकुमारी की माता से कही । वह भी बहुत जल्दी से पुत्री के प्रेम से आकस्मिक हुई घटना के स्थल पर आ गई । पुत्री की वैशिश्या दशा देखकर रानी कहने लगी 'बेटी ! तुम इतनी उतावली हो कर दुःखी क्यों होती हो ? जरा धीरज धारण करो । तुम्हारे कल्याण में ही हम सब का कल्याण है । तुम स्वयं समझदार हो । हमें तुम्हारे पाणिग्रहण की विलासिता है । हम तुम्हारी इच्छा को एक बड़े भारी स्वयंवर बहुत शीघ्र ही पूर्ण करने वाले हैं ।

राजकुमारी ने मां को बीच में ही रोकते हुए कहा- मां ! सती कन्या एक बार जिसे मनसे वर लेती है, उसे छोड़ किसी दूसरे को पति रूपमें स्वीकार नहीं करती है । मुझे स्वयंवर की अब कोई इच्छा नहीं । अन्तिम रूप से मैं आप से सूचित कर देना चाहती हूँ कि इस जन्म में कुशस्थल के श्रीचंद्र कुमार के साथ यदि मेरा व्याहृत हुआ तो मैं आग में जल कर अपने प्राणों को दे दूंगी ।

पुत्री के इस अटल निर्णय को सुन कर रानी चंद्रवती बड़ी चिन्तित हुई । उसने सेवकों के साथ राजा

दीपचन्द्र देव को कहलाया कि स्थिति यह है इसलिये प्राय श्रीचन्द्रकुमार की खोज करावें । चतुराने भी जाकर कुमारी के बेहोश होने आदि का सारा वृत्तान्त राजा से कह सुनाया ।

यह सुन सभा-विसर्जन करके राजा दीपचन्द्र देव और रानी प्रदीवती वहां आये । चार २ पूछने पर हिमालय की तरह अचल रहने वाली कुमारी ने उन सब को वही उत्तर दिया जो पहले अपनी माता को दे चुकी थी ।

इस अवस्था में राजाने सोचा इसके कल्याण के लिये ही हमारा स्वयंवर आदि का विचार था । जब कि यह चाहती है, और यदि चाहना के मुताबिक काम न हुआ तो यह मरना चाहती है । ऐसी अवस्था में हमारे आग्रह का भी न रहना श्रेयस्कर है, आखिरकार विवाह से जो फलाफल होना है वह इन्ही को तो होगा । हम लोग तो निमित्त मात्र हैं । इसमें भी प्रधानता पूर्वकृत-कर्म संस्कारों की ही रहेगी न ? ।

इस प्रकार सोचते २ राजाने श्रीचन्द्र-कुमार की बड़े जोरों से खोज करनी शुरु करदी । थोड़े ही समय में वरदत्त सेठ के घरमें होने की खबर भी मिल गई । वे शीघ्र ही वरदत्त सेठ के घर पहुंचे । वहां रूपमें कामदेव का

तिरस्कार करने वाले श्रीचन्द्र को देख कर राजा दीपचन्द्र
देव आश्चर्य-चकित हो गये ।

राजा को अपने घरपर आये देख वरदत्त स्वागत
लिये शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ । उपस्थित व्यवहारियों
के व श्रीचन्द्र के साथ उनके सन्मुख जाकर बड़े आदर
से उन्हें लिवा लाया । एक रत्नजटित स्वर्ण-सिंहासन पर
राजा के बैठ जाने पर श्रीचन्द्रने राजा को प्रणाम किया
राजा दीपचन्द्रने भी बड़े प्रेम से कुमार को गोद में लिवा
या और किसी अज्ञात दौहित्र-सुख का अनुभव किया
ज्योंही वरदत्त ने कुमार का परिचय दिया, त्योंही वीणा
रव गायक ने कहा देव ! ये वे ही श्रीचन्द्र कुमार हैं
जिनकी कीर्ति-कथा हमने प्रबन्ध में गाई थी । यह कुमार
याचकों के लिये कल्प-वृक्ष के जैसे हैं । हम सदा इनकी
जय मनाते हैं ।

इधर चन्द्रकला को लेकर प्रदीपवती और चन्द्रवती
भी कुमार को देखने की उत्कंठा से वहां वरदत्त के घर
आ पहुँची । शुभ-लक्षण और गुणों से संपन्न कुमार को
देख कर सभी बोल उठे—

“अहो ऐसे गुणवाले इस कुमार को पति बनाने का
निश्चय करके सचमुच चन्द्रकला ने ठीक ही किया है ।
चन्द्रकला चन्द्र के साथ ही तो रहा करती है ।

सेठ वरदत्त और कुमार श्रीचन्द्रने राजा के सामने बहुमूल्य भेंट रखी। राजा ने उसे स्वीकार कर प्रेम के साथ कुमार के लिये वापस कर दिया। कुमार ने भी उसे विनय के साथ मस्तक से लगा, उदार भाव से याचकों में विंतीण कर दी। ठीक ही तो है, किया हुआ दान मनुष्य को महत्ता प्रदान करता है।

वरदत्त ने कहा राजन् ! आज मेरा अहोभाग्य है जो कुमार का व आपका शुभागमन मेरे गरीब घरमें अत-कित भावसे हो गया। मेरे जीवन इतिहास में आज से बढ़कर कोई दिन नहीं होगा ऐसा मैं मानता हूं।

वरदत्त के आभार प्रदर्शन करके चुप हो जाने पर राजा दीपचन्द्रने कुमार को लक्ष्य करके कहा—“कुमार ! राजा सुभगांग की राज कुमारी मेरी दौहिती चन्द्रकला नैमित्तिकों के कथनानुसार विवाह की तैयारी के साथ यहां रह रही है। उद्यान में मंदिर में उसने आपके प्रति पूर्व पुण्य संस्कारों से प्रेरित हो पतिभाव धारण कर लिया है। वह अपने संकल्पों पर मेरु के समान दृढ़ भी है। अतः आप हमारी प्रार्थना से उसका पाणिग्रहण कर उस की इच्छाओं को पूरी करें और हमें कृतकृत्य बनावें।

राजा के वचन सुन कुमारने बड़े धीरे गंभीर वचनों से कहना शुरु किया देव ! बड़े लोगों को उत्तर देना एक-

प्रकार की धृष्टता है उसके लिये मुझे क्षमा करें। आप न देना भी दुर्विनीतता का कारण न बन जाय ऐसा सोच कर कुछ कहता हूँ आप जरा गौर फरमावें।

मैं अपने पिता से केवल क्रीडा करने की आत्मा लेकर ही घर से निकला हूँ। जाति से मैं एक वंशिक पुत्र हूँ। वनिये के घर में राजकन्या को बनियानी बन रहना होता है, जो आपके कुल की शोभा का कारण होगा। कहां वैश्य घर और कहां राजमहल की लीला इसका परिणाम पत्थर के नीचे दबी हुई अंगुली की तरह दुःखदायी ही होगा। विना विचारे किये हुए कार्य लिये हमेशा पश्चात्ताप करना पडता है अतः महरचानी व इस प्रस्ताव को आप मेरे सामने उपस्थित ही न करें।

कुमार की इस निस्पृहता—भरी वाणी को सुन कर राजा रानी और राजकन्या का भाई वामांग सभी क्रमशः कहने लगे—कुमार ! संपत्ती भाग्यकेअनुसार ही मिलती है पिता अपने उसी रूप में रहता है और पुत्र राजा बन जाता है क्या इतिहास इस बात की साक्षी नहीं देता कि कई राजपुत्र मंत्रिपुत्र और श्रेष्ठिपुत्र भाग्य की परीक्षा लिये पृथ्वी पर घूमते हुए पिता के बिना भी राज्य धर और कन्याओं के स्वामी नहीं बने ?

हे भाग्यशाली ! जाति क्या जन्म से ही होती है ?
 १ २ गुणों से भी जाति का निर्माण होता है । इसी
 लिये शास्त्रों में गोत्र कर्म को परिवर्तन शील माना है ।
 आप के गुण क्षत्रियों से किसी तरह भी कम नहीं है ।
 राधावेध की साधना से आपने अपने आपको सर्व श्रेष्ठ
 क्षत्रिय प्रसिद्ध किया है यह भूलने जैसी बात नहीं है ।
 नैमित्तिकों ने जो संकेत किये थे वे सब आप में मौजूद हैं ।

हे महानुभाव ! स्त्री हमेशा पति का अनुसरण कर-
 ती है । ऐसा करने में ही उसकी खानदानी बखानी जाती
 है । इसके विपरीत आचरण से स्त्री उभय भ्रष्ट मानी
 जाती है । अतः सुमराल के व्यवहार को मानने में अप-
 यश की कोई बात नजर नहीं आती न उससे हमें कोई
 दुःख ही होगा ।

हे विवेकी ! पुण्योदय से ही स्त्री पुरुष सुखी होते
 हैं न कि बड़े-छोटे धरमें जाने से ? अतः वैश्यधर और
 राजमहल में अधिक अंतर हमारी नजरों में नहीं आता ।

हे चतुरशिरोमणि ! पद्मिनी चन्द्रकला ने आप को
 जो पति रूपमें चुना है यह अविचारी कार्य नहीं है ।
 अविचारी कार्य संताप का कारण होता है । सोच समझ
 कर किया हुआ काम सदा सुखदायक ही होता है ।

(१५८)

अतः आप हमारी प्रार्थना पर गौर फरमावें और अपनी स्वीकृति प्रदान करावें ।

राज-परिवार के अनुपम युक्ति-संगत आग्रह को देख कर कुमार ने विवाह के लिये मौन स्वीकृति दे दी । सर्व आनन्द आनन्द का उल्लास पूर्ण वातावरण छा गया ।



पुण्यवान् पुरुष सदा निस्पृही होते हैं। संसार में निस्पृही-पुरुषों के पग पग में निधान हुआ करते हैं। पत्थर में हाथ डाला जाता है, और चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती है। इसीसे ज्ञानी लोग सदा फरमाते हैं कि हे भव्यात्मन्त्रों ! स्वार्थ का त्याग कर के निस्वार्थ वृत्ति से धर्माचरण करते रहो। जिससे भावीका निर्माण बड़े सुन्दर ढंग से होगा।

कहते हैं "आड़े हाथ देने से, भोजनमें घी जादा पडता है-इसी प्रकार श्रीचन्द्र कुमारने राजा दीपचन्द्र

देव की पद्मिनी कन्या--चन्द्रकला से व्याह के लिये की हुई प्रार्थना को थोडासा किन्तु परन्तु कर के अपने लिये अधिक गौरव का स्थान प्राप्त कर लिया ।

राजा रानी की और परिवार वर्ग की अनुमति से और श्रीचन्द्रकुमार की स्वीकृति से राजकन्या चन्द्रकलाने बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ कर सुन्दर सुगंधी फूलों के वरमाला कुमार के गले में पहना दी । लज्जावन्त होत हुई तिरछी नजर से कुमार की अलौकिक रूप-माधुरी के अनिमेष भाव से निहार कर मन ही मन अपने जन्म के सफल समझने लगी ।

उस समय कुमार मनमें कुछ सोच समझ कर वह से उठ खडा हुआ और शौचादि का बहाना बना क सारथी समेत अट्टालिका से नीचे उतर आया । गुणचन्द्र ने रानियों से कह दिया कि अगर कुमार रथमें बैठ गया तो फिर गया समझिये हाथ नहीं आने का है । इस बात को जान कर वामांग कुमार और चतुरा अदि सखिय कुमार को घेर कर प्रेम-पूर्वक महल में वापस लिवा लाये ।

कुमार ने एक पान का बीडा देकर चतुरा से कहा अपनी मलकनी को देकर इसके गुणों का वर्णन कराओ-तब कोकिलकण्ठी राजकुमारी ने अपने प्रियके पहिले प्रसाद को पाकर प्रसन्नता से कहना शरु किया ।

ताम्बूलं कटु तिक्त मुष्ण-मधुरं क्षारं कषायान्वित,
वातघ्नं कफनाशनं कृमिहरं दुर्गन्ध-निर्नाशनम् ।
वक्त्रस्याभरणं विशुद्धि करणं कामाग्नि संदीपनं,
स्वामिन्नेभि रिदं त्रयोदश गुणै युक्तं प्रसादीकृतम् ॥

स्वामिन् ! पान कढवा-तीखा-गरम-मीठा-खारा-
वाला-वादी नाशक-कफ नाशक-कीटाणु नाशक-दुर्गन्ध-
ने वाला-मुखका अलंकार विशुद्धि करने वाला कामा-
ग्नि को चेतानेवाला इन तेरह गुणों से युक्त होता है । इस-
को आपने ठीक ही प्रसाद दिया है ।

कुमार ने कहा यह बाह्य पान के गुण हुए आभ्यन्तर
पान कैसा होता है ?-तब कुमारी कहती है—

सन्नाग-पत्राणि मिथः प्रियं वचः
सुप्रेम-पूगानि सुदृष्टि-चूर्णकं ।
संतोष कर्पूर सुगन्ध वर्तिका—
तवेदृशं बीटकमस्तु मे विभो ! ।

हे नाथ ! जो परस्पर में प्रेम वचन हैं वे ही नागरवेल
पान हैं सुन्दर प्रेम ही जिसमें सुपारी है । सद्विवेक-दृष्टि
जिसमें मसाला है । संतोष ही जिसमें कर्पूर है । आपके
पान इस प्रकार का पान बीड़ा मुझे मिलो ।

कुमारी से चतुरा द्वारा पूछे जाने पर कुमार ने कहा—

सत्य वचो-नागर-खण्ड-बीटकं
 सम्यक्त्व-पूगं शुभ-तत्त्व-चूर्णकं ।
 स्वाध्याय-ऋषू र--सुगन्ध--पूरितं
 तदस्तु मुख्यं शिष-सौख्य कारकम् ॥

देवि चतुरे ! मेरे ख्याल में सत्य वचन ही नाग पान का बीड़ा है । सचाई की उसमें सुपारी है । शु तत्व चिंतन का उसमें स्वादिष्ट मसाला है और स्वाध्याय कर्पूर से सुवासित है । वही मुख्य रूप से शि सुख को करने वाला अन्तरंग पान बीड़ा है ।

इस प्रकार काव्य गोष्ठी चलती हो थी उसमें वाम कुमार और चतुराने चन्द्रकला से कहा आप 'श्रीच' इस नाम का वर्णन कीजिये-कुमारी ने उन लोगों आग्रह से कहा—

लक्ष्मी-केलिसरोऽट्टहासनिचयः काष्ठावधू-दर्पणः
 श्यामावल्लिसुमं ख-सिन्धु-कुमुदं व्योमाब्धिफेनोद्गमः ।
 तारागोकुल-शुक्ल-गौरति-गृहं छत्रं स्मर-क्षमापते —
 श्रन्द्रः श्रीसकलश्चिरं विजयतां ज्योत्स्ना सुधा-वापिका ॥

लक्ष्मी का क्रीडा सरोवर, हास्य का समूह, दि रूपी स्त्री के लिये मुख देखने का दर्पण रात्री रूप ल का पुष्प गगनसिन्धु का कुमुद, आकाश रूप समुद्र का तारा रूपी गोशाला की कामधेनु सफेद गाय, रति का व

हामदेव रूपी राजा का सफेद छत्र, और चांदनी रूप अमृत
परी नावड़ी के जैसे श्री शोभावाली चन्द्रकला से संपन्न
'श्रीचन्द्र' देव जयवन्ते रहो ।

इसके बाद सब सखियों ने कुमार से भी कहा—हे
कुमार ! कृपा कर आप भी 'चन्द्रकला' इस नाम का अर्थान्तर-
से वर्णन कीजियें—वारंवार कहने पर श्रीचन्द्र ने कहा—

ॐ कारो-मदन द्विजस्य गगन-कौंडेक-दंष्ट्रांकुर-
स्तारा-मौक्तिक-शुक्ति-रन्धतमसः-स्तम्बेरमस्याङ्कुशः ।
शृङ्गारार्गल-कुंचिका-विरहिणी-मानच्छिदे-कर्त्तरी,
सन्ध्या-वार-वधू-नख-क्षतिरियं-चान्द्रीकला-राजते ॥

संसार में चन्द्रमा की कला क्या है ? तो कहते हैं—
हामदेव रूप ब्राह्मण का अंकार । आकाश रूप सूअर की
राह का अंकुर । तारा रूप मोतियों की सीप । अधेरा
रूप हाथी का अंकुश । शृंगार रूप ताले की चावी ।
विरहिणी के मान को काटने की कैची । सन्ध्या रूप
वेश्या के शरीर में जार पुरुष का किया हुआ नख-क्षत ।
इस प्रकार यह चन्द्रकला चमक रही है ।

इस प्रकार हास-परिहास के बीच होती हुई काव्य-
गोष्ठी को सुनकर सब लोग दंग रह गये । परस्पर लोग
कहने लगे—विधाता ने बड़ी सुन्दर जोड़ी ।

इन लोगों के दिव्य दर्शन में साथ देने के लिये ही माध्व देव का भी आकाश में आना हुआ है। इस प्रकार प्रातःकाल होने पर हमेशा के नियमानुसार सबकी आज्ञा से श्रीचन्द्रकुमार सामायिक-प्रतिक्रमण-देव-पूजा आदि कृत्यों में लग गया।

राजा रानी राजकुमार-कुमारी सभी वरदत्त सेठ से सत्कारित सन्मानित होते हुए अपने राजमहल में आये। प्रातः कृत्यों से निवृत्त हो राजा ने ज्योतिषी से विवाह लग्न पूछा। पण्डित ने कहा देव ! कल वैशाख-शुक्ल-पंचमी का दिन वैवाहिक कार्य के लिये सब रेखाओं से शुद्ध और शुभ है।

राजा दीपचन्द्र-देव ने कन्या के पिता राजा सुभगांग-कहा कि इस समीपवर्ति लग्न में कुशस्थलेश्वर महा-राजाधिराज प्रतापसिंहजी कैसे आ सकेंगे ? इस काम में उनकी उपस्थिति अत्यधिक वाञ्छनीय है। इस पर ज्योतिषी ने कहा महाराज ! यदि आप सबका भला चाहते हैं तो ननु नच किये बिना कल के सुहृत्त में "शुभभ्य शीघ्र"-के न्याय से विवाह कर दीजिये। ऐसी नैमित्तिक की सलाह से विवाह की तैयारियाँ होने लगी। रानी प्रदीपवती ने विचार किया यह मेरी पुत्रीध्ववती के कुशस्थल पुर के नगर निवासी सेठ का पुत्र है। इसलिये

यह उसी का पुत्र है ऐसा मानकर उसने श्री चन्द्र की ओर रहकर वर-पत्नी की तरफसे विवाह के नेकचार करवाये और सप्त-खण्डी महल में विवाह की सारी सामग्री तैयार करवा दी ।

श्रीचन्द्र के पास विवाह के उपयुक्त कुछ नहीं था । अस्त्राभूषणों से लेकर सारी आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध रानी प्रदीपवती ने ही किया कुल स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं । मनोहर वाजे बजने लगे । मनोरंजन के लिये नाच-गान आदि कराये गये । कुमार हाथी पर सवार हो राजकीय सेना और लवाजमे के साथ धूमधाम से विवाह मण्डप के द्वार पर पहुंचे ।

कुलाचार के अनुसार विवाह के सारे रीति—रिवाज पूर्ण किये गये । मातृका मण्डल के पास बैठकर मंगल-गीत गाये जाने लगे । वाजे बजने लगे । पुण्याह पुण्याह का पाठ होने लगा । शांतिपाठ किया गया । वन्दोजन स्तुति पाठ करने लगे ।

लग्नांश की उदय-बेला में ज्योतिषी ने वर-वधू का पाणिग्रहण करा दिया । बादमें सुहाग और पारस्परिक प्रेम को स्थिर बनाये रखने का उपदेश रूप में दोनों को ध्रुव दर्शन कराया । इस प्रकार वहां श्रीचन्द्रकुमार विधि विस्तार पूर्वक बड़े आनन्द से ठाठ सम्पन्न हुई ।

राजा दीपचन्द्रदेवने भी विवाह महोत्सव में और से कोई कोर कसर बाकी न रखी । करमोचनावस में हाथी घोड़े सोना चांदी मणि रत्न आदि सभी गृहस्थ सम्बन्धी राज योग्य आवश्यकीय वस्तुएँ दहेज में प्रदा की । कुमारी की माता रानी चन्द्रवती ने श्रीधरखण्डर द्या मिले हुए दिव्य रत्नहार को और चन्द्रकला के भा वामांग कुमार ने सिंहपुर से लाई हुई सारी सामग्री व बड़े आदर और स्नेह के साथ दहेज में दे दी । चतु कोविदा—प्रियंवदा आदि नामवाली बहत्तर दासियां म वस्त्राभूषणों के दी गई ।

राजा दीपचन्द्र ने कहा कुमार ! इतने दिन कन्य पिहर में स्वेच्छा पूर्वक रही । कभी इसके मनको को बाधा नहीं पहुँचाई गई । अब आज से यह आप अर्धांगिनी बनी है । आप इसके हानि लाभ के कर्ता हैं । हम आप जैसे योग्य जमाई को पाकर निश्चि होते हैं । इस प्रकार कुछ कह सुनकर एक दूसरे अप कर्तव्य भार से मुक्त हुए ।

दूसरे दिन प्रातःकाल में कुमार श्रीचंद्र अपनी नवी पत्नी चन्द्रकला के साथ राजकीय चिह्नों को धार करके हाथी पर सवार हो बड़ी सज धज से शहर

प्रमुख राजमार्गों से होकर सवारी के तौर पर मय--दहेज सामग्री की सजावट के साथ निकले ।

मार्ग में स्थान स्थान पर नाच गान होते जाते थे । गगनभेदी तोपों की गडगडाहट के बीच जोरों की जयध्वनियां हो रही थी । चन्द्रकला अपने भाग्य पर इटलाती हुई मन ही मन प्रसन्न होकर अपने को धन्य समझ रही थी । कुमार स्थान २ पर दान देता हुआ अपने विवाह की खुशी में सजाये हुए नगर की शोभा को देखता जाता था । क्रमशः सवारी निश्चित उतारे पर जा पहुंची । वहां विवाह की बाकी रही सारी विधि सम्पन्न की गई । अपनी तरफ से कुमार ने सारे नगर--निवासियों को भोजन कराया । इस प्रकार चारों ओर खुशी का साम्राज्य छा गया ।

इधर तिलकपुर से आये हुए धीरमंत्री ने विश्वस्त सूत्रों से निश्चय करके भारी प्रसन्नता से श्रीचन्द्रकुमार के पास आकर प्रार्थना की कि "हे कुमार ! तिलकपुर में राधावेध की साधना करके आप चुपचाप चले आये तबसे वहां आपके विवाह की प्रतीक्षा की जा रही है । कृपा कर अब आप को वहां चलना चाहिये ।"

कुमार ने उत्तर दिया--"मंत्रिजी ? आपके इस आमंत्रण का मैं आदर करता हूं । परंतु इस विषय में मेरे पिता

ही प्रमाण हैं । इसका जवाब मैं नहीं दे सकता । आपको इस संबंध में उन्हीं से बातचीत करनी चाहिये ।

कुमारकी इस बात से धीरे-धीरे मंत्री बड़े प्रसन्न हुए । कुमारसे अति सन्मान और सत्कार को पाकर वे कुम्हल स्थल में कुमार के पिता सेठ लक्ष्मीदत्तजी से मिलने के लिये कुमार की आज्ञा लेकर चलदिये ।

कुमारने भी राजा दीपचन्द्र देव से अपने नगर की ओर जाने की आज्ञा मांगी । बड़ी मुश्किल से राजा ने आज्ञा देनी पड़ी । आखिरकार कुमार राजा की दीप सारी देहज-सामग्री को लेकर खाना हुआ । केवल हाथियों को उसने वहाँ-दीप शिखा में ही रखा ।

राजा, रानियों, राजवर्गी, और राज-परिवार के लोगों-नगर-निवासियों के-कुमार को पहुँचाने के लिये नगर से कुछ दूरतक गये । कुमारने उन सब को प्रणाम-विश्राम पर ठहरा कर, अलग-अलग नमस्कार करके, उन सब से विदा मांगी । कुमार के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हुए उन सबने तरह-तरह के आशीर्वाद दिये । अपनी ओर से उचित शिष्टाचार करके मन में हर्ष और विषाद लिखित 'जल्दी दर्शन दीजियेगा' कहते हुए दीपशिखा के नगर की ओर लौट गये ।

रानी प्रदीपवती और माता चन्द्रवती ने भी कुलोचित शिष्या देते हुए कहा—

अभ्युत्थामुपागते गुरुपतौ तद्भाषणे नम्रता,
तत्पादापित दृष्टि रासन--विधि स्तस्योपचर्यस्वयम्
मुप्ते तत्र शयीत तत्प्रथमतो मुञ्चेच्च शय्यामपि,
प्रोच्यैः पुत्रि ! निवेदिताः कुल वधू-सिद्धान्त-धर्मा अमी ॥

बेटी ! गुरुजनों और पति के आने पर अपने आसन से उठ कर उनका स्वागत करना । उनके साथ संभाषण में नम्रता रखना । अपनी लज्जालु दृष्टि को उनके चरणों की ओर झुकाये रखना । आने पर उन्हें आसन देना । अधिक क्या ? उनको खिलाकर खाना, सुलाकर सोना, जगने से पहिले जगाना, यही धर्म कुलीन स्त्रियों के लिये शास्त्रों में बताया गये हैं ।

इस प्रकार चन्द्रकला को उनकी सखियों को दास-दासियों को सबको यथायोग्य शिक्षा देकर आंखों में हर्ष और विषाद के आंसू भर, आशीर्वाद देती हुई दोनों राजा दीप-चन्द्र देव के साथ लौट आई । वरदत्त सेठ ने भी कुमार की आज्ञा से अपने घर की राह ली । उपस्थित याचकों को वस्त्र-आभूषण घोड़े आदिकों के दान से संतुष्ट करके कुमार ने विदा किया ।

सब के चले जाने पर कुमारने अपने कुटुम्बियों के प्रथम वियोग से व्यथित चन्द्रकला को समभावुभा का शान्त क्रिया। धीरे धीरे की सेना सहित धीरे धीरे चलनेवाली अपनी सेना को पीछे छोड़ दिया। देखरेख के लिये अपने प्यारे मित्र-गुणचन्द्र को नियुक्त कर दिया। खुद सारथी समेत बड़े वेग से रथ द्वारा रास्ता तय करके उसी रात्री में कुशस्थलपुर के बाहर के अपने श्रीपुर स्टेट में आपहुँचा। रथ वहीं छोड़ उसी समय घर गया और कुटुम्बियों से जा मिला।

कुमार को आया देख कर माता पिता बड़े प्रसन्न हुए पूछने लगे कि—बेटा ! पाँच दिन तक तुम कहां रहे ? किसीने बलात् रोके रखा था ? या अपनी इच्छा से कहीं रुके थे ?

कुमार ने कहा पिताजी ! दीपशिखा के वरदत्त सेठ अचानक मिल गये थे। उनके आग्रह से उन के घर पर मुझे वहां होने वाले समारोह में सम्मिलित होना पड़ा। बड़ी मुश्किल से आज उन से विदा होकर आया हूँ।

पिताने कहा बेटा ! तुम्हारे उदार चरित्र और उज्ज्वल गुणों से हम ही नहीं महाराज प्रतापसिंह भी बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्नता को सार्थक करने के लिये उन्होंने

तुम्हारे लिये रत्नपुर नाम का एक बड़ा नगर प्रदान किया है । अब अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करने के लिये एक दिन उनसे अवश्य मिलो ।

कुमारने कहा पिताजी ! आपकी आज्ञासे गुणियोंका समादर करने वाले महाराज की सेवा में उपस्थित होकर अवश्य मैं अपना कर्त्तव्य पालन करूंगा । इस प्रकार कहते हुए कुमार के शरीर पर माता की नजर पड़ी । हाथ में बंधे कंगनदोरडे को देख कर उसने पति से कहा, देखिये कुमार तो कहीं बनडा बन कर आया है । आश्चर्य चकित हुए सेठने कुमार से कहा बेटा ! बताओ तो सही कि क्या बात है ? कुमारने कहा किसी पण्डित का दिया हुआ अप्राप्य वस्तु को प्राप्त कराने वाला यह महा प्रभावशाली कंगन दोरडा है । सेठने कहा-कहीं कोई विवाह करके आये दीखते हो ? क्यों ठीक है न ? इस पर कुमार चुप हो गया ।

सेठ सेठानी खुश होते हुए कहते हैं बाबा नन्द के फंद गोविंद जानें । कुमार की लीला का कोई आर पार नहीं है । इस प्रकार सभी प्रसन्नता पूर्वक समय बिताने लगे ।



२१

बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल ।

हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल ॥

महापुरुषों की महत्ता इसी में है कि वे अपनी बड़ाई-प्रशंसा खुद नहीं किया करते । बड़े आदमी न बोलते हुए ही पूजा के स्थान बन जाते हैं । हीरा मुंह से कब बोलता है-कि हमारी कीमत लाख रुपये की है ? हीरा तो नहीं बोलता, पर जौहरी उसे मुकुटमणि बना ही देते हैं । ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की महिमा को उनके न बोलने पर भी गुणी आदमी गाते ही रहते हैं ।

कुशस्थलपुर में एक दिन श्रीचन्द्रकुमार अपने महल की छत पर खड़े हुए बाजार का दृश्य देख रहे थे । उनके पिता घर में किसी गृहस्थ सम्बन्धी कार्य में लगे हुए

थे । इतने में बढ़िया बाजों की आवाज़ उनको सुनाई दी । बाजे इतने जोर से बज रहे थे कि उनकी आवाज़ सारे शहर में भर गई थी । लोगों के झुंड के झुंड देखने के लिये इकट्ठे हो रहे थे । चारों ओर से याचकों और पुरवासियों के झुंड से प्रशंसात्मक वचन निकल रहे थे । कोई राज-कन्या अपने राजकीय चिन्हों के साथ वधू वेश में सवारी के साथ पालखी में विराजमान थी । उसे देखकर लोग कहने लगे यह कौन है ? ये कहां जायेंगी ? । सवारी के प्रबंधक रूपमें श्रीचन्द्रकुमार का दोस्त गुणचन्द्र कुमार भी साथ चल रहा था । उन्हें लोग पूछना चाहते थे--इतने में वह सवारी लक्ष्मीदत्त सेठ के विशाल भवन के सामने आकर रुक गई ।

सेठ बाजों की आवाज़ से कुतूहल प्रेरित हो--क्या बात है ? कहते हुए हड़बड़ा कर घर से बाहर निकले । अपने घर को ही लक्ष्य बनाये हुए सैनिकों को देखकर सेठ कुछ डर से गये । सेठ की उस स्थिति को जानता हुआ गुणचन्द्र पास में आकर नमस्कार पूर्वक कहने लगा ।

पिताजी ! सिंहपुर के राजा सुभगांग की राजकुमारी राजा दीपचन्द्र देवकी दौहिती चन्द्रकला नाम की यह आपकी पुत्रवधू है । अभी थोड़े दिन पहिले ही तो कुमार

श्रीचन्द्र ने दीपशिखामें इस कन्या का पाणिग्रहण किया था । क्या आपको पता नहीं है ?

सेठ सेठानी आश्चर्य चकित हुए विस्फारित नेत्रों से अपनी पुत्रवधू को देख रहे थे कि—चन्द्रकला बड़े ही आदर से सास—ससुर के पैरों पड़ी । चिरंजीवी हो, पुत्रवती हो, सौभाग्यवती हो इत्यादि बहुत २ आशीर्वाद दिये । आरती—और मंगलाचार करके पुत्रवधू को घर में प्रवेश कराया । दहेज की सामग्री यथास्थान रख दी गई । कन्यापक्ष के आदमियों को यथोचित उतारे दे दिये गये । वधाइयां बांटी गई ।

अपने २ स्थान में सबके चले जाने पर सेठ ने कहा—बेटा ! ब्याह करके आये और उसकी चर्चा भी नहीं की ? हमारे मनकी उमंग तो मनमें ही रही । अरे ! पता लगता तो नगर प्रवेश का ठाठ तो मैं करता ही । अस्तु, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ । ऐसा कह सेठने चन्द्रकला के लिये और उसके साथ की दासियों के लिये रहने योग्य एक सुन्दर महल दे दिया । कुमार ने भी बड़ी उदारता से अपनी मधुर-वाणी से चन्द्रकला का स्वागत किया ।

सेठ लक्ष्मीदत्त ने पुत्र-विवाह के उपलक्ष्य में बड़े २ सेठ-साहुकार-कौटुम्बिक-स्नेही-नागरिक सभी लोगों को

कई दिन तक जीमाये । कोकिल-कंठी सुहागिन-स्त्रियों ने मंगल गीत गाये । खूब नाच गान हुए । तरह २ के आमोद प्रमोद हुए । याचकों को संतुष्ट किया गया ।

दहेज की सामग्री को देखकर लोग बहुत संतुष्ट हुए । कोई श्रीचन्द्र के गुण और रूप की प्रशंसा करने लगे तो कोई उसके रथ की बड़ाई करने लगे । किसी ने पद्मिनी के रूप की महिमा गाई तो किसी ने सेठ सेठानी का पुण्य सराहा । किसी ने दीपशिखा को धन्य-कहा तो किसी ने कुशस्थलपुर को धन्यवाद दिया । उत्सव बड़े ठाठ से मनाया जा रहा था ।

इसी बीच में जय आदि राजकुमारों ने डाह से जलते हुए कुमार को संकट में डालने की बात सोची । उन्हें पता चला कि तिलकपुर से धीर मंत्री के साथ वीणारव नाम का गवैया आया हुआ है । उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि यदि श्रीचन्द्र प्रसन्न होकर कुछ मांगने के लिये कहे तो उसके रथ का घोड़ा मांगलेना । इसके बदले में हम तुमको भारी इनाम देंगे । लालच बुरी बला होती है । उसीसे प्रेरित हो वीणारव ने भी मंजूर करलिया । जैसी होनी होती है वैसी ही बुद्धि भी हो जाती है ।

वीणारव ने सेठ के मण्डप में जाकर बड़ी सजावट से राधावेध का वर्णन किया। जिसमें राजाओं का और राजकुमारों का आना, उनका नाम-ठाम-वंश वर्णन होना। राधावेध के लिये बारी बारी से उनका उठना, असफल होना, गिरना पड़ना, कांपना, लज्जित होना, लोगों द्वारा तिरस्कार होना, उस समय श्रीचन्द्र का अचानक आना, राधावेध को सिद्ध करना, रथ पर चढ़ कर निस्पृहता से चले आना, कन्या का विलाप, राजाओं की विदायगी, कुमार को लाने के लिये धीरे मंत्री का आना इत्यादि बड़े रोचक ढंग से बयान किया। खुश हुए सेठ ने और दूसरे लोगों ने उसे बहुमूल्य चीजें-धन इनाम में दिया। श्रीचन्द्रकुमार ने उससे कहा-जो इच्छा हो सो मांग लो-तब वीणारव ने-आपके सुवेग-रथ के घोड़ों की जोड़ी में से एक घोड़ा दीजिये-मांगा।

कुमार ने कहा अरे ! मांगकर भी तेने क्या मांगा ? कोई दारिद्र्यनाशक वस्तु तो मांगनी थी। खैर, अपने मित्र गुणचन्द्र को भेजकर सुवेगरथ मंगाया और वीणारव से कहा गायक ! एक घोड़े से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो यह रथ और यह घोड़ों की जोड़ी। और भी धन माल उसे इनाम में दिया। चारों ओर से वाह ! वाह !! की जयध्वनि होने लगी।

वीणारव गायक ने श्रीचन्द्र की तारीफ में कई अद्भुत लोकोपदेश पढ़े ।

आस्ये पद्मधिया गभीरहृदये वारानिधेः शंकया
नाभौ पद्मनदभ्रमात्कम-कर-द्वन्द्वे ऽरुणाब्जेहया ।
फुल्लेन्दीवर-वाञ्छया नयनयो दन्तेषुवज्राकर-
भ्रान्त्या कल्पतरुभ्रमेण वपुषि श्रीचन्द्र ! ते श्रीरभूत् ॥

अर्थात्-हे श्रीचन्द्र ! आपके मुख में कमल मानकर,
गभीर हृदय में समुद्र की शंका से, नाभि में पद्महृद की
शान्ति से, चरणों में और हाथों में लाल कमल की भावना
से, नयनों में नील कमल की चाहना से, दातों में वज्राकर
की भ्रान्ति से, और शरीर में कल्पवृक्ष के भ्रम से लक्ष्मी
ह रही है ।

क्षारो वारिनिधिः कलंक-कलुषश्चन्द्रो रविस्तीव्ररुक्,
जीमूतश्चपलाश्रयोऽर्थि-पटलादृश्यः सुवर्णाचलः
काष्ठं कल्पतरुर्दृषत्सुरमणिः स्वर्धामघेनुः पशुः
श्रीचन्द्रास्ति सुधा द्विजिह्वविधुरा तत्केन साम्यं तव ॥

अर्थात्-हे श्रीचन्द्र ! अगर तुम्हारी समता समुद्र से
करें तो वह खारा है । चन्द्रमा से करें तो वह कलंकी
है । सूर्य से करें तो वह असह्य ताप वाला है । बादल से
करें तो वह जलाने वाली चपल बीजली का आश्रय है । मेरु

से करें तो वह याचकों के अगोचर है । कल्पवृक्ष से करें तो वह काष्ठरूप है । चिन्तामणि से करें तो वह पत्थर है । कामधेनु से करें तो वह केवल पशु ही है, अगर अमृत से करें तो वह शेषनाग आदि सांपों से बिरा हुआ है अतः हे कुमार आप उपमा के अभाव में अनुपम हैं ।

उस समय वहां दूसरे भी कई कवि उपस्थित थे । उन्होंने भी श्रीचन्द्र की प्रशंसा में बड़े सुन्दर २ श्लोकों की रचना सुनाई । कुमार ने उनका भी यथायोग्य धन और वस्त्राभूषणों से सत्कार सन्मान किया । इस प्रकार अन्यान्य भाट चारण आदि याचकों को कुमार ने इच्छा से अधिक दान देकर सन्तुष्ट करके विदा किया ।

वहां उस समय उस उत्सव में आये सभी लोग कुमार द्वारा सन्मानित और सत्कृत होकर कुमार की उदारता से चकित चारों ओर कुमार के गुणों की और भाग्य की प्रशंसा करने लगे । लोग कहने लगे राजा और राजकुमार भी क्या दे सकते हैं जितना कि इस श्रेष्ठि-कुमार ने दान दिया है । इस प्रकार सुन्दर वस्त्रालंकारों से सुसज्जित स्त्री-पुरुष प्रसन्न हो अपने २ उतारे पर गये ।

रथ के हाथ से निकल जाने पर सेठ लक्ष्मीदत्त को बेहद दुःख हुआ । साथियों ने भी नमक मिर्च लगाकर

को उत्तजित किया। सेठ ने कुमार से एकान्त में
 पा—ओ मेरे प्यारे बेटे ! तुमने जो कुछ दानादि कार्य
 किए, ठीक किये। पर पिता होने के नाते कुछ कहना
 चाहता हूँ। बेटा ! अपन बनिये हैं। राजाओं से आगे
 दान नहीं करना चाहिये। तुम स्वयं भी जानते ही
 हैं, धीरमंत्री से भी तुमने सुना ही है, कि वे जयकुमार आदि
 जयकुमार तुमसे द्वेष रखते हैं। वे छिद्र देखते हैं। मौका
 मिले ही तुम्हें हानि पहुँचाना चाहते हैं। अगर सावधानी
 नहीं रही तो वे प्राण लेने से भी नहीं चूकेंगे। बेटा ! तनिक
 सोचो, जिन घोड़ों की कृपा से तुमने इतनी पृथ्वी
 जीती और बड़े २ असम्भव कार्य भी किये हैं, उन घोड़ों
 का विना सोचे समझे योंही किसी को क्या दान कर देना
 चाहिये था ? पुत्र ! कहना मानो, घोड़ों समेत रथ का
 मूल्य देकर वापस लेलो।

अपने पिता के वचनों का उत्तर देते हुए श्रीचन्द्र
 ने कहा—“पिताजी ! मनुष्य को कभी अपने आपको
 किसी से भी हीन नहीं समझना चाहिए। मैं वक्काल
 बनिया नहीं बनना चाहता हूँ। पहले शाह फिर बादशाह
 की कहावत को मैं चरितार्थ करना चाहता हूँ। माना कि
 वे राजकुमार मेरे से द्वेष करते हैं, पर मनुष्य को हमेशा
 तदवीर करते हुए भी अपने तकदीर पर भरोसा रखना

चाहिये । किसी की भी ताकत नहीं, जो सीधा राह चलते हुए हमारा कोई बाल भी बांका कर सके । पिता जी ! आपकी अंतिम बात रथ को वापस लेने के लिए है-क्षमा कीजिये । आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे कर्तव्य होते हुए भी मैं पालन नहीं कर सकुंगा । क्योंकि "दान को वापस लेना"-मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कभी सीखा भी नहीं । भाग्य से मिली वस्तुयें फिर भी भाग्य से ही आ मिलेंगी । मुझे इसमें कोई संदेह नहीं ।

पुत्र के प्रत्युत्तर को पाकर सेठ हतप्रभ होकर चूमत हुआ बोला-वत्स ! छोटे मुँह बड़ी बात नहीं करना चाहिये ! ये घोड़े, ऐसा रथ अन्यत्र अप्राप्य है । इनका दान मुझे ठीक नहीं मालूम देता । अतः इनका मूल्य देकर ले लेना ही ठीक होगा ।

पिता की बात सुनकर कुमार चुप होगया, और अपने महल में चला गया । एकान्त में सोचने लगा-अहं परतन्त्रता में कितना दुःख है । इसी पराधीनता से आदम कि कर्तव्य मूढ होकर कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता है । अतः अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिये । अगर मैं यहाँ रहूँगा तो स्वाधीनता से मुझे घुमने-फिरने, लेने-देने और प्रत्येक काम में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । अ

मेरा यहां बख़्तर के लिये भी ठहरना अनुचित है ।
तो साहसी हूँ । साहस से क्या सिद्ध नहीं होता ? कहा
भी है—

को विदेशः सुविद्यानां, कि दूरं व्यवसायिनाम् ।

कोऽतिभारः समर्थानां, कःपरः प्रिय-वादिनाम् ॥

अर्थात्-विद्वानों को कोई विदेश नहीं, व्यवसाय कर
ने वालों को कोई स्थान दूर नहीं, समर्थ पुरुषों के
लिये कोई भार, भार नहीं और प्रिय बोलने वालों के
लिये कोई पराया नहीं हुआ करता है ।

साहस के साथ की हुई विदेश यात्रा से अनेकों लाभ
होते हैं कहा भी है—

दीसइ विविहच्छरियं, जाणिज्जई सुयणदुज्जणविसेसो ।

अप्पाणं च कलिज्जइ, हिंडिज्जइ तेण पुहवीए ॥

अर्थात्-अनेक प्रकार के आश्चर्य देखने को मिलते
हैं । सज्जन दुर्जनों की विशेषतायें भी जानने को मिलती
हैं । अधिक क्या ? आदमी को अपनी ताकत का भी अंदाज
लग जाता है । इसीलिये पृथ्वी में विदेश यात्रा के लिये
चलना चाहिये ।

कुमार सोचते हैं आज रात को ही चुपके से मुझे यहां चल देना चाहिये। मुझे थोड़ा बहुत विचार-नवपरिष्कृत चन्द्रकला का है। यह मेरे विना जल हीन मीन की तरह छटपटाती हुई प्राणों को कैसे धारण कर सकेगी। इस मेरे लिये अपने माता पिता को और राज्य-सुखों को छोड़ कर, दर्शनमात्र से ही मुझे अपना लिया है। यह मुझे अत्यन्त अनुरागवाली है। इसने मेरे लिये राज-कुल-रीति-रिवाजों और नियमों का परित्याग करके बणिक-के रीति-रिवाजों एवं नियमों को विना किसी हिचकिच के अपनाये हैं। इस हालत में इस प्यार की प्रतिमा को 'घर का कुत्ता घर का न घाट का' जैसी हालत में छोड़ना भी क्या ठीक होगा? अगर मैं ऐसा करता हूं तो संसार में इससे बढकर दूसरा क्या अन्याय, और विश्वासघात सकता है? दुनियां मेरे ऐसे कर्तव्यों पर धूकेगी, और मुझे घृणा की दृष्टि से देखेगी।

तो क्या मैं ऐसा साहस न करूं? नहीं ऐसा कदा भी नहीं हो सकता। मैंने अपने विचारों से पीछे हटना कभी सीखा ही नहीं। मैं उन पुरुषों में से नहीं हूँ, जिनके मते रथ अधूरे ही रहजाते हैं अतः मैं यहां से जाऊंगा। जरूर उसमें कोई संदेह नहीं। मैं पुरुष हूँ, पुरुषार्थ मेरा धर्म है। अगर मेरे विचारों और स्वतंत्रता के मार्ग

कोई रोड़े आयेंगे तो मैं उन सब को चीरता-फाड़ता फाँद-
गा-लांघता चला जाऊंगा। मैं अपने विचारों से तनिक
भी टस से मस नहीं होऊंगा।

मुझे नतो किसीका भय है, और न किसी की चिन्ता
है। यदि थीड़ी बहुत चिन्ता है तो चन्द्रकला की है।
अतः इसे अपने दिल की बात कह कर के, ठीक ढंग से
समझा बुझा कर, प्रसन्न करके ही जाऊंगा।



मन के हारे हार है, मन के जीते जीत ।
मनोयोगतें होत है, नीच ऊंच परतीत ॥

जीवन में मन-मजबूत आदमी ऊंचे उठते हैं । मन की विचार धारा ही हमारे आचारों को ठीक और बेठूक बनाती है । की हुई प्रतिज्ञा को निभाने में मन ही तो कारण होता है । अगर मन शिथिल हो जाय, तो मानव महामानव नहीं बन सकता । शिथिल मन वाले की स्थिति घास फूससे भी गई वीती होती है ।

श्री चन्द्रकुमार अपने मन की तरंगों का तोल जोर कर रहा था । मजबूती से अपने जीवन में मनोयोग को लगा रहा था । अपनी जीवन-संगिनी चन्द्रकला को भी

अपने मनो विचारों के अनुकूल बनने की वह सोच रहा था। ऐसे प्रसंग में वहाँ उसका अभिन्न-मित्र गुणचन्द्र भी पहुँच जाता है। दोनों आपस में कोई बात छिपाते नहीं थे। जो बात श्रीचन्द्रकुमार को दूसरे आदमी नहीं कह सकते थे, वह बात गुणचन्द्रके द्वारा कुमार के पास पहुँच जाती थी।

आज भी ऐसी ही एक घटना को लेकर कुमार के पास गुणचन्द्र पहुँचा है। अपने विनीत-विचारों को बड़ी गंभीरता से वह कुमार के सामने रखता है—

माननीय कुमार ! पिताजी के उस समय के वचनों को सुन कर गायक वीणारव ने मेरे द्वारा आपसे प्रार्थना करवाई है, कि मैंने जयकुमार आदि राज-कुमारों की सिखावट से ही रथ और घोड़ों की मांगनी की थी। मैं राज-कुमारों के पास नहीं जाऊँगा। आप कृपा करके दान किया हुआ रथ मुझ से ले लें, और उसके बदले में यथायोग्य सुवर्ण प्रदान कर दें। आप को रथ दान का बड़ा भारी फल तो प्राप्त हो ही चुका है। गायक वीणारव उस रथ को और घोड़ों को वापस आपही को बेचना चाहता है। आप सारे संकोचों को छोड़ कर इस बात को मान लें। वह कहता है, हमतो आपके याचक हैं, और रहेंगे। आपने जितना दान दिया है, उतना और कौन

देगा ? अतः आप कृपा करके एवजाना देकर इस रथको वापस ग्रहण कर लें ।

यह सुन कुमारने मित्र-गुणचन्द्र से कहा, "मित्र ! जाओ, उस गायक से कह दो, कि जो कुछ तुम को दिया गया है, वह तुम्हारा ही है । दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लिया जाता । विचार शील पुरुषों के मुंह से निकले हुए वचन हाथी के दांतों की तरह वापस अन्दर नहीं जाते । जो कह दिया, सो कह दिया । वह तो अमिट रेख बन ही जाती है । इसके हजारों उदाहरण भारतीय इतिहास में भरे पड़े हैं—

सिंह-गमन सुपुरुष-वचन-केल फले इकवार ।
तिरिया-तेल हमीर-हड-चढे न दूजीवार ॥

और भी—

सकृज्जल्पन्ति राजानः, सकृज्जल्पन्ति पण्डिताः ।
सकृत्कन्याः प्रदीयन्ते, त्रीण्येतानि सवृत् रुकृत् ॥

अर्थात्—राजाओं के वचन, उन्नम पण्डितों के वचन जो निकल गये वो निकल गये, वार २ नहीं बदलते, और कन्या भी एक वार ही व्याही जाती है वार वार नहीं । अतः उस वीणारव गायक से कह दो, कि अगर तुम्हारी

और कुछ लेने की इच्छा हो तो मांग लो, और लेकर चले जाओ । रथ वापस नहीं लिया जा सकता ।

कुमार की इस दृढ़ भावना को जानकर गुणचन्द्रने वीणारव को वहां से विदा किया । वह वापस कुमार के पास आया । कुमारने भावी वियोग की सूचना बड़े दुःखित हृदय से देते हुए कहा, “मित्र गुणचन्द्र ! मेरे और पिताजी के विचारों में अंतर है । स्वभाव के न मिलने से हर बात में खींचातानी बनी रहती है । इस हेतु से मैं अपनी उन्नति और उत्कर्ष में बाधा पहुंचाने वाले पिता के पास नहीं रह सकता । अपना स्वाधीन जीवन बीताने की भावना से मैं यहां से अन्यत्र जाना चाहता हूँ ।

एकाएक कुमार की बात को सुन घबड़ाया हुआ गुणचन्द्र कहने लगा—कुमार ! क्या कहते हो ? ऐसा करना ठीक नहीं होगा । आपको किस चीज का अभाव है ? धन धान्य ऐश्वर्य और सम्पत्ति सभी तो आपके पास हैं । आप अपनी इच्छानुसार आप को ऐसे विचार मनमें नहीं

इस प्रकार मित्रों की व
जय नाम का सारथी ।
और कुमार से कहने लगा,

वीणारव परिवार के साथ रथ पर बैठ कर अपने घर की ओर रवाना होने लगा, तो वे दोनों उत्तम घोड़े हठात् उसे श्रीपुर की ओर ले गये। प्रयत्न करने पर भी वे उसके घर की ओर न चले।

कुमार घोड़ों की स्वामी भक्ति को समझ गया। वह कुछ घुड़ सवारों को साथ ले कर श्रीपुर जा पहुँचा। अपने स्वामी को देखते ही घोड़े हिनहिना उठे। अपनी मूक वाणी में स्वामि के प्रति स्नेह सम्मान प्रदर्शित करने लगे। कुमार की आंखें भी इस पशु-प्रेम से छल-छला गईं।

वाद में कुमार ने घोड़ों की पीठपर बड़े प्यार से हाथ फेरते पुचकारते हुए कहा प्यारे वाज-बहादुरों! तुम्हारे गुण अवर्णनीय हैं। तुमने मुझे अपार सुख दिया है। मैं तुम्हें अपने से जूदा करना नहीं चाहता था, परन्तु क्या किया जाय, समय ही ऐसा उपस्थित हो गया, कि मुझे अपने वचन की रक्षा के लिये तुम्हें इस गायक के हाथ सौंपना पडा है। अतः अपने स्वामी की वचन-रक्षा के लिये इसके साथ तुम खुशीसे जाओ। तुम बड़े स्वामीभक्त हो। अधिक क्या कहूँ।

यह सुनते ही घोड़ों ने अपने स्वामी के प्रति कृतज्ञता जताते हुए वीणारव को लेकर उसके गम्य प्रदेशकी

और मुड़े। वीणारव भी कुमार को आशीर्वाद देता हुआ अपने घर की ओर चला गया।

विदेश-गमन के अपने दृढ-विचारों को कार्यान्वित करने के लिये कुमारने मित्र-गुणचन्द्र को सभी अधिकारियों का स्वामी, और धनंजय को प्रधान सेनाधिपति बना दिया। इसी तरह नगर-रक्षक, दुर्गरक्षक, प्रासाद-रक्षक आदि २ पदों पर योग्य २ अधिकारियों की नियुक्ति करके अपने २ कामों को सुचारु रूपसे संचालित करने की आज्ञा दे दी। महाराज प्रतापसिंहसे प्राप्त श्रीपुर नगर को कुमार ने दूसरी अमरावती बना दिया।

बाद में कुमार ने राजसी वेश-भूषा और राजसी ठाठ चाठ के साथ राजा की तरह अपने भवन में प्रवेश किया। इधर तिलक पुरकी राज कुमारी के साथ कुमार के व्याह का आमंत्रण लेकर आने वाले प्रधान श्रीधीर मन्त्री गुणचन्द्र के साथ सेठ लक्ष्मीदत्त के पास पहुंचे और सेठ को कुमारके विवाह का निमन्त्रण दिया।

सेठ लक्ष्मीदत्त ने मंत्री से कहा—‘महोदय ! आप दो दिन और प्रतीक्षा करें। एक दो दिन में कुमार श्रीचन्द्र महाराजा से मिलने को जायगा तब आप भी साथ चले जाना, और विवाह के लिये निवेदन कर देना। महाराजा की आज्ञा मिलते ही हम कुमार को तिलकपुर भेज देंगे।

हमारी पुत्र-वधू चन्द्रकला महारानी सूर्यवती की भानजी हैं अतः यह भी उनसे मिलेंगी ।

वीर मंत्री ने भी सेठ के विचारों को पसंद किया, और महाराजा से मिलने की प्रतीक्षा करता हुआ अपने उतारे पर पहुंच गया । मित्र-गुणचन्द्र ने कुमार श्री-चन्द्र को इन-सारी बातों से सूचित कर दिया । कुमार भी मित्र के साथ कुछ गुप्त-मन्त्रणा करके वहां से उठा और भोजनशाला में जा पहुँचा । वहां सेठानी से “माता जी ! मुझे भूख लगी है लड्डु दीजियें” कह कर भोजन करने बैठ गया ।

वात्सल्यमयी माताने बड़ी-प्रसन्नता से उसे थालमें बहुत लड्डु परोसे । उसने अपनी पत्नियों उनकी सखियों आदि सभी को लड्डु वांटे और खुदने भी खाये । इस प्रकार अपने सारे कुटुम्ब के साथ-वैकालिक-दुपहरी करके वह कुमार श्रीचन्द्र अपने महल में आया । अपनी रीयासत कणकोट्टपुर के मंत्रियों के साथ लिखा पढी के काम में भी गुणचन्द्र को नियुक्त किया दूसरे भी जिस २ को जिस २ काम पर नियुक्त करना था, किया । इस प्रकार विदेश जाने से पहिले सारी तैयारी जो करनी थी, कर ली । महापुरुषों की महत्ता उनके विचारों की दृढता और योग्य कार्य-सरणी को अवलम्बित हुआ करती है ।

सूर्य अपने प्रकाश को समेटता हुआ पश्चिम की ओर जा पहुँचा । व्यापारी अपने ग्राहकों को निपटाते हुए दुकान से घर की ओर चलने की तैयारी करने लगे । गुमास्ते नौकरी बजाकर अपने बाल-बच्चों से मिलने की उत्कंठा से प्रसन्नता के साथ अपने स्वामियों की दृष्टि से ओझल होने लगे । धार्मिक लोग सूर्य-नारायण के अस्त होने के दुःख से रात्री भोजन को पाप रूप मानकर दिन रहते रहते भोजन-विधि से और जल-पान से निवृत्त होने लगे । संध्या की उपासना के लिये ब्राह्मण अपने गायत्री मंत्र जाप के साथ संध्योपासना करने लगे मन्दिरों में भगवान की आरती उतारने की तैयारी में बच्चे अपने प्रिय घण्टा-घड़ियालों को बबाने की धुन में मन्दिरों में

पहुँचने लगे । संध्या के शंख फूँके जाने लगे । पंद्रह दिन भर चुगा करके अपने घोंसलों को और नन्हें बच्चों को चुगाने और प्यार करने लगे । गाय-भैंसों के घोंसलों से चर कर अपने मधुर दूध से अपने पालकों के पात्र भर कर जुगाली करने में लग गये । आकाश तारुण्य-वर्णी-लाल सूर्य हो गया । बादले पहाड़-हाथी-घोड़ा आदि रूपों में परिणत होते और बिखरते हुए संसार की असाधारणता के पाठ पढा रहे थे अर्थात् पूर्णतया संध्या-वेला चली चुकी थी ।

कुमार श्रीचन्द्र अपने विदेश-गमन के दृढ विचारों को कार्य रूपमें परिणत करने से पहिले, अपनी प्राणप्यारी चन्द्रकला के महल में उसकी आज्ञा पाने के लिए पहुँच गया ।

हर्ष की अधिकता से उत्कण्ठित चित्त वाली चन्द्रकला ने अपने प्राणनाथ की पधरावणी में अपने चिरकाल के मनोगत संकल्पों की सिद्धि का साक्षात्कार किया । खूब घुल घुलकर मीठी प्यार भरी बातें की । आपस में उनका मनोमेल हुआ । बाणी में वे एक-रस हुए । काम से भी उनने अद्वैत का आनन्द लिया । चन्द्र को पाने की कला पूर्ण प्रसन्न हो रही थी तभी कुमार ने अपने मनोभाव उसे कहने शुरु किये ।

प्रिये ? आज पिताजी ने मुझे वीणाखण्ड को रथ-दान करते हुए टोका । इस थोड़े से दान से भी वे रुष्ट होते हैं, तो वताओ ? मैं कैसे अपनी इच्छानुसार दान कर सकता हूँ । पिताजी ने आज से पहिले कभी कुछ न कहा, और मैंने भी उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया । परन्तु आजकी बात से मेरा दिल टूट गया । दान किये घोड़ों को मूल्य देकर वापस लेने का पिताजी का आग्रह मुझे ठीक नहीं मालूम दिया ।

अयि चतुरे ! मैं मानता हूँ कि-माता पिता और गुरु की शिक्षा अमृत से भी अधिक मूल्यवान् होती है"- फिर भी उसे मैं मान नहीं रहा हूँ । अतः मैं पुण्य हीन हूँ, क्योंकि आज मेरा मन भी हठी हो रहा है । देखो ! पिता की आज्ञा से राम वनवासी हुए । पिता को सुख पहुँचाने के लिये भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचारी रहना स्वीकार किया । पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी ही माता का सिर काट लिया । अब तुम्हीं वताओ पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मुझ जैसे कृतघ्न की क्या सभ्य संसार में हँसी नहीं होगी ? कहा है—

तात मात गुरु स्वामी सिख

सिरं धर करहि सुभाय ।

इस प्रकार रोती-विलखती चन्द्रकला को आश्वासन
हुए कुमार ने कहना प्रारम्भ किया :—

कल्याणि ! तुम मेरे मन को जानने वाली,
बड़ी धीरज वाली होकर भी आज अपना धीरज खो
हो, यह क्या ? देवि ! रोओ मत । तुम-वीर क्षत्रिणी
हो । संसार के दुःखों को जानती हुई भी अनजान
बन रही हो ? तुम्हारा कहना सब सच है, किन्तु जो
सुसगल वगैरह से मिला है वह मुझे रुचिकर नहीं
सकता । मेरी महत्ता तो मेरी भुजाओं से उपार्जित धन
एवं उसके दानसे ही हो सकती है । तुम पर मेरा बड़ा
स्नेह है, इसीलिये मैं माता पिता और कुटुम्बियों को
पूछ कर केवल तुम्हें ही पूछने-आया हूँ । अतः तुम
छोड़कर धीर मन से मुझे अनुमति प्रदान करो । निज
मैं अपना मन चाहा काम-विदेश-गमन कर सकूँ ।

चन्द्रकला कहती है प्राणाधार ! आपकी विलस
बुद्धि और पुरुषार्थ के सामने मेरा अनुत्तर हो जाना
विशेष बात नहीं है लेकिन आप मेरी इस तुच्छ बात
को भी स्वीकार करें कि यदि आप किसी प्रकार भी
रुक सकते हैं तो इस अभागिनी एवं अकिंचन नारी
भी साथ लेते जावें । सुख दुःख में मैं आपकी सहायता

तथा मेरा स्त्री धर्म भी मुझे बार बार प्रेरित कर कहता कि—मैं आया की तरह सदा आपके साथ साथ बनी। सीता जैसी धीर और महान् नारी भी पतिवियोग के समय क्या कहकर रामको उसे साथ ले जाने के लिए श्रेय करती हुई कहती हैं कि :—

जब लगि नाथ, नेह अरु नाते,
पिय बिन तिय हिं तरणि ते ताते ।
भोग रोग सम, भूषण भारू,
नरक यातना सरिस संसाह ॥

हे स्वामिन् ! जबतक आप हैं तबतक कुटुम्बियों से मैं और—रिश्ता नाता है। पति के बिना स्त्री को वे सूर्य से भी बढकर तपाने वाले हो जाते हैं, भोग रोग समान तथा गहने भारभूत हो जाते हैं, और यह सारा सारा नरक के कष्टों की तरह बड़ा दुःखद बन जाता है। अतः स्त्री संसार में माता पिता आदि के वियोग के दुःख को सहन कर सकती है परन्तु पति के वियोग को क्षणभर भी नहीं सह सकती। य ! मैं आपको ही पूछती हूँ कि क्या सीता राम के वन में नहीं गई ? क्या नल के साथ दमयन्ती वन भटकती नहीं फिरी ? क्या द्रौपदी ने पाण्डवों के

साथ वन में रहकर असह्य कष्ट न सहे ? क्या रमणियां पतिवियोग में जिन्दा जलकर नहीं मरी ? शास्त्रज्ञ होते हुए भी सती माहात्म्य को क्यों भुलाते हैं ? आप महान् हैं, अतः किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर, आपको दुःख बाधित नहीं कर सकते पर मुझ तुच्छ नारी को आपके बिना स्वर्ग में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता । मैं आपके साथ पथ-बाधा वन-धर न रहूँगी तथा आपकी सेवा करती रहूँगी । अतः हे प्राणधार ! मुझे साथ चलने की आज्ञा दीजिये ।

यह सुन करुणार्द्र हृदय कुमार बोला पद्मिनी तुम्हारा कथन अनुचित नहीं पर मार्ग की कठिनाई तुम्हारे कोमल शरीर से कैसे सही जायगी । सूर्य प्रचण्ड किरणों से संतप्त पृथ्वी पर तुम चलने में समर्थ हो सकोगी । कहीं मार्ग में बसेरा मिलेगा कहीं न मार्ग में पद पद पर तुम्हें दुःख होगा, और तुम्हें दुःख देखकर मुझे दुःख होना अवश्यम्भावी है अतः जिस उपकार तुम घर पर रह कर मेरा कर सकती हो उस साथ रहकर नहीं ! तुम्हारे साथ रहते हुए मेरे उद्वेग की सिद्धि में भी कई बाधाएँ उपस्थित हो सकती हैं क्या तुम्हें मालुम नहीं कि राम के साथ वन में लक्ष्मण

को जाते देखकर उनकी सती-स्त्री उर्मिला ने भी साथ चलने का मनोभाव प्रकट किया था ? तब लक्ष्मण ने कहा था, कि उसके साथ रहने से उनके आराध्य देव राम की उपासना और सेवारूपी उद्देश्य में बाधा पहुँचेगी । अतः उसका साथ चलना ठीक नहीं । उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण की उद्देश्य सिद्धि में विघ्न बनना उचित नहीं समझा और अपना धर्म विचार कर साथ जाने का इरादा छोड़ दिया । अतः तुम भी मेरी अज्ञा को अपना धर्म मान कर साथ चलने का इरादा त्याग दो, और यहीं रहो । यदि तुम्हारा मन यहाँ न लगे तो अपने मायके अथवा ननिहाल इत्यादि अपने इच्छित स्थानों पर रहती हुई तुम देव पूजादि धार्मिक कृत्यों में रत रहकर मेरे कठिन मार्ग को सुगम बना सकती हो । क्यों कि तुम्हारे धर्म और शील के प्रभाव से मेरे सारे अनिष्ट नाश हो जायेंगे तथा मैं सुख और शान्ति का अनुभव करूँगा ।

इतना कहकर कुमार ने उसके आंसू पोंछे तथा यथेष्ट वस्तुएं प्रदान कर हित की बातें समझाकर तथा दास दासियों सखी सहेलियों व मित्र की उनको भला मन देकर जाने को तैयार हुआ ।

पति को विदेश-यात्रा के लिए दृढ-संकल्प देख पा
का हित चाहने वाली पद्मिनी चन्द्रकला ने गद् गद् स्व
में कहा:—

मांगा इत्यपमंगलं ब्रज इति स्नेहेन हीनवच-
स्तिष्ठेति प्रभुता यथा—रुचि कुरुष्वैषायुदासीनता ।
स्पर्धेऽन्वेमि तवेत्यसग्रद्दह-वचो नैमीति वाक्तुच्छ्रता
प्रस्थानोन्मुख ! ते प्रयाण-समये वक्तु कथं वेद्द्यहम् ॥

यदि मैं ऐसा कहूँ कि मत जाओ तो यह अमंगल
होगा । अगर कहूँ कि जाओ तो मेरा वचन बड़ा ही
स्नेह हीन होगा । अगर कहूँ कि ठहरो तो ऐसा कहना
अपनी प्रभुता प्रकट करना है । यदि ऐसा कहूँ कि
आपकी इच्छा के मुताबिक करो तो इसमें उदासीनता
मालुम होती है । यदि साथ चलने का कहूँ तो यह मेरा
कदाग्रह होगा । अगर साथ न चलने का कहूँ तो मेरी
चाणी की तुच्छता प्रकट होगी । अतः हे स्वामिन् आपके
प्रस्थान के समय मैं कुछ भी नहीं बोल सकती । परन्तु
फिर भी मैंने किसी समय अपने गुरु के मुखारविंद से
नवकार मंत्र के बड़े भारी महत्व को सुना है, अतः आप
इसे धारण कर लीजिए । यह आपको शिरस्त्राण, मुखपा
कवच, आयुध और पदत्राण का काम देगा । सर्वैव यह
आपकी आभ्यन्तर और बाह्य रक्षा करेगा । युद्ध में संकट

में और मार्ग में नित्यप्रति स्मरण करने पर यह नवकार-मंत्र आपका सच्चा सहायक होगा। चौर, शत्रु, डाकू, सर्प, व्यन्तर और वैताल आदि के भय से आपकी रक्षा करेगा और सब प्रकार की सुख सम्पत्तियाँ प्रदान करेगा।

तव वर्त्मनि वर्ततां शिवं, पुनरस्तु त्वरितं समागमः ।

अपि साधय साधयेऽसितं, स्मरणीयाः समये वयं वयः ॥

प्राणनाथ ! आपका मार्ग कल्याणकारी हो। आपका कल्याण हो पुनरागमन अति शीघ्र हो। मार्ग में आपके अभीष्ट सिद्ध होते रहें। कभी कभी मुझे भी अपना स्वजन जान याद करते रहें।

इस प्रकार मंगल कामना करती हुई चन्द्रकला के द्वारा बोले गये प्रिय तथा सुमधुर वचनों का कुमार ने स्वागत किया। कुछ समय तक प्रस्थान-काल में किया जाने वाला प्रेमपूर्ण वार्तालाप किया। चन्द्रकला के द्वारा शुभकामना से शकुन के लिए दिया गया फल स्वीकार कर कुमार उठ खड़ा हुआ। नित्यप्रति की ही पोशाक पहने हुए तथा थोड़ासा पथ-साधन लेकर, सती साध्वी प्रियतमा को आश्वासन देकर और अन्तिम विदाई लेकर कुमार घर से निकल पड़ा।



रात्रि का द्वितीय प्रहर था। निस्तब्ध निशा के अन्धकार में नगर की बड़ी बड़ी सड़कें भी जनशून्य हो रही थीं। दिन की सी धूमधाम बाजारों में नहीं थी, और न ही उमड़ता हुआ जनसमूह कहीं दिखाई पड़ रहा था। कहीं कोई इक्का दुक्का मानव तेजी से निज गृह की ओर लपकता हुआ दिखाई दे जाता था। बाजारों तथा गलियों का जगमगाता तेज प्रकाश भी मंद हो गया था, केवल चौराहे ही तेज प्रकाश युक्त थे। सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। घर के बाहर की दुनिया का किसे ध्यान था। सब अपने अपने राग में मस्त थे। ठीक इसी समय हमारा तेजस्वी कुमार श्रीचन्द्र सुगमता पूर्वक चला जा रहा था। मुख पर शान्ति विराज रही थी। किसी भी

प्रकार का खेदजनक चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। अपनी धुन में मस्त कुमार मस्ती से बढा जा रहा था, आसानी से वह थोड़ी ही देर में नगर से बाहर आ पहुँचा।

नगर के बाहर निर्जन में एकाकी कुमार के साथी केवल पूर्वोपार्जित पुण्य-कर्म ही थे। कुमार शकुन शास्त्र का ज्ञाता था तथा, उसमें विश्वास भी रखता था, अतः कुछ देर ठहर कर अनिश्चय की ओर बढ़ने से पहले उसने ध्यानपूर्वक पक्षियों की बोली सुनना प्रारम्भ किया। जिस तरफ शुभ शकुन युक्त पक्षी बोल रहा था, कुमार ने उसी तरफ प्रयाण किया।

चलते चलते रात्रि बीत गई आसमान में अरुणोदय की लाली छा गई। चिड़ियाँ सुमधुर स्वर में गा गाकर प्राभातिक स्वागत करने लगीं। सुगन्धि-शीतल-शीर समीर चलने लगा। रात्रि में बन्द हुए कुसुम खिलने लगे, और भ्रमर समूह अपने को मुक्त पारंगत गुञ्जार करता हुआ उड़ने लगा। मानो बन्धन से मुक्ति पा जाने के कारण हर्षातिरेक से नाचता हुआ अपने मुक्तिदाता सूर्य का यशोगान कर रहा हो। चारों तरफ छिटकी हुई हरियाली आंखों को तृप्त कर रही थी। पक्षियों की सुमधुर बोली कानों की तृप्ति का साधन बन रही थी। सुगन्धित शीतल

शरीर तथा नासिका की तृप्ति का कारण समीर चल रहा था। भगवद्भजन से जिह्वा तृप्ति पा रही थी। समस्त इन्द्रियों की लालसाओं की पूर्ति करने वाले इस मनोहर प्रातःकाल की बेला में मन प्रफुल्लित हो उठा। तबीयत हरी हो गई। राह के श्रम को दूर करने के लिए कुमार ने भी एक लघुपुष्करिणी के सुहावने तट पर सघन वृक्ष की छाया में अपना आसन जमाया। उसी स्थान पर एक कनफटा योगी पहले से ही विद्यमान था। योगी महाशय से इधर उधर की बातचीत के बाद कुमार ने कुछ धन देकर उसका साधु-वेश खरीद लिया। अपने कीमती वस्त्राभूषणों को वहीं किसी गुप्त स्थान पर छिपा कर कुमार ने वह साधु-वेश धारण किया और देखते देखते ही एक राजकुमार से कार्पटिक-बाबाजी के जैसा बन गया। कुछ समय वहीं पर विश्राम कर कुमार ने फिर उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान किया।

विचित्र यस्तुओं से भरे इस संसार क्षेत्र में एकाकी-कुमार अपने आप में सन्तोष अनुभव करता हुआ चला जा रहा था। मार्ग में कई नगर, ग्राम, नदी, तालाब, बाग-बगीचे, पहाड़, गुफायें, मनुष्य, स्त्री, पशु पक्षी, आदि अनेक साधारण असाधारण आश्चर्यकारी दृश्य

दृष्टि-गोचर हुए। जहां इच्छा होती वहीं ठहर जाता था। जब इच्छा होती चल देता था।

मार्ग में जन जन के मुख से कुमार श्रीचन्द्र को अपने ही चरित्र-गान सुनाई पड़े। कहीं राधावेध के प्रबन्ध-गीत, तो कहीं नृप नन्दिनी तिलकमञ्जरी के उलहने के पद। कहीं सुवेग-रथ और घोड़ों की अद्भुत दान लीला, तो कहीं पद्मिनी चन्द्रकला के विवाहले। इस प्रकार बागों में भूले पर भूलती लीलावती-ललनाओं के कोकिल-कंठों से मीठे स्वर में गाये जाते यशो-गान और अनुपम जीवन घटनाएँ सुनता कुमार आगे बढ़ता जाता था।

इधर प्रातःकाल होते ही धीर-मंत्री राज-सभा में जा पहुँचा। उसने महाराज प्रतापसिंह के सामने बड़े विनीत और राजकीय ढंग से कुमार श्रीचन्द्र के विवाह का प्रस्ताव रखा। ठीक उसी समय राजा दीपचन्द्र देव के सेनापति ने आकर पद्मिनी चन्द्रकला के विवाह की सारी बातें महाराजा से निवेदन की। प्रसन्न-मनवाले महाराजा ने महारानी सूर्यवती को इन सुखद-समाचारों से अवगत कराया। महारानी ने इन समाचारों से भारी हर्ष प्रकट किया। अपनी बहन चन्द्रवती की पुत्री चन्द्रकला से मिलने के लिये महाराज से आज्ञा लेकर महारानी बड़ी

सज धज के साथ लक्ष्मीदत्त सेठ के निवास-स्थान पर जा पहुँची ।

जब चन्द्रकला ने सुना कि मासीजी मिलने के लिये आ रही हैं, तो बड़ी तेजी से वह भी स्वागत में सामने आई और बड़े प्रेम से महारानी मासी सूर्यवतीजी को प्रणाम किया । महारानी ने भी उसे हृदय से लगा लिया और माथे पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिये, कि बेटा ! चिरंजीवी रहो । परस्पर कुशल प्रश्न के बाद पद्मिनी चन्द्रकला ने महारानी को अपना महल और दहेज की वस्तुओं को दिखाया । कुटुम्ब सम्बन्धी बातें भी खूब हुईं । सेठ को पूछवा कर महारानी चन्द्रकला को अपने राज-महल में ले आई ।

महाराजा चन्द्रकला के विवाह में घटी घटनाओं को सुनकर अचरज में डूब गये । कुमार को बुलाने के लिये महाराजा ने अपने खास आदमी भेजे । सेठ लक्ष्मीदत्त ने कुमार के निवास-स्थान में पता लगाया पर कहीं भी कुमार की खोज खबर न मिली । सेठ बड़ा चिन्तित हुआ । छाती पीट कर बेहोश सा कहने लगा अरे ! मेरा लाडला-बेटा घर से निकल गया है । कहां गया ? उसे इतने के लिये नगर का कोना कोना छान डाला । कुमार के मित्र, सेवक, एवं सिपाहियों को इधर उधर दौड़ाया । सब

व्यर्थ । सानन भादों में दूज के बाद के जैसे कुमार का कहीं पता न लगा । रंग में भंग हो गया । सभी दुःखी हो गये । गुणचन्द्र पागल सा बेचैन हो गया । जल विना मछली के जैसे छट पटाने लगा ।

सेठ लक्ष्मीदत्त अपने मन में पश्चात्ताप करने लगे । आंखों में आंसू भर भरकर कहने लगे अरे ! मैं बड़ा अभाग हूँ । मैंने व्यर्थ ही बेटे को दुःखी किया । चूमती हुई बात कह दी । हे बेटा ! तू मुझे माफ कर दे, जहां कहीं हो वहां से चला आ । अरे ! मैंने वीणारव से उसके दान किये रथ घोड़े मूल्य देकर वापस लेने के लिये जोर दिया, यह अच्छा नहीं किया । मेरे इसी कार्य से वह रुष्ट होकर कहीं चला गया । अब मैं क्या करूँ ? कहां जाऊँ ? मेरा बेटा मुझे कहां मिलेगा ? हायरे ! मेरा लोभ । इस प्रकार से ने विलाप और प्रलाप किये ।

पुत्र वियोग से दुःखी हुई सेठानी भी अपनी आंखों से बोर २ जितने आंसू गिराती हुई विलाप करती हुई कहती है "हाय आज दिन तक मेरे जिस बेटेने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगा था, उसीने कल मेरे से लड्डू मांगे, और अपने कुटुम्बियों में बांट कर स्वयं भी कुछ खाये । उस समय इस बात को मैं न समझ पाई कि मेरा लाल मेरी आंखों का तारा, हृदय का हार, भीचन्द्रकुमार मुझ

से चिदाइ लेकर कहीं जा रहा है" । अरे वेटा ? मुझे खीह के कहां गया रे !! इस तरह से सेठानी ने भी बेहद दुःख किया ।

जिस प्रकार पानी में पडा हुआ तैल, दुष्ट को कहीं हुई गुप्त बात, एवं पात्र में दिया हुआ दान अपने आप फैल जाता है, उसी तरह कुमार के एकाएक कहीं गुम हो जाने की बात भी सारे नगर में फैल गई । राजकुल में भी उसकी चर्चा हुई । महारानी और महाराजाने भी सुना । सर्वत्र व्याकुलता छा गई । सेठ लक्ष्मीदत्तने अपने आदमियों को भेज कर पुत्र वधु पद्मिनी चन्द्रकलाको राजकुल से बुलवाया । महारानी की आज्ञा लेकर वह अपने सुसराल में आ गई । उससे भी पूछताछ हुई । गुणचन्द्र ने कुछ संकेत पा लिया । पर उसने उस संकेत को हितैषी होने के नाते गुप्त ही रखा ।

इधर महाराज प्रतापसिंहने श्रीचन्द्रकुमार की खोज में सभी ओर अपने सिपाही भेजे । उन्होंने देश का कोना रं छान लिया, मगर वे कुमार को कहीं भी न पा सके । तीन दिन तक सारी नगरी में शोक सा छा गया । न तो बाजार ही खुले, और न कोई व्यवसाय ही हुआ । सारे आमोद प्रमोद बंद हो गये । सब के चेहरे उदास और चिन्तित दिखाई देते थे ।

सेठ के घर की तो क्या बतायें ? सारे घर में शोक । साम्राज्य था । सब चित्र लिखित से बैठे थे । आहों और सिसकियों के सिवाय कहीं से कोई आहट तक नहीं नाई देती थी । न खाने का पता था, न पीने का । सभी मार के वियोग सागर में डुबकियां लगा रहे थे । तल पे पड़ी मछली के जैसे सब तड़फ रहे थे । इसी अवस्था में रोते विलखते और शोच करते उनको तीन दिन बीत गये ।

चौथे दिन कुशस्थलपुर नगर में धर्मघोष नाम के कोई ज्ञानी गुरु पधारे । वनपालक ने महाराजा को बघाई । महाराजा और महारानी अपने परिवार के साथ रु-वंदना के लिये पहुँचे । लक्ष्मीदत्त लक्ष्मीवती पद्मिनी इन्द्रकला आदि और भी कई धर्म प्रेमी नागरिक गुरु-दर्शन-भन्दन के लिये गये । विनय-विधि से सबने श्रीगुरु महाराज को वंदन किया मुनिराज ने सबको बड़े उदात्त विधि से धर्मलाभ दिया । सभी गुरु दर्शन से आत्मा को अत-कृत्य मानते हुए गुरु वचनामृत का पान करने की त्कण्ठा से यथास्थान बैठ गये । गुरु ने आत्मवाद और धर्मवाद की धर्मकथा कही ।

य एव कर्माणि करोति लोके,

भुङ्क्ते स एवेह च तत्कलानि ।

कर्मक हेतु भव—भाव—भावः

कर्मक्षयादेव भवेद्धि मोक्षः ॥

अर्थात्—जो कर्मों को करता है वही उन कर्मफलों को भोगता है । भव-संसार में होने वाले भावों का कर्म ही ए मात्र हेतु है जो भाग्यशाली कर्मों का क्षय कर देता उसीका मोक्ष हो जाता है ।

क्या राजा क्या रंक संसार में सभी अपने कर्मों सुख दुःख भोगते हैं । अतः अयभव्यात्माओं ! आत्मा का ख्याल करके कर्मों पर काबु प्राप्त करो । कर्म धर्मरूप में परिणत करने वाले धर्मात्मा धन्य होते हैं ।

सद्गुरु देव के उपदेश को सुनकर महारानी सूर्यव ने हाथ जोड़कर बड़े नम्र-शब्दों में गुरु से पूछा—भगवान् जयकुमार के भय से सद्य उत्पन्न मेरे पुत्र-रत्न को बगी में फूलों के ढेर में छिपा दिया था । बादमें ढूँढने भी वह नहीं मिला, उसका मुझे बड़ा दुःख है । अज्ञानी हैं अतः कृपा कर बताइयें कि उसका क्या हुआ ।

रानी की प्रार्थना पर उपयोग लगाकर दयालु-ज्ञान गुरु ने सबके सामने कहना शरु किया—महाभाग ! सब पूर्वकृत कर्मों के ही खेल हैं । तुम्हारा पुत्र क भागशाली है । तेजस्त्रियों में शिरोमणि है । तुम्हा

गोत्र-देवता ने ही उसका और तुम्हारा परम हित देख कर जिस रोज कुमार का जन्म हुआ था, उसी रात्री में सेठ लक्ष्मीदत्त को स्वप्न में आदेश दिया कि—‘तुमको राजा के उद्यान से प्रातःकाल में फूलों के ढेर में सुरक्षित एक नव-जात शिशु मिलेगा, उसे ले आओ।’ सेठ ने वैसा ही किया। सेठ के लडका न था, अतः उसी को अपना लडका मान कर जन्मोत्सव मनाया।

उसी बालक के पुण्य प्रताप से सेठ लखपति का करोड़पति बन गया। सेठानी लक्ष्मीवती ने भी बड़े हर्ष से अपने पुत्र के अभाव में उसी को “मेरे गूढ गर्भ था” की-बात प्रचारित करके अपने पुत्र की तरह ही लालन पालन किया। तुम्हारे द्वारा श्रीचन्द्र नामवाली अंगुठी जो कुमार के पास रखी थी उसीके आधार पर उन्होंने भी उसी सुन्दर ‘श्रीचन्द्र’ नाम को पसंद किया। कुटुम्बियों के सामने समारोह के साथ उसका श्रीचन्द्रकुमार नाम रख दिया।

महाराज ? एक समय आपने उसे गोदी में लेकर क्या पुत्र-सुख का अनुभव नहीं किया था ? क्या आपकी स्नेहभरी दृष्टि उसी पुत्र स्नेह के कारण श्रीचन्द्र के मुख पर नहीं गिरी थी ? महाराज लक्ष्मीदत्त सेठ के घर बड़ा होने वाला अद्भुत चरित्रों वाला कुमार श्रीचन्द्र

आपका ही तो चिरंजीवी है ? उसका चरित्र सारे देश में प्रसिद्ध है । इस विषय में सेठ लक्ष्मीदत्त और उनकी धर्मपत्नी साक्षी हैं । दान देने के सम्बन्ध में सेठ से कुछ मन मुटाव हो जाने के कारण ही वह इस समय अपन भाग्य के भरोसे विदेश-यात्रा में गया हुआ है । धराइय नहीं वह इसी वर्ष राजाधिराज होकर आप लोगों को आ मिलेगा । इसमें कोई संदेह नहीं ।

इस प्रकार ज्ञानी-गुरु के वचनामृत से परमानन्द को पाये हुए महाराजा और महारानी बहुत ही प्रसन्न हुए । सेठ सेठानी ने भी बड़े विनीत भाव से श्रीगुरुदेवकी बात को स्वीकार की इस पर महाराजा और महारानी ने उन दोनों को खूब सराहा । उनके साथ पहिले प्रेम तो था ही अब और भी ज्यादा बढ़ गया । गुरु महाराज के फरमान से नैमित्तिक के वचन को सत्य-सिद्ध माना ।

उस समय वहाँ उपस्थित बन्दी जनों ने विद्वानों और ऋषियों ने श्रीचन्द्र का खूब ही यशो-वर्णन किया-

नरसिंह-कुलादित्य-प्रतापसिंह भूप-भू- ।

जीयात् सूर्यवती सूनुः-श्रीचन्द्रो जगतीतले ॥

अर्थात्—नरसिंह के कुल में सूर्य के समान प्रताप महाराजा प्रतापसिंह से उत्पन्न होने वाले श्री सूर्यवती पुत्र श्रीचन्द्र कुमार इस पृथ्वी पर चिरंजीवी रहो ।

लोगों के मन की बड़ी भारी आन्ति के मिट जाने
 लोगों में एक अनुपम उल्लास की लहर दौड़ गई ।
 पुरुदेव को नमस्कार कर सब लोग अपने घरों को लौट
 गये । महाराज--प्रतापसिंह ने अपने पुत्र की खबर पाकर
 नगर में भारी उत्सव मनाया । महारानी सूर्यवती ने जिस
 बंध-हस्ती को अपने पुत्र के लिये छांट कर रखा था उसे
 यह श्रीचन्द्र का पट्टे---ढाथी है ऐसा निश्चित कर दिया ।
 अग्निनी चन्द्रकला कभी महाराज के यहां, तो कभी सेठ
 के यहां, तो कभी श्रीपुर में रात दिन धार्मिक कृत्यों को
 करती हुई पति-विरह के दुःखमय समय को बिताने लगी ।
 कहा भी है—

धर्मोऽयं धन वल्लभेषु धनदः कामार्थिनां कामदः,
 सौभाग्यार्थिषु तत्प्रदः किमपरं पुत्रार्थिनां पुत्रदः ।
 राज्यार्थिष्वपि राज्यदः किमथवा नाना विकल्पैः कृतैः,
 तत्किं यन्न करोति किन्तु करुते स्वर्गापवर्गावपि ॥

अर्थात्—धर्म धनार्थियों को धन, कामाभिलाषियों को
 काम सौभाग्य चाहने वाले को सौभाग्य, पुत्र की कामना करने
 वालों को पुत्र देने वाला होता है । इसी तरह से राज्य
 चाहने वालों को राज्य भी देता है । अथवा तरह २ के
 संकल्प विकल्पों से क्या ? धर्म क्या नहीं कर सकता है ?
 सब कुछ कर सकता है यावत् स्वर्ग और अपवर्ग—मोक्ष
 दोनों का भी देनेवाला होता है ।

जननी जणो तो भक्त जण कां दाता कां शूर ।
 नहीं तो रहिजे बांजणी मती गमावे नूर ॥

हे मां ! अगर संतान पैदा करनी है तो भक्त संतान पैदा करना, चाहे तो दानवीर सन्तान पैदा करना, चाहे वीर सन्तान पैदा करना । जैसी तैसी सन्तान पैदा करके नूर गमाने से तो अधिक अच्छा हो कि तू बांझ बनी रहे ।

रोकर रोटी मांगने वाली संतान के मां-बाप संसार में इज्जत नहीं पाते । भक्तों की दानवीरों की, और शूरवीरों की संसार में महिमा गाई जाती है, और उन्हीं के पूर्वजों के नाम भी स्वर्गाक्षरों से इतिहास में कथाओं में और गीतों में गाये जाते हैं । श्रीचन्द्रकुमार भी अपने

रित्र से भक्तों की दान वीरोंकी और शूर वीरों की कोटि नाम लिखाने वाला था । वह बैठकवाई या पेढु नहीं था जोकी ताजशे के समान सेठ लक्ष्मीदत्त की बातों ने उसकी तेजी में चार चांद लगा दिये ।

पद्मिनी चन्द्रकला की आज्ञा पाकर घर से निकले बाद वह स्वेच्छा से स्वतन्त्रता पूर्वक पृथ्वी में पर्यटन कर रहा था । कभी कोसों तक पैदल ही चलता जाता था तो कभी सवारी द्वारा । कभी दिन में, चलता था तो कभी रातमें वह शेर की भांति निर्भयता पूर्वक विचरता था । परमेष्ठी महामंत्र के जाप से, योगी से प्राप्त औषधि रा और अपने प्राचीन पुण्यों के प्रभाव से वह सुरक्षित ।

भोजन में उसकी यह विशेषता थी कि एक सोना हर देकर वह किसी बनिये की दुकान पर भोजन करता । भोजन के मूल्य से अगर अधिक पैसे निकलते थे वह लेता नहीं था । अकेला भोजन नहीं करता था । प्रका नित्य नियम था कि पांच सात मनुष्यों को जिमा र ही वह जीमता था । कहीं किसी दीन हीन दुःखी को वह देखता तो गुप्त रूप से उसकी भरसक मदद करता ।

एक दिन चलते चलते रात होगई । आसपास कि
बस्ती का आसार न देख कुमार ने उधी जंगल में रा
बिताने की ठानी । वह एक वृक्ष पर चढ़ गया । चा
तरफ छिटकी हुई चांदनी को देखने लगा । वह टकटक
लगाए शारदीय शशी की शोभा को निहार रहा था कि
सहसा उसके मुंह से निकल पड़ा—

तारागण-प्रचुर-भूषणमुद्रहन्ती ।

मेघावरोधः परिमुक्त-शशाङ्क-वक्त्रा ।

ज्योत्स्ना दुकूलममलं रजनी-दधाना ॥

वृद्धिः प्रयात्यनुदिनं प्रमदेव वाला ॥

अर्थात्—नक्षत्र रूपी अनेक आभूषणों को पहने
हुई, बादलों के हटजाने से चन्द्रमा रूपी मुख को स्पष्टतया
प्रकट करती हुई, चांदनी रूप दुपट्टा धारण की हुई यह
रात्रि रूप वाला, प्रमदा की तरह दिन व दिन बढ़ रही है ।

उस समय अचानक उसका ध्यान पृथ्वी पर चलती हुई
कोई छायामात्र मनुष्य की तरफ आकर्षित हुआ । उसके
मन में सोचा कि यहां साधारण तथा मनुष्य नहीं आ
सकते हैं ! हो न हो यह कोई सिद्ध पुरुष ही है । है !
यह बोका लाद कर कहां जा रहा है इसे जरूर ज्ञात करना
चाहिए । अतः कुमार ने उसके पीछे २ चलना शुरू का

दिया, पर गुप्त-गुप्त जिससे उस कुछ भी मालुम न पड़े ।

कुछ दूर आगे बढ़ने पर वह छाया सघन वृक्षों में लोप होगई । वस कुमार वहीं ठहर गया । जब सुबह हुआ और उजाला चारों तरफ फैल गया तब उसके पदचिह्नों को देखता हुआ कुमार उन्हीं के सहारे आगे बढ़ने लगा । चलते चलते वह एक बड़े पहाड़ की गुफा पर पहुँचा । उसका मुँह एक बहुत बड़े शिलाखंड से ढँका हुआ था । कुमार ने उस पदपंक्ति को गुफा के भीतर जाते हुए तो देखा पर बाहर वापस निकले हुए चिह्न दिखाई नहीं पड़े । अतः बुद्धिमान् कुमार ने उस पुरुष के भीतर होने का अनुमान किया । उस स्थान से नजदीक ही एक बावड़ी के तट पर लगे हुए एक पेड़ की खोखल में जाकर कुमार बैठ गया । वहीं पर उसने कुछ फलाहार कर, जल-पान करके अपनी जठराग्नि को शान्त किया ।

कुमार दिन भर उस गुफा की ओर ध्यान लगाए उस पेड़ की खोखल में बैठा रहा । फिर भी कोई मनुष्य उसमें से निकलता हुआ नजर नहीं आया । तीसरे पहर में एक मनुष्य शिला-खण्ड को हटा कर गुफा में से निकला और बावड़ी पर आया । वहाँ पर उसने अपने हाथ मुँह धोकर जल पिया, और हाथ में लाए हुए वर्तन को पानी

से भर कर पुनः गुफा में प्रविष्ट होगया। थोड़ी देर बाद वह फिर गुफा से निकला, तथा गुफा के मुंह को शिला खण्ड से बंद करके वावडी पर आया। घुमैले वस्त्र पहने मुंह से पान चवाता हुआ, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित वह नवयुवक बहुत ही सुन्दर प्रतीत हो रहा था। उसने वावडी के पानी से खूब कुल्ले किये और एक गुटिका को मुंह में रखा। गुटिका के प्रभाव से वह पहले की तरह अदृश्य होगया और नगर की ओर चला।

कुमार इन सब बातों को बड़ी ही सावधानी से देख रहा था। उस सिद्ध पुरुष के वहां से चले जाने पर कुमार बाहर निकला और उसने धूप में उसकी छाया को नगर की ओर जाते देखा। थोड़ी देर बाद जब कुमार को उसके बहुत दूर निकल जाने का विश्वास हो गया, तो वह शीघ्र ही उस पर्वत कन्दरा के पास आया और बड़ी मुश्किल से उस शिलाखण्ड को दूर किया। एवं उस गुफा में प्रविष्ट हुआ।

वह साहसी बड़ी निर्भयता से उसमें आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक सुन्दर और विशाल भवन दिखाई पड़ा। वह तुरन्त उसमें घुस गया। वहां का वैभव तथा धनको देख कर वह चकितसा रह गया। कुछ आगे बढ़ने पर मकान के मध्य भाग में एक रत्न

जटित पलंग पर बैठी हुई एक प्रौढ़ युवती उसे दिखाई पड़ी। उसने उस युवा स्त्री को बड़ी हमदर्दी के साथ पूछा:-
हे बहिन ! तुम कौन हो ? और यहाँ अकेली कैसे रहती हो ?

कुमार के प्रश्न को सुनते ही उसकी आंखों में पानी भर आया और वह गद् गद् स्वर में बोली-हे भाई ! सुनो, नायक-नामके नगर में बहुत से ब्राह्मण-व्यापारी रहते हैं। वहाँ राजा भी ब्राह्मण तथा अधिकारी वर्ग भी ब्राह्मण हैं। वह गांव ही ब्राह्मणों का है। वहाँ के मन्त्री रविदत्त ब्राह्मण की मैं विवाहिता स्त्री हूँ। मेरा नाम शिव-मती है। मेरे यहाँ आने की कथा मैं तुम्हें सुनाती हूँ सो आप ध्यान देकर सुनियें।

हमारा नायक नगर धन धान्य से परिपूर्ण है। बड़े २ धनाढ्य अपने निवास से उसे अलंकृत कर रहे हैं। ऊंचीर अट्टालिकाएँ और चौड़े चौड़े एक पंक्ति में बने हुए बाजार उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। वह नगर व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र है, और वहाँ के निवासी सभी प्रकार से बड़े सुखी हैं। परन्तु इन दिनों वहाँ पर बड़ी ही अराजकता फैली हुई है। चोरीयों का जोर वहाँ पर दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण लोग वहाँ बड़े ही दुखी हो रहे हैं। एक दिन सबने मिलकर राजा से प्रार्थना की कि या तो

आप हमारे जान मालकी रक्षा किजिएँ या हमें नहीं क दीजिएँ जिससे हम आपके भरोसे न रह कर अपने स्वामी कुशस्थल के महाराज से अपनी रक्षा की प्रार्थन करें ।

प्रजा का उपालम्भ सुन कर राजा बहुत उरा । ब सत्कार के साथ उसने प्रजा-जनों को उनकी रक्षाक आश्वासन दिया । उसी वख्त राजाने सिपाहियों को भे कर नगर रक्षक को बुलाया और खूब फटकारा ।

नगर रक्षक ने निवेदन किया “स्वामीन् ! वह को सिद्ध-चोर है । अतः नगर के रक्षकों को दिखाई नह देता है, फिर भी मैं आज से उसे पकडने का भरसक प्रयत्न करूंगा ।

इतना कह कर वह नगर रक्षक चला आया और प्रजा-जन भी आश्वासन मिलजाने पर सन्तुष्ट होकर अपने अपने घर चले गये । रात्रि में नगर रक्षक ने बड़ी साव-धानी के साथ पहरा दिया, और अपने सेवकों को को पहरे पर लगा दिया, पर वह चोर उसे कहीं पर भी नहिँ मिला ।

चोर को नगर रक्षक की प्रतिज्ञा किसी तरह मालूम पडगई तथा उसने उसी के घर में चोरी की और चला

बना। इसी तरह उस के बाद जिसने भी उसे गिर-
फ्तार करने का बीड़ा उठाया उसकी दशा उस नगर-रक्षक
के समान हुई। अन्त में मेरे पति रविदत्त ने अपने घर को
खाली करके अपना माल असबाब दूसरों के घर में गुप्त
रीति से रख कर फिर उस चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा
की। मेरे पति ने तमाम रात उस चोर को खोजा मगर
वह उनके हाथ नहीं आया। जब चोर को इस बात का
पता लगा कि मेरे पति ने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया
है तो वह रात्रि में मेरे घर आया परन्तु किसी प्रकार का
माल असबाब तो उसके हाथ न लगा। तो वह क्रोधित हो
कर मेरे पास आया और मेरे हाथ पैर बांधकर एवं मुंह
में वस्त्र ठूँस कर मुझे यहां ले आया।

मुझे उसने अपना नाम रत्नाकर चोर बताया है।
वह प्रतिदिन कभी साक्षात् तथा कभी अदृश्य होकर इस
समय जाता है, और पौ फटने पर वापस लौट आता है।
हे भाई ! मुझे यहां आये तीन दिन हो गये हैं मैं बहुत
ही दुखी हूँ। मुझे अपने पति तथा बच्चों का वियोग
दिन रात सताता है। न जाने मेरे दूध मुंहे बच्चों का
क्या हुआ होगा ?।

हे बन्धो ! आप कौन हैं ? और यहां किस कारण से

आये हैं ? मुझे तो ऐसा भान होता है कि मेरा भाग्य ही
आप को यहां खींच लाया है ।

कुमार ने उसका हाल सुन कर कहा बहिन ! मैं तो
कोई राह चलता कार्पटिक हूँ । धैर्य रखो । मैं तुम
अवश्य इस दुःख से छुड़ाने की कोशीश करूंगा ।

यह सुन शिवमती ने कहा— बन्धो ! कृपा करके
आप मुझे इस पापी के हाथ से छूटा कर मेरे निवास
स्थान नायक-नगर में पहुँचा दें, तो ऐसा करने पर आपको
गुप्ति और मुक्ति का फल प्राप्त होगा । मेरी प्राण रक्षा
हीगी तथा मेरे बच्चों से मेरा मिलाप हो जायगा और
मैं और बच्चे आपको यावज्जीवन आशीर्वाद देते रहेंगे ।

उसकी करुणा भरी कथा को सुनकर कुमार का हृद
पिघल गया । उसने उस ब्राह्मणी—शिवमती को अपने
साथ लिया और गुफा के द्वार से बाहर निकल कर उस
शिला से तथा एक दूसरे पत्थर से गुफा के मुँह को ढक
दिया फिर वे दोनों वहाँ से नायकपुर की ओर चले । कुछ
घंटों में ही वे दोनों नायकपुर पहुँच गये । नगर में पहुँच कर
कुमार ने शिवमती को उसके घर लेजाकर उसके पति को सौंप
दिया । उसके पति रविदत्त ने कुमार का बहुत आमा
माना । उसके तमाम कुटुम्बियों ने कुमार का बड़ा आदर

सत्कार किया। शिवमती तरह तरह के वस्त्राभूषण लाकर कुमार को देने लगी, पर कुमार ने कुछ भी लेना स्वीकार नहीं किया अन्त में आग्रह पूर्वक शिवमती ने कुमार को स्मृति-चिन्ह के रूप में एक अंगूठी दी जिसे कुमार ने बड़े आदर के साथ स्वीकार की। इसके पश्चात् पुनः कुमार उस चौर के निवास स्थान के पासकी बावडी के पास लौट आया और बैठ गया।

पहलेवाले पेड़ के नीचे वह जाकर बैठा ही था, कि वह चौर भी इसी दरभियान कुमार के पास आकर बैठ गया। परिचय पूछने पर कुमार ने अपना नाम लक्ष्मी-चन्द्र तथा चौर ने अपना नाम रत्नाकर बतलाया।

यह चौर मुझे द्वार खोलने के लिए कहे इसी आशय से कुमार ने उससे पूछा कि हे मित्र ! तुम इतने उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हो। ज्यों ही वह कुछ जवाब देने वाला था कि पांच पथिक एक ओर से आ निकले, और वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठ कर विश्राम करने लगे। कुमार की दृष्टि चौर की पगडी में बंधी हुई गुटिका पर पड़ी और उसे प्राप्त करने की नीयत से कुमार ने पांचों पथिकों के सामने उस चौर से कहा कि—मैं तुम्हारी और मेरी पगडी को एक शिला के नीचे दवा देता हूँ। हम

दोनों में से जो कोई भी शिला के नीचे से निकाल लेगा वही दोनों का स्वामी होगा।

कुमार की पगड़ी में सोना बँधा हुआ देख कर चौर के मुँह में पानी भर आया और उसने फौरन उस शर्त को स्वीकार करली। कुमार ने एक बड़ी भारी शिला के नीचे दोनों की पगड़ियों को दबा कर रखदी। सर्व प्रथम उस चौरने पगड़ियों को निकालने की बहुत कौशीश की पर वह न निकाल सका। दूसरों ने भी पगड़ियों को निकालने की कौशीश की पर वे भी असफल रहे तथा चौर और वे हार कर बैठ गये।

उपस्थित मनुष्यों में से एक के पास से कुमार ने कुछ पके हुए आम खरीद कर सबको खाने के लिए बाँट दिये। चौर मन में विचार कर रहा था कि यह मनुष्य बड़ा बलवान् मालुम पड़ता है यह मेरी गुफा का दरवाजा खोल सकता है क्योंकि कुमार ने जो दूसरा बड़ा पत्थर उसकी गुफा के मुँह पर लगा दिया था वह चौर से नहीं हिल सका और वह हार कर वहीं आकर कुमार के पास बैठ गया था। बेचारा अपने घर में घुस ने से भी वंचित हो गया था।

इतने में नायकपुर के रास्ते में से बाजों की आवाज सुनाई पड़ी। सब ने यही कहा कि निश्चय ही राजा

भृगु की सेना इधर आ रही है । वह चौर और वे पाचों
थिक वहां से नौ दो ग्यारह हो गये ।

वहां पर एकान्त हो जाने के बाद कुमार ने उठकर
उस शिला के नीचे से वे दोनों पगड़ियां निकाल ली ।
गुटिका लेकर कुमार ने अपने मुंह में रख ली और अदृश्य
होकर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ।

इतने में राजा भृगु की सेना वहां आ पहुँची खोजियों ने
पैरों के निशान खोज ने शुरु किये । अन्त में खोज करने
के बाद उन्होंने राजा से कहा—राजन् ! यहां तक तो
पदचिह्न मिलते हैं पर इस स्थान से आगे तो दिखाई नहीं
पड़ते । राजा ने फौरन मंत्री को हुक्म दिया कि जन्दी से
उस दुष्ट का पता लगाओ । वह यहीं कहीं छिपा हुआ
मालूम पड़ता है ।

जो आज्ञा कहकर मंत्री ने सिपाहियों को पता लगाने
के लिए आदेश दिया । सिपाहियों ने आसपास के जंगल,
पेड़, गुफाएँ, खोखल तथा नदी तालाब सब कुछ छान
डाले पर उस चौर का कहीं पर भी पता न चला । अन्त
में निराश होकर रात में वह सेना अपने नगर को वापस
लौट गई ।

इन दिनों विदेश में विचर रहा है। वह एक ही वर्ष में राजाधिराज हो कर तुम्हें आ मिलेगा। कुस्यलपुर में यह बात सुन राजा रानी आदि सब बड़े प्रसन्न हुए तथा अपने अपने घर चले गये। मैंने भी वहां पर इन गाथाओं को उन्हें सुनाया, और जो कुछ भी धन मिला, उसे लेकर इस समय मैं अपने घर जा रहा हूं।

यह बात सुन कर कुमार को अत्यन्त हर्ष हुआ। कुमार ने उस वैतालिक को यथेष्ट दान देकर सन्तुष्ट किया, तथा अन्य उपस्थित मनुष्यों को मिष्टान्न भोजन कराया। इसके बाद वह उसी वेश से फिर आगे चला। कभी वह प्रकट रूप से चलता था, तो कभी अदृश्य हो कर।

एक दिन कुमार को चलते चलते शाम हो गई। एक भयावने जंगल के पास वह आ पहुँचा। वहां ठहरने का कोई स्थान न होने से वह एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे ठहर गया। वह पेड़ तोतों का निवास स्थान था। शाम को सभी तोते अपना चुगा करके चारों ओर से वहां एकत्रित हो गये। वे आपस में बातें पूछने लगे। कौन कहां से आया है? और किसने क्या देखा है? इस प्रकार प्रश्न होने पर, एक बड़े तोते ने जो कि वहां तीन दिन से आया था—उसको

सबने पूछा—बाबा ! तुम इतने दिन कहां थे ? क्या कोई आश्चर्य देखा ? उसने उत्तर दिया—बच्चों ! यहां से पूर्व की ओर महेन्द्रपुर नाम का एक सुन्दर नगर है । वहां का स्वामी त्रिलोचन नाम का राजा है, और उसके गुणसुन्दरी नाम की रानी है । सुलोचना नाम की जन्म से अन्धी उनके एक पुत्री है । वह इस समय युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है । चौंसठ कलाओं में वह निपुण है । उसके हृदय-रूप नेत्र खुले हुए हैं । इसलिए वह अद्भुत काम भी कर लेती है । एवं कविताएं भी बनालेती है ।

एक दिन राजाने उसके वर की चिंता की । अन्धी को कौन परणे और इसकी आंखें कैसे ठीक हो ? मंत्री से इसका परामर्श किया । राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई इसे दृष्टि प्रदान करेगा उसे मैं अपना आधा राज्य दूंगा । उसके साथ इस कन्या का विवाह कर दूंगा पांच मास व्यतीत हो गये, फिर भी दृष्टि प्रदान करने वाला अभीतक कोई नहीं मिला । यह सुन, छोटे बच्चों ने पूछा—बाबा ! क्या कहीं कोई ऐसी दवा है ? जो अन्धे को देखता कर दे ।

बूढ़े तोते ने उत्तर दिया—बच्चों ? यह दवा किसी भयानक जंगल में ही मिल सकती है । यहां पर भी मिल

सकती है । लेकिन यह जड़ी बड़ी गोपनीय है । मैं पर-
 बात तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि तुम अभी बच्चे हो ।
 इसपर बच्चों ने बहुत ज्यादा आग्रह किया । आखिरकार
 मजबूर होकर बूढ़े को बताना ही पड़ा—प्यारे बच्चों ।
 इसी पेड़ की जड़ में बड़े भारी प्रभाव वाली दो लताएँ हैं,
 उनमें से एक मृत संजीवनी है और दूसरी क्षत-संरोहिणी
 नाम की गुणसंपन्न औषधि है । पहली लता जो कि बड़े बड़े
 पत्तों वाली है वह शस्त्रों के घावों को फोरन मिटा सकती
 है । तीते की बात को सुन नीचे बैठा हुआ परोपकारी
 कुमार उठा और उन दोनों औषधियों को लेकर पूर्व दिशा
 की ओर चल पड़ा ।

उस विस्तृत जंगल को पार करने में कुमार को तीन
 दिन लगे । चौथे दिन वह एक उजड़े हुए प्रदेश में जा
 पहुँचा । वहाँ वाग-बगीचों, तालाबों, बावडियों, दुकानों
 और ऊँचे ऊँचे मकानों की पंक्तियाँ लग रही थी, मगर
 और पशुओं का वहाँ नामोनिशान नहीं था । चारों
 ओर ऊँचे परकोटे से घिरा हुआ वह प्रदेश, बाहर से
 और अन्दर से सब जगह सुनसान दिखाई देता था ।
 आश्चर्य चकित होकर कुमार ज्यों ही उसमें प्रवेश करने
 लगा त्यों ही एक सारिका ने कुमार को अन्दर घुसने से
 मना किया । कुमार ने रोकने का कारण पूछा तो सारिका

ली—हे भाई ! इस नगर में घुसने वालों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है इसीलिए मैंने तुम्हें रोका है ।

कुमार ने पूछा—मैना ! इस नगर प्रदेश का क्या नाम है ? यह शून्य क्यों है ? प्राणों से हाथ क्यों धोना पड़ेगा ? क्या ये सब बातें बताओगी ?

सारिका ने कहा—क्यों नहीं ? सुनो—इस प्रदेश का नाम कुण्डलाचल है इस नगर का नाम कुण्डलपुर है । यहां अर्जुन नाम का राजा राज्य करता था । इसके पांच पत्नियां थीं जिनमें सुरसुन्दरी मुख्य थी । यहां लगभग बीस हीनें में चार पांच चोरियां हो जाती थी । राजा और मगर रक्षक सभी उस चोर की खोज में लगे हुए थे । एक बार उस राजाने रात में चुराये हुए धन को लेकर आगते हुए उस चोर को देखा । राजा ने गुप्त-रूप से उसका पीछा किया मगर चोर को इस बात का पता चल गया और वह राजा को धोखा देकर नगर के बाहर एक मठ में जा घुसा । वहां सोये हुए एक सन्यासी के पास उसी के कपड़ों में चुराया हुआ धन रखकर वह चोर नौ दौ ग्यारह होगया । राजा दृढ़ता हुआ उसी मठ में जा पहुँचा । सन्यासी को चोर समझकर खूब फटकारते हुए वस्त्रों की तलाशी ली । उनमें से वह चोर का रखा हुआ

धन भी निकल पड़ा । इस कारण राजा ने निरपराध सन्य को ही चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया और उसे इ सज़ा दी कि वह मर गया ।

इस प्रकार वह सन्यासी मर कर प्रेत-योनि में राव होगया । उसने पूर्वजन्म को स्मरण करके राजा पर ब क्रोध किया । क्रोध में आकर उसने राजा को मार डाल इसके बाद नगर के सभी मनुष्यों तथा पशुओं तक ब सताने लगा । इससे तंग आकर नगर के मनुष्य और सब जीव जन्तु यहां से भाग गये, और यह सारा ना उजड़ गया । राक्षस ने रानियों का कुछ नहीं बिगाड़ा रानी गुणवती गर्भवती थी । राक्षस ने सोचा था कि अगर इस रानी के पुत्र होगा तो उसे मैं मार दूंगा । भाग्य से पुत्री ही उत्पन्न हुई और उसका नाम चन्द्रमुखी रखा गया । मालूम नहीं अब उसका क्या भविष्य है ?

हे पुरुषोत्तम ! नगर में जो कोई भी जाता है, राक्षस उ क्रोध में आकर मार डालता है । इसीलिए मैं तुम्हें भी जाने रोकती हूँ । यह सब सुनकर भी वीरवर कुमार श्रीचन्द्र ने नगर में प्रवेश कर ही लिया । वह शून्य बाजारों को देखता हुआ राजमहल के पास जा पहुँचा । उसने राजमहल ब ओर दृष्टि डाली । झरोखों में बैठी हुई रानियों को देख

कर वह राजसभा में आया । वहाँ पर घूमते हुए उसने कोमल विछौने वाले एक सुन्दर पलंग को देखा । यही राक्षस की शय्या होगी, ऐसा समझकर अपनी थकावट को दूर करने के लिए, अपनी अंजुरना करके वह उस पर सो गया ।

इधर वह राक्षस राजमार्ग में पुरुष के पदचिह्नों को देखकर बड़ा कुपित हुआ और शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचा । अपनी शय्या पर सोये हुए कुमार को देखकर वह अत्यन्त विस्मित और क्रोधित होकर विचारने लगा— यह अत्यन्त तेजस्वी, शूरवीर, धैर्यवान् पुरुष कौन है ? कहां से आया है ? यह बड़ा ही निर्भय प्रतीत होता है, जो मेरी शय्या पर भी इस शान्ति और धीरता के साथ सो रहा है । क्या मैं इसे उठाकर समुद्र में डाल दूँ ? या इसे तलवार से काट दूँ ? अथवा गदा से चूर चूर कर डालूँ ?

इस प्रकार विचार करते हुए उस राक्षस ने क्रोध में आकर कुमार को ललकारा—अरे ! तू कौन है ? गीदड़ होकर शेर के स्थान पर कैसे सोता है ? उठ ! जल्दी से उठ !! दुष्ट ! तुझे मेरा जरा भी डर नहीं है क्या ?

राक्षस की इस तर्जना को सुनकर भी निर्भीक कुमार

उठा और बोला—अरे असुर ! तूने मुझे नींद से क्यों जगाया ? क्या कहना चाहता है ? और तू क्या करना चाहता है ? इन लाल लाल आंखों से तू किसें डराता है ? मैं तेरे घमंड को अभी चूरमूर कर दूँगा । इतने दुराचार और क्रूर कर्म करके भी अभी क्या तू तृप्त नहीं हुआ ? जो तू मेरी सुखनिद्रा का भंग कर रहा है एवं इन सती रानियों को तुने कैद कर रखा है । अगर तुझे यहां जिन्दा रहना है ? तो तू अभी भी कहीं चला जा । मैं तुझे मारने में भी अपना गौरव नहीं समझता हूँ । अतः तू जा ! चला जा !!

इस प्रकार कुमार के वचन सुनकर राजस हक्का-वक्का हो गया । कुमार के पुण्य से हतप्रभ होकर, राजस शान्तवृत्ति से कहने लगा—हे साहसी ! मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से अत्यन्त प्रसन्न हूँ । अतः तुम मुझसे कुछ मांगो ।

यह सुन कुमार ने उसे कहा—असुर ! देखो तुमने मुझे नींद से जगा कर तकलीफ पहुँचाई है । अतः तुम मेरे पैर के तलुवों को अपने हाथों से मलो जिससे मुझे कुछ आराम मिले । कुमार की गंभीर मुखमुद्रा और निर्भीकता को देख कर कि—कर्त्तव्य—गुठ जैसे राजस ने ज्यों ही

कुमार के पैर छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाये त्यों ही कुमार ने उसका आदर करते हुए उसे बड़े सद्भाव के साथ अपने पास शय्या पर बिठा लिया। परस्पर क्षमा-याचना करके घुल मिलकर बातें करने लगे।

राक्षस ने कहा—कुमार ! आपके इस वीरोचित उदार व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपकी क्या सेवा करूँ ? कुमार ने कहा— देव ! यदि आप शुभ पर प्रसन्न हैं तो आप इस प्राणी-हिंसा के पाप को छोड़कर, जीवों पर दया किया करो ! आपको भी परोपकारी होना चाहिए। इन रानियों की कैद तोड़ देना चाहिए। इस उजड़े नगर को फिर से बसा देना चाहिए।

राक्षस ने इन सब बातों को बड़े प्रेम से स्वीकार किया और कुमार को अपने धर्म-गुरु के समान मानता हुआ प्रसन्नता से कहने लगा—हे महापुरुष ! आप इस कुण्डलपुर के स्वामी होकर, इसका उद्धार कीजिये। आपके पुण्य-प्रताप से यह देश और नगर पुनः हराभरा, धन-जन से परिपूर्ण तथा समृद्धिशाली बन सकेगा, दूसरे से नहीं। अतः आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिये।

इसके बाद राजस कुमार को लेकर रानियों के पास गया और बोला-हे वहनों ! मेरे और आपके सौभाग्य से ही ये कोई पुण्यात्मा यहां आये हैं । मैंने यहां का राज्य इनको सौंप दिया है । मुझे आशा है, कि ये इस राज्य का उद्धार करने में अवश्य ही समर्थ होंगे । आज से आप लोग भी मेरी धर्म की वहनें और माताएँ हो चुकी हैं । आप लोगों को मैंने जो कुछ अपशब्द कहे, एवं आपके साथ जो कुछ दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ । इस बात को सुनकर रानियों को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई । और कुमार को राजा रूपसे एवं राजस को अपना धर्म--बन्धु रूप से स्वीकार किया ।

उस समय कुमार ने उन रानियों से आदर के साथ पूछा—माताएँ ! क्या आप लोगों के वंश में ऐसा पुरुष नहीं है, जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके । तब रानी गुणवती ने कहा—अरे परोपकारी कुमार ! हमारा वंश तो समाप्त ही हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि मेरी चन्द्रमुखी नाम की इस कन्या के साथ विवाह सम्बन्ध जोड़कर आप ही हमारे इस राज्य के स्वामी हो जायँ ताकि हमारी सारी उलझनें दूर हो जायँ । यह प्रस्ताव उपस्थित हुआ देख कुमार ने कहा—माताएँ ! अज्ञात

कुलशील वाले मुझे, अपनी कन्या और राज्य जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करने का साहस आप कैसे कर रही हैं ?

इस पर रानियों ने और उस राक्षस ने कहा—
नरोत्तम ! तेजस्वी अपने तेज से ही पूजे जाते हैं । महा-
पुरुषों के अलौकिक गुण कर्म ही उनके ऊंचे कुल एवं
सत्यशील के परिचायक होते हैं । अतः हे कुमार निःशं-
कोच होकर हमारी इच्छाओं को पूर्ण कीजियें ।

“अनिपिद्धं स्वीकृतं” के न्याय से अपनी दैविक-
शक्ति से धन, जन, सेना, हाथी, घोड़े आदि सभी आव-
श्यक वस्तुओं को एकत्रित करके कुमार को कुण्डलपुर
का राज्य दे दिया, और इसके बाद बड़ी धूमधाम से
कुमारी चन्द्रमुखी का विवाह भी उसके साथ कर दिया ।

राजा होजाने पर कुमार ने अपनी नाम-मुद्रा दिखला
दी और अपना सम्पूर्ण परिचय दे दिया । कुमार को
महाराज प्रतापसिंह का सुपुत्र जानकर सबको बड़ी खुशी
हुई । रानियों ने उसे अपने जामाता के रूप में पाकर अपने
को धन्य माना ।

एक रोज राक्षस ने कुमार श्रीचन्द्र से कहा—राजन् !
इस नगर के भूतपूर्व राजा द्वारा पूर्वजन्म में मैं धोखे से

इसके बाद राक्षस कुमार को लेकर रानियों के पास गया और बोला-हे वहनों ! मेरे और आपके सौभाग्य से ही ये कोई पुण्यात्मा यहां आये हैं । मैंने यहां का राज्य इनको सौंप दिया है । मुझे आशा है, कि ये इस राज्य का उद्धार करने में अवश्य ही समर्थ होंगे । आज से आप लोग भी मेरी धर्म की वहनें और माताएं हो चुकी हैं । आप लोगों को मैंने जो कुछ अपशब्द कहे, एवं आपके साथ जो कुछ दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ । इस बात को सुनकर रानियों को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई । और कुमार को राजा रूपसे एवं राक्षस को अपना धर्म-बन्धु रूप से स्वीकार किया ।

उस समय कुमार ने उन रानियों से आदर के साथ पूछा—माताएं ! क्या आप लोगों के वंश में ऐसा पुरुष नहीं है, जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके । तब रानी गुणवती ने कहा—अरे परोपकारी कुमार ! हमारा वंश तो समाप्त ही हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि मेरी चन्द्रमुखी नाम की इस कन्या के साथ विवाह सम्बन्ध जोड़कर आप ही हमारे इस राज्य के स्वामी हो जायँ ताकि हमारी सारी उलझनें दूर हो जायँ । यह प्रस्ताव उपस्थित हुआ देख कुमार ने कहा—माताएं ! अज्ञात

कुलशील वाले मुझे, अपनी कन्या और राज्य जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करने का साहस आप कैसे कर रहीं हैं ?

इस पर रानियों ने और उस राक्षस ने कहा—
नरोत्तम ! तेजस्वी अपने तेज से ही पूजे जाते हैं । महा-
पुरुषों के अलौकिक गुण कर्म ही उनके ऊंचे कुल एवं
सत्यशील के परिचायक होते हैं । अतः हे कुमार निःशं-
कोच होकर हमारी इच्छाओं को पूर्ण कीजिये ।

“अनिषिद्धं स्वीकृतं” के न्याय से अपनी दैविक-
शक्ति से धन, जन, सेना, हाथी, घोड़े आदि सभी आव-
श्यक वस्तुओं को एकत्रित करके कुमार को कुण्डलपुर
का राज्य दे दिया, और इसके बाद बड़ी धूमधाम से
कुमारी चन्द्रमुखी का विवाह भी उसके साथ कर दिया ।

राजा होजाने पर कुमार ने अपनी नाम-मुद्रा दिखला
दी और अपना सम्पूर्ण परिचय दे दिया । कुमार को
महाराज प्रतापसिंह का सुपुत्र जानकर सबकी बड़ी खुशी
हुई । रानियों ने उसे अपने जामाता के रूप में पाकर अपने
को धन्य माना ।

एक रोज राक्षस ने कुमार श्रीचन्द्र से कहा—राजन् !
इस नगर के भूतपूर्व राजा द्वारा पूर्वजन्म में मैं धोखे से

कर्मठ होते हुए विवेक के साथ प्रत्येक कार्य का संपादन करते रहते हैं। सच्चे वीरों का रणभूमी में हृदय की दुर्बलता से कोई सम्बन्ध नहीं रहा करता। वे तो वीरता से कर्त्तव्य-मार्ग में अग्रसर होते ही जाते हैं।

चरित्र नायक श्रीचन्द्र-कुमार बैठनेवाले प्रमादी आदमी नहीं थे। कुण्डलपुर की राज्य-व्यवस्था ठीक करके अपनी सास, पत्नी, मन्त्री, सेनापति, और अधिकारियों को अपना २ अधिकार संभला कर, सबको ठीक ढंग से समझा बुझा कर, देश में अपनी आज्ञा-प्रचारित कर, पुनः कुण्डलपुरमें लौट आने की प्रतिज्ञा करके सायंकाल के समय अपने कार्पटिक-बाबाजी के-वेश को धारण कर वहां से चल दिये। चलते २ महेन्द्रपुर पहुँच गये। रात हो जाने के कारण नगर के बाहर ही किसी शून्य-देव-मंदिर में निर्भय रूप से सो गये।

आधी रात्री का समय था। लोहखुर नाम का एक चोर अवस्वापिनी आदि विद्याओं के योग से नगर में चोरी करके काफी धन की गठरी उठाकर वहां आया उसने सोये हुए कुमार को देखा उन्हें उठाकर बोला-अरे बाबा ! तू मेरा बोझा उठाकर मेरे साथ चल। मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। चोरकी अजीब बात को सुनकर,

कुतूहल-प्रिय कुमार ने उसकी बात मंजूर करली । उसके कथनानुसार उस बोझे को उठाकर उसके साथ २ चला । चलते २ दोनों एक पहाड़ की बड़ी भारी खोह के अन्दर घुसे, और थोड़ी ही दूर जाकर एक भोंयरे में उतर गये ।

उस भूमि-गृह में दीपक जगमगा रहे थे । स्थान २ पर रत्न जटित पलंग, कुर्सियां, आराम-कुर्सियां और चौकियां पड़ी थी । जगह २ भूले पड़े हुए थे । भिन्न २ प्रकार के खेलों के सामान तथा अनेक तरह के मनोरंजन के साधन वहाँ पर विद्यमान थे । ढेर-के ढेर-रत्न वहाँ पर पड़े हुए थे । मनमोहक वस्तुओं से स्थान सुसज्जित हो रहा था । जिसके आगे राजमहल की शोभा भी फीकी लग रही थी जिसे देख देख कर कुमार चकित हो रहा था । एक स्थान पर रुक कर चोर ने भार को नीचे उतारने का आदेश दिया । कुमार ने बोझा अपने सर से उतार कर रख दिया, और वहीं बैठ कर विश्राम करने लगा ।

कुमार वहाँ आराम कर ही रहा था कि एक सुन्दर रमणी वहाँ आई और चौर को प्रणाम किया । यह देख कर कुमार बहुत ही विस्मित हुआ ।

चोर ने कहा—“ पुत्रि ! तुम इस मेहमान का आदर सत्कार करो । यह सुनकर वह रमणी कुमार को

एक दूसरे कमरे में ले गई और बोली स्वामिन् ! आप
 आप स्नान कीजियें । भोजन कीजियें और इस विछे हुए
 पलंग पर आराम लीजियें । अन्य स्त्रियोचित सेवा के
 लिये मैं आप की दासी तैयार हूं । आप हमारे यहां
 पधारे हैं । हमारा अहोभाग्य है । आप के दर्शन मात्रसे
 मेरा मन आप के आधीन होगया है ।

उस रमणी की इस प्रकार की सीठी और चिकनी
 चुपड़ी बातों को सुन कर कुमार को शक होगया कि
 यहां कुछ दाल में काला है । अतः मुझे बड़ी सावधानी
 से रहना चाहिये । थोड़ी ही देर में कुमार ने सब बातें
 विचार ली । क्या करना चाहिये इस का भी निर्धार कर
 लिया । एकान्त मौका पाकर कुमार ने उस रमणी को
 पास पड़ी एक रेशम की रस्सी से बांध दिया, और उस
 का चुड़ा पकड़ कर क्रोधका अभिनय करते हुए पूछा कि
 बता तू कौन है ? यह आदमी कौन है ? तुम्हारा क्या
 व्यवसाय है । सच सच बता दे । अन्यथा आज तो
 कुशल नहीं है ।

कुमार की इस डांटडपट से भयभीत हुई उस रमणी
 ने कांपते २ कहना शरु किया अरे बाबा ! यह आदमी
 लोहखुर नाम का चौर है । यह मेरा बाप है । मैं इस

की बेटी हूँ । चोरी का हमारा धंधा है । हमारे यहां आये आदमी को मैं अपनी चतुराई से इस गड्ढे में ढकेल कर जान ले लेती हूँ । यही मेरा नित्य का काम है ।

उसी स्त्री के द्वारा सच सच वता देने पर कुमार ने उसे छोड़ दी । बाद वह चोर के पास पहुँचकर उसे ऐसा धमकाया कि चोर मारे डर के थर थर कांपने लगा । चोर की इस हालत को देख दयालु कुमार ने कहा देखो ! अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अगर तुम अपने जीवन का उद्धार चाहते हो तो इस चौर्य-कर्म को छोड़ दो और कहीं अन्यत्र जाकर बुरे कर्मों के त्याग से शनैः शनैः अच्छे कर्मों को करते हुए संसार में यश के भागी बनो ।

कुमार के हितैषी उपदेश को सुन कर चोर को चौर्य वृत्ति से घृणा होगई और लेंकर वह कहीं अन्यत्र चला गया । पर कुमार ने उस खोह के मुख-द्वार खण्ड रख दिया । उसमें दिया ।

और प्रातः कालीन नित्य-कर्मों से निवृत्त हो श्री अहि
भगवान को नमस्कार करके अच्छे लग्न में श्रीमहेन्द्र
नगर में प्रविष्ट हो गया ।

नगर-लीला देखते हुए कुमार किसी सेठ की दुकान
पर जाकर खड़ा ही था कि एक ढिंढोरे की आवाज सुनाई
दी । उसने सेठ से पूछा—“सेठजी ! यह क्या मामला
है ? ” तब सेठ ने कुमार को सारी कथा कह सुनाई, और
कहा कि इस तरह ढिंढोरा पीटते २ लग्न भग्न छह महोत्सव
हो गये हैं ।

इतने में ढिंढोरा पीटने वालों ने कहा “भाइयों
सुनो, जो कोई भी व्यक्ति हमारी राजकन्या के नेत्रों को
स्वस्थ कर देगा तो राजाजी उसे अपना आधाराज्य देंगे,
उस राज-कन्या को विवाह देंगे” । यह सुनते ही कुमार
शीघ्रता से उस घटह को छू लिया ।

ढिंढोरा पीटने वालों ने जाकर राजा को इस बात
चना दी । राजाने बड़ी प्रसन्नता से उस कार्पटिक
धारी कुमार को छत्र-चामर और हाथी आदि भेज
बड़ी सज्जधज और सान मर्यादा साथ बुलाया । कु
बड़े ठाठ से राज-सभा में पहुँचा । दरवार में पहुँच
राजा को “विजयी भव—यशस्वी भव”—का आशी

देया । बाद में राजा द्वारा दिये गये आसन पर बड़ी प्रता के साथ बैठ गया ।

राजा द्वारा परिचय पूछे जाने पर कुमार ने कहा महाराज ! कुशस्थल का रहने वाला एक नेत्र-वैद्य हूँ । आज आप के दर्शन से मैं अपने आपको कृतार्थ मानता हूँ ।

राजाने कहा-हे महाभाग ! आज तुम मेरे और कन्या अहो भाग्य से दैव योग से इधर आ निकले हो अतः मेरे उस कार्य को पूरा करो । उसके बदले में जो कुछ देने का है, उसे ग्रहण करो ।

राजा के ऐसा कहने पर कुमार ने कहा-राजन् । आप का फरमाना ठीक है । गुरु कृपासे मुझे मंत्र और औषधि आदि का अच्छा अभ्यास है । आप उस कन्या को दिखायें जिससे मैं उनका योग्य उपचार करूँ ।

राजा के आदेश से कन्या को वहाँ लाइ गई । उसे देख कर कुमार ने बड़ा दुःख प्रगट किया कि अरे ! कतना सुन्दर रूप और कैसा बुरा यह अन्धापन है । उसी उस सभा में ही पानी के योग से कुछ जमीन को विव्र बनाया । उस स्थान के चारों ओर कनात लगवादी आंखों की चिकित्सा करने की इच्छा से कुमार ने कन्या

को पर्दे के भीतर बिठा दी। स्नान आदि कर के उसने वहाँ सारी पूजा की सामग्री जमादी। उस कन्या की आँखों पर औषधि-रस का लेप कर दिया। कुछ समय तक पूजा-धूप-दीप आदि कर के नवकार मंत्र का जाप आदि किया।

कुछ समय बीतने पर औषधि रस के प्रभाव से राज-कुमारी की आँखें कमल के समान खिल गई और उसने इंद्रकेसमान तेजस्वी कुमार को विधि पूर्वक देव-पूजा काते हुए देखा।

कुमार ने भी अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हुई उस कुमारी से पूछा—“राज कुमारी ! क्या तुम्हें आँठीक दिखाई देता है ? जरा मेरी अंगूठी पर लिखे हुए नाम अक्षरों को तो पढ़ लेना।

कुमार के ऐसा कहने पर उस राजकन्या ने अंगूठी पर लिखे हुए ‘श्रीचन्द्रकुमार’ इस नाम को पढ़ा। पढ़कर वह बहुत प्रसन्न हुई, और प्रशंसा करने लगी। हे नाथ ! हे प्राणजीवन ! पहले भी पिताने मुझे आपको दी थी आँठी अब आज भी मैं आपको वरण कर रही हूँ। अंगूठी पर आपके नाम का और आश्चर्यकारी गुणों से आपके कुल का मुझे पता लग गया है।

इसके अनन्तर वह कुमार अपने दिव्य वेष को छिपा र फिर उन्ही गैरिक वस्त्रों को धारण करके एवं मुंह गैर वालों पर भस्म रमाये राजा के पास गया । सुलो-ना भी उसके पीछे पीछे वहां आई । यथार्थ नाम वाली लोचना को देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसको अपनी गोदी में उठा लिया ।

यह देख सभी अचरज में डूब गये और राजा तो जना प्रसन्न हुआ कि मानो उसने कोई खोई हुई निधि पाई हो । कन्या के स्वस्थ होने का उत्सव पुत्र जन्म के उत्सव से भी बढ़कर मनाया गया । बादमें राजा ने उस लोचना को अन्तःपुर में भेज दिया और उसको दृष्टि कर देखकर सभी रानियें प्रसन्न हुई ।

इधर राजा ने उस कार्पाटिक को अपने महल में डे आदर से ठहराया और रसोई आदि के लिये बहुत से पीकर रख छोड़े । तत्पश्चात् राजा ने राजसभा में मंत्रियों-के साथ विचार विमर्श किया कि यह अज्ञात-कुल-शील यत्कि है । इसको कन्या देनी है, सो क्या करना चाहिये ? अलाह में कुल पूछने की ठहरी, और राजा की आज्ञा से एक मंत्री ने उसका कुल पूछ ही लिया ।

कुमार ने हंसकर उत्तर दिया, "आपके विचार ठीक ही हैं कि आप पानी पीकर घर पूछते हो तो भी हे-

मंत्रिवर्य ! सुनो, कुशस्थलपुर में लक्ष्मीदत्त नाम का एक से रहता है । मैं उसीका व्यसनी दुराग्रही और जुआरी पु हूँ । मैं पिता के छाने घर से धन चुराकर इधर उधर व्य कर देता था । इससे पिता ने रुष्ट होकर मुझे घर से निकाल दिया । घर से निकाले जाने पर पर मेरा आचर और चरित्र और भी ज्यादा अष्ट होगया है । जुआ आदि दुर्व्यसनों में फंस जाने पर प्राणी को दुःख सिवाय और मिल ही क्या सकता है ?

मैं इधर उधर दुःखी अवस्था में भटक ही रहा थ कि मेरी अचानक एक सिद्ध पुरुष से भेंट हो गई, उसकी सेवा में बहुत दिनों तक रहा । उसने मेरी से से प्रसन्न होकर मुझे यह मंत्र दिया । मैं उस सिद्ध पु को छोड़ कर इधर चला आया हूँ क्योंकि जुआ खेलने क उत्कट इच्छा ने मुझे वहाँ टिकने नहीं दिया । यह विलकु स्पष्ट है कि बिनाधन के 'जुआ' हो नहीं सकता अत मैंने धन प्राप्ति की ही आशा से इस ढिंढोरे को स्पर् किया था ।

उसके मुख से इस प्रकार परिचय पाकर मंत्री राजा को उसका सारा परिचय कह सुनाया । सुनकर राजा मंत्रियों समेत बड़ा दुःखी हुआ । वह कहने लग "मैं ऐसे जुआरी को अपनी ऐसी सुशील कन्या कैसे दे

कता हूँ ? अगर दे भी दूँ तो देश-परदेश में मेरा क्या महत्व रहेगा ? यश के बदले में मुझे अपयश का भागी बनना पड़ेगा । दूसरी बात यह है, कि अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसको कन्या नहीं देता हूँ, तो मेरा वचन भंग होता है, और वचन-भंग होना मुझ सखी-सखी के लिये बड़े कलंक की बात है । अतः प्राणों की राज्य की और धन की वचन-रक्षा के समक्ष कोई कीमत नहीं है ?” इस प्रकार अपने मन में संकल्प-विकल्प करता हुआ राजा अन्तःपुर में जा पहुँचा । वहाँ पर खूब धूमधाम का नाच-गान के साथ उत्सव मनाया जा रहा था । राजा को मुख को मलिन देख सुलोचना ने अपने पिता से पूछा, “पिताजी ! आज खुशी के अवसर पर आपके चेहरे पर श्यामता क्यों झलक रही है ?”

यह सुन राजा ने उसका वृत्तान्त रानी को आदि से अन्त तक कह सुनाया और बोला, “मेरे उदास होने का ही कारण है । इसी बीच में पुत्री बोल उठी “पिताजी ! यह आप व्यर्थ का सोच कर रहे हैं । वह पुरुष जिसके अपय में आप ऐसा वैसा कह रहे हैं, वह वैसा नहीं है । वह बड़ा ही विचित्र, गुणशाली और शूरवीर है । जो मंत्रियों को कहा गया है, वह तो केवल उनकी वैचित्र्य है ।” इसके बाद उस राजकुमारी ने

वातें परदे के भीतर देखी थीं, उन सबको अपने पिता से कह सुनाई ।

इसके पश्चात् सुलोचना ने पिता से कहा, “पिताजी ! यही श्रीचन्द्र मेरा पति होगा ।

अंगूठी से मुझे इनका नाम ज्ञात हुआ है, अपने पिता का नाम और निवास स्थान इनने अपने मुँह से साफ साफ बतला दिया है । अब इसके आगे आप क्या जानना चाहते हैं ?

पुत्री के इस प्रकार के आश्वासन भरे वचनों के सुनकर राजा के जीमें जी आया, और उसने प्रसन्न होकर ज्योतिषी से लग्न निकलवाया । इसके बाद उसने श्रीचन्द्र को लिवालाने के लिये मंत्रियों को भेजा ।

मंत्रियों ने शीघ्र ही लौटकर राजा से निवेदन किया कि महाराज ! न मालूम श्रीचन्द्र कहां चला गया । ऊँ इधर उधर बहुत देखा माला मगर वह कहीं दिखाई न दिया ।

यह सुन राजा बहुत व्याकुल हुआ, और उसने अपने सिपाहियों को उसे खोजने के लिये भेजा । उन्होंने राजमहल, नगर और बाहरी उद्यान आदि सभी दृष्ट मार

परन्तु उसका कहीं पता न चला। जब यह बात सुलोचना को मालूम हुई तो वह लड़खड़ा कर भूमि पर गिर पड़ी, और बेहोश हो गई। माता-पिता और दास दासियां द्वारा तरह तरह के उपचार किये जाने पर उसे कुछ होश हुआ। वह रो रोकर पृथ्वी पर नीर विहीन मीन की तरह छटपटा ने लगी। वह अपने अर्तनाद से दूसरों को भी रुलाने लगी। सारी रात्री उसकी इसी प्रकार बीती। उसने उसके वियोग में खाना-पीना और बोलना सभी छोड़ दिया। यह देख सभी ने उसका अनुसरण किया राज-परिवार की ऐसी अवस्था देख मंत्री कि-कर्तव्य-मूढ हो गये।

राजा ने पुरवासियों को बुलाकर पूछा कि, क्या कोई यहां पर कुशस्थल से आया हुआ व्यक्ति है ?

यह सुनकर उपस्थित जनता में से बहुतेरे व्यक्तियों ने एक साथ उत्तर दिया, “राजन् कुशस्थल के यहां पर अनेकों व्यक्ति हैं। कहिये आप किसे पूछते हैं ?”

राजा द्वारा उसके नाम और निवास स्थान आदि के बतलाने पर एक सेठ ने कहा, “महाराज ! कुशस्थल में लक्ष्मीदत्त का पुत्र जो श्रीचन्द्र है, वह मेरे स्वामी का जमाई है। जैसी अगूठी का निशान आप बताते हैं

वैसी अंगूठी उसीके हाथ में शोभायमान है। कुशस्थल-निवासी धन नामक सेठ का मैं व्यापारी-सेवक हूँ। वह कुमार धन नामक सेठ की धनवती नामक पुत्री का पति है।

उस व्यापारी-सेवक द्वारा बतलाये हुए चिह्नों से कुमारी ने यह निश्चय करलिया कि वही मेरा पति श्रीचन्द्र है।

इसके पश्चात् राजा ने राजकुमारी को सम्भ्रा बुझा कर भोजन करवाया और कहा कि पुत्री ! अब किसी प्रकार का शोक मत करो तुम्हारे पति का पता लग गया है। हम शीघ्र ही राजाधिराज प्रतापसिंह के पास हमारे नगर के माननीय व्यापारियों और सुयोग्य मंत्रियों को भेज रहे हैं, जो जाकर इस विषय में उनसे प्रार्थना करके श्रीचन्द्र को यहां विवाह के लिये राजा के आदेश से लावेंगे। तुम किसी प्रकार से दुःखी मत हो।

इधर मंत्रियों के नाम धाम आदि पूछ कर चले जाने के बाद कुमार शौचादि कार्य से निपटने का बहाना कर वहां से चल दिया। कुछ दूर आगे जाकर उसने अपने कार्पटिक वेष को किसी दूसरे को दे दिया, और स्वयं ब्रह्मचारी का वेष बनाकर क्रम से उस देश का त्याग करके एक बड़े भारी जंगल में जा पहुँचा।

२७

जल जीवन-रस रूप है, जल बिन नीरस जान ।
नीरस जन संसार में, मानों मृतक-समान ॥

मानव जीवन एक जलका बुदबुदा मात्र है । जल को पण्डितों ने जीवन भी कहा है, रस भी कहा है । रसमय जीवन ही जीवन है, अगर रस न रहा तो, जीवन जीवन नहीं रहता । जिसके जीवन में जीवन नहीं है तो उसका जिन्दा रहना भी भूमि को भारी करने के सिवाय कुछ नहीं है । इसी लिये ज्ञानी पुरुष जीवन में रसधारा को बहाते रहते हैं । कुमार श्रीचन्द्र पूर्ण रसिक-जीवनवाला था । पूर्व जन्म की पुण्य तपश्चर्या से वर्तमान जीवन में वह आलौकिक रसकी धारा बहाता हुआ, अपना और दूसरों का समय आनंद से बीताता था ।

महेन्द्रपुर की राजकुमारी की आंखें खोल कर, उसमें रस पैदा करके श्रीचन्द्र ने आगे का रास्ता लिया। चलते हुए किसी एक जंगल में वह पहुँच गया। पुण्यवान्-पुरुषों के लिये जंगल में भी मंगल हो जाता है, पुण्य-लीला करता हुआ कुमार श्रीचन्द्र जंगल में एक सुन्दर सरोवर देखता है।

सरोवर में मोती के समान निर्मल-पानी पर कमल खिल रहे थे। चकवे, सारस, और हंस उसमें कूज रहे थे। किनारे पर हरे भरे वृक्षों के उन्नत शिखरों पर मयूरों के नाच हो रहे थे। इस दृश्य को देखकर कुमार की इच्छा हुई कि इन पक्षियों के बीच जाकर इस सरोवर में जलक्रीडा करे। उसने कपड़े उतारे, और स्वयं पानी में उतर गया। वह जल क्रीडा में इतना लीन होगया कि उन जलचर पक्षियों के बीच अपना अस्तित्व भी भूल गया। उसने खूब ही तैराकी की और खूब ही गीते लगाए, तथा खूब छक कर नहाया। जब जलक्रीडा से उसका जी भर गया, तो वह बाहर निकला, कपड़े पहने, और सरोवर की शोभा को निरखता हुआ उसके किनारे किनारे चला।

चलते चलते उसे एक उद्यान सा दिखाई पड़ा। वहाँ पर उसने एक ओर तो आश्रम, दूसरी ओर हाथी-

आज्ञा पाते ही उस सखी ने आदर पूर्वक कहा—
हे ब्रह्मचारी ! आओ । इस पेड़ की सघन छाया
विश्राम करो । आपको आगे कहां जाना है ? कृप
करके हमारा आतिथ्य ग्रहण करो ।

यह सुनकर कुमार राजादनी खिरनी—रायण के वृक्ष
के नीचे जाकर बैठ गया । सखी ने खूब फल-फूल
कुमार को लाकर दिये और कुमार ने बड़ी प्रसन्नता से उन
स्वादिवृ फलों को खाया ।

कुमार उनको उनका परिचय पूछने ही वाला था
कि एक अन्य रमणी वहां पर गाती हुई आई :—

चन्द्रकला रायसुत्रा, सा सव्व कलाणभायणं जयइ ।
सिरिचंद वरो जीए, सयमेव परिक्खिऊण कथो ॥

यह सुनकर कुमार को बड़ा अचंभा हुआ और वह
विचार करने लगा—कहां तो चन्द्रकला है और कहां ये
रहते हैं ? । कहां तो वह स्थान, और कहां इतनी दूर
यह स्थान ? इन सब बातों को ये कैसे जानती हैं ।

इस प्रकार वह विचार कर ही रहा था, कि एक
बुढिया निर्मल वस्त्र धारण किए हुए वहां आ पहुँची ।
वह अपनी पोशाक से विधवा जान पडती थी । उसने

मन हुआ। तापस वेषधारिणी ये दोनों कौन हैं ? और ये अवशिष्ट बालाएँ भी कौन हैं ? मैं सब बातों को जानने के लिए उत्सुक हूँ।

उस वृद्धा ने जवाब दिया—है पुत्र ! सुनो तुम्हारे पृच्छे अनुसार विस्तार पूर्वक तुम्हें हमारे यहां आने के राम कहानी सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनोः—

वसन्तपुर में वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके वीरमती और वीरप्रभा नामकी दो रानीय थीं। उनमें से प्रथम मैं मंगु-नरेश की कन्या वीरमती हूँ। मेरे माता पिता के दो कन्याएँ हुई। उनमें जयश्री बड़ी, तथा मैं छोटी हूँ। पिताजी मुझे विजयवती कहकर पुकारते थे।

मेरी बड़ी बहिन जयश्री का विवाह महाराज प्रताप सिंह के साथ हुआ। उसके जय कुमार-आदि चार पुत्र हुए। वसन्तपुर के राजा का प्रधान मंत्री सदासिद्ध मेरा चाचा है।

इधर वसन्तपुर नरेश की दूसरी रानी वीरप्रभा के नरवर्मा नामका एक पुत्र हुआ। वह बड़ा ही बलवान् नीतिज्ञ और शस्त्रास्त्र विद्या में निपुण है।

आज्ञा पाते ही उस सखी ने आदर पूर्वक कहा—
हे ब्रह्मचारी ! आओ । इस पेड़ की सघन छाया में
विश्राम करो । आपको आगे कहाँ जाना है ? कृपा
करके हमारा आतिथ्य ग्रहण करो ।

यह सुनकर कुमार राजादनी खिरनी-रायण के वृक्ष
के नीचे जाकर बैठ गया । सखी ने खूब फल-फूल
कुमार को लाकर दिये और कुमार ने बड़ी प्रसन्नता से उन
स्वादिवृ फलों को खाया ।

कुमार उनको उनका परिचय पूछने ही वाला था
कि एक अन्य रमणी वहाँ पर गाती हुई आई :—

चन्द्रकला रायसुत्रा, सा सव्व कलाणभायणं जयइ ।

सिरिचंद वरो जीए, सयमेव परिकिखऊण कथो ॥

यह सुनकर कुमार को बड़ा अचंभा हुआ और वह
विचार करने लगा—कहाँ तो चन्द्रकला है और कहाँ ये
रहते हैं ? । कहाँ तो वह स्थान, और कहाँ इतनी दूर
यह स्थान ? इन सब बातों को ये कैसे जानती हैं ।

इस प्रकार वह विचार कर ही रहा था, कि एक
बुढिया निर्मल वस्त्र धारण किए हुए वहाँ आ पहुँची ।
वह अपनी पोशाक से विधवा जान पडती थी । उसने

आकर उस नरवेशधारी तपस्वी कुमार को नारी की पोशाक प्रदान की ।

छाया में सुखपूर्वक बैठे हुए उस बटु कुमार को देखकर उस बुढिया ने पूछा—भाई ! तुम कहां से आये हो ? मैं कुशस्थलपुर से आरहा हूँ । बटु ने उत्तर दिया । यह बात सुनकर सब बडी प्रसन्न हुई, और उन्होंने यह बात जाकर सबको कह दी जिससे वे सभी वहां आकर कुमार को घेर कर बैठ गई और पूछने लगी—

हे भाई ! यह तो बताओ कि क्या वहां चंद्रकला आई है । उसका विवाह किसके साथ हुआ है ? बटुक ने उत्तर दिया:—आप इस बात को सत्य समझें कि लक्ष्मीदत्त सेठ का पुत्र चन्द्रकला को व्याहकर कुशस्थलपुर में लाया है ।

इस प्रकार उत्तर पाकर सबने अपनी स्वामिनी से कहा—हे स्वामिनी ! सुनो । यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती ।

यह देख कर कुमार ने निश्चय कर लिया कि यही स्त्री इन सब में प्रधान है अतः उसने उसे नमस्कार कर विनय पूर्वक पूछा—हे माताजी ! आपका यहां कैसे आग-

मन हुआ। तापस वेषधारिणी ये दोनों कौन हैं? और ये अवशिष्ट बालाएँ भी कौन हैं? मैं सब बातों को जानने के लिए उत्सुक हूँ।

उस वृद्ध ने जवाब दिया—है पुत्र! सुनो तुम्हारे पूछे अनुसार विस्तार पूर्वक तुम्हें हमारे यहां आने व राम कहानी सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो:—

वसन्तपुर में वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके वीरमती और वीरप्रभा नामकी दो रानीयाँ थीं। उनमें से प्रथम मैं मंगु-नरेश की कन्या वीरमती हूँ। मेरे माता पिता के दो कन्याएँ हुईं। उनमें जयश्री बड़ी, तथा मैं छोटी हूँ। पिताजी मुझे विजयवती कहकर पुकारते थे।

मेरी बड़ी बहिन जयश्री का विवाह महाराज प्रतापसिंह के साथ हुआ। उसके जय कुमार-आदि चार पुत्र हुए। वसन्तपुर के राजा का प्रधान मंत्री सदामति मेरा चाचा है।

इधर वसन्तपुर नरेश की दूसरी रानी वीरप्रभा के नखर्मा नामका एक पुत्र हुआ। वह बड़ा ही बलवान् नीतिज्ञ और शस्त्रास्त्र विद्या में निपुण है।

कुछ समय पश्चात् मेरे भी चन्द्र की कान्ति के समा-
 एक कन्या हुई जिसका नाम बड़े प्यार से मैंने चन्द्र-
 वा रखा, यह जो तुम्हारे सामने स्थित है, यह वही मेरी
 या चन्द्रलेखा है, और-दूसरी ये सब इसकी समवयस्क
 खयां हैं।

चन्द्रलेखा के बाद मेरे एक पुत्र भी हुआ जिसका
 नाम वीरवर्मा रखा, जो इस समय पांच वर्ष का है और
 हमारे साथ है।

एक समय राजा ने अपनी आत्मा को कालज्वर से
 सित देख कर अपने उत्तराधिकारी वीरवर्मा राजकुमार
 को अपने विश्वास पात्र मंत्री सदामति को सौंप कर कहा
 कि-मेरा राज्य इसी होनहार राजकुमार को देना अन्य
 को नहीं। यही मेरा अन्तिम आदेश है। यह कहकर
 जा स्वर्ग सिंधार गये।

राजा की मृत्युके पश्चात् बलगर्वित नरवर्मा ने अन्या-
 से हमारा राज्य छीन लिया। हम सब को वहां से
 निकाल दिया। तब हम सब मेरे पिता के नगर की तरफ
 भागा हुआ। मार्ग में एक बहुत बड़ा नगर आया। नगर
 बाहर हम लोग ठहरे थे। वहां पर हमने सुना कि
 वहां पर एक बड़ा शकुन आया हुआ है यह सुन मन्त्री

सदामति नगर में गये, और मानपूर्वक उसे बुलाकर पास लाये ।

मैंने चन्द्रलेखा को उसकी गोद में बिठाकर उसे हे भाई ! जरा यह तो बताओ कि इस कन्या का कौन होगा, तथा वह कब और-कहाँ प्राप्त होगा ? ।

कुछ देर विचार कर के उसने कहा—वहिन ! सुनो महाराज प्रतापसिंह का पुत्र चन्द्रकला नामकी राजकुमारी के साथ विवाह करलेने के पश्चात् इसका पति बनेगा इस बात में किसी तरह का सन्देह मत करो । आप लोग खदिर वन में चले जाओ । आपको वह व्यक्ति वहीं मिलेगा । वहाँ पर राजादनी-वृक्ष के नीचे आकर बैठते हैं वह वृक्ष दूध बरसाने लगेगा । इससे आप लोग चन्द्रलेखा के भावी पति को सहज में ही पहचान पावेंगे ।

उसके द्वारा दिए श्लोक पत्र को और उसके वचन को स्वीकार, करके तथा यथायोग्य उसका सत्कार करके हम लोग अपने परिकर के साथ इस खदिर वन में चले आये हैं । यहाँ आकर हमने दो मनुष्यों को योगी का वेश पहनाकर कन्या के वर की खोज में कुशस्थलपुर भेजा था । वे वहाँ जाकर यहाँ पर वापस लौट आये हैं । उन्होंने

स्तविक बात का पता लगा लिया है, और तुम्हारे भी उस बात से मेल खाते हैं ।

“सेठ का पुत्र श्रीचन्द्रही उस चन्द्रकला का पति है न कि निमित्तिये के कथनानुसार महाराज प्रताप-का पुत्र श्रीचन्द्र ।

यह मेरी पुत्री चन्द्रलेखा यहां पर अपनी स्वेच्छा से अपने वेप में और कभी पुरुष वेप में, नाना प्रकार खेल खेलती हुई अपनी प्यारी सखियों के साथ क्रीडाती है । अनेकों प्रकार के नृत्य करती है, और फूलों-आभरणों से अपने को सजाती है । यह हमारी बहिन है ।

इस प्रकार की बातें सुनने पर कुमार ने सोचा कि—पर ज्यादा देर तक ठहरना उचित नहीं । अतः वह तुरंत जाने के लिए ज्योंही उठा त्यों ही अचानक निकल पड़ा (खिरणी—रायण के) बृक्ष ने उस पर बहुत सा बरसाया । वह दृश्य ऐसा मालुम होता था मानो कुछ दिनों से बिछुड़े हुए पुत्र को गोदी में पाकर माता, ने हर्ष के आंसुओं से उसे नहला रही हो । या दूध पी रही हो ।

यह घटना देखकर सभी साश्चर्य प्रसन्न हुए और साथ बोल उठे—जिस वर की खोज में हम इतने दिनों-

से परेशान थे वह वर आज अपने आप अतर्कित भाव ही मिल गया ! मिल गया !! मिल गया !!!

यह बात सुनते ही चन्द्रलेखा ने अपना सर लज्जुका लिया, और माता की आज्ञा पाकर शीघ्र कुमार के गले में वरमाला डाल दी । उस समय पत्तों हिल कर, कलियों ने मुस्करा कर, और पेड़ों ने फूलों की वर्षा करके कुमार का स्वागत किया । कनक पत्र वालों ने भी नाना प्रकार से कुमार का खूब आदर सत्कार किया ।

उनके द्वारा आग्रह पूर्वक पूछने पर कुमार ने अर्थात् ठीक ठीक परिचय दे दिया तथा मुद्रा को दिखाकर अपने ठीक नाम प्रकट किया । उनके वचनों को सादर मान लिये हुए कुमार ने राजकुमारी चन्द्रलेखा के साथ पाणिग्रहण कर लिया । कर-मोचन के अवसर पर उसे विप को बनाने वाली कई मणियां तथा अन्य बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुईं । तत्पश्चात् वीरमती ने अपने पंचवर्षीय पुत्र को कुमार की गोदी में बिठाकर कहा—हे उदार और वीरता में अद्वितीय महापुरुष ! इस वीरवर्मा को आप जैसा बना देंगे, वैसा ही यह वन जायगा । आप इसे अपने साथ रखकर मेरी इतनी बात मानने की कृपा करें ।

कुमार ने उत्तर में कहा—माता जी ! आप अर्धीर न होइएँ, सब अच्छा ही होगा ।

इस प्रकार अपनी सास को आश्वासन देकर कुमार ने मंत्री की ओर दृष्टि घुमाई और बोला—“मंत्रिवर्य ! आप इन सबको साथ लेकर कुण्डलपुर चले जाइएँ । लीजिये यह पत्र वहां के मन्त्रियों को दे दीजियेगा वहां पर आप लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी । वहां आप सुख पूर्वक रहिएगा । इस समय मैं कुछ आगे जाऊंगा नहीं तो मैं भी आपके साथ ही चलता । आप किसी भी प्रकार की चिन्ता न करें । कुछ समय पश्चात् आपका और मेरा मिलाप वहां हो जायगा ।” इस प्रकार सबको सान्त्वना देकर, तथा उन सब से विदा माँग कर कुमार अपने पूर्ववेश को धारण कर वहाँ से खाना हुआ और एक दूसरे देश में जा पहुँचा ।

इधर वीरमती अपनी पुत्री और मंत्री आदि परिवार के साथ उस खदिर वन से चन्द्रपुर की ओर चल पड़ी । चलते चलते महेन्द्रपुर में जा पहुँचे । जब यह बात वहां के राजा को मालुम हुई तो उसने वीरमती को एवं उनके परिवार को अपने यहां आदर के साथ निमन्त्रित किया । परस्पर एक दूसरे ने परिचय प्राप्त किया ।

राजा आदि सब प्रसन्न हुए । महेन्द्रपुर की रानी और वीरमती आपस में धर्म की बहनें बन गईं । उसी रोज कुशस्थल से कुण्डलपुर होता हुआ कोई बंदीजन वहां आया । उसने कुमार श्रीचन्द्र के लोकोत्तर चरित्र का गान किया । सुलोचना और चन्द्रलेखा बहुत प्रसन्न हुईं मानो प्यासे पपीहे को स्वाति की बूंदें मिल गईं हों । उन्होंने उस बंदी को भारी पारितोषिक देकर आदर से विद किया ।

कुछ दिन ठहरकर सुलोचना और उसकी माता से कुण्डलपुर के लिए वीरमती ने आज्ञा ली और अपने परिवार के साथ कुछ ही दिनों में कुण्डलपुर जा पहुँची ।



२८

जस जीवन अपजस मरन, सुनो सयाना लोय ।

ज्ञानीजन संसार में, दाखें मारग दोय ॥

जो मनुष्य यश को रखते हुए जीते हैं उनका जीना जीना है । अपयश के होजाने पर जीना जीना न रहकर मरना हो जाता है । अपने जीवन के बहुमूल्य समय को जो मनुष्य परोपकार में विताते हैं उन पुरुषों का नाम इतिहास के उज्ज्वल पृष्ठों पर सुवर्णाक्षरों से लिखा जाता है । यशस्वी पुरुष मरकर के भी अमर हो जाते हैं । ऐसे अमर पुरुषों के जीवन संदेश जनता को अमरता का पाठ पढाते हैं ।

हमारा चरित-नायक यशस्वी कुमार श्रीचन्द्र अपने भाग्य की परीक्षा के लिए अपने जीवन से जगत को

आलोकित करता हुआ एक दिन, किसी नगर की वा
भूमि को रथों, घोड़ों, तम्बुओं, सुन्दर वेषधारण कि
हुए मनुष्यों और फौजी पोशाक पहने हुए सिपाहियों
व्याप्त देखकर किसी एक पुरुष से पूछा सखे ! यहाँ का
हो रहा है ? उसने उत्तर देते हुए कहा—ब्रह्मचारी ! तुने
यह काम्पिल्य नगर है । यहां के अधिपति महाराज
जितशत्रु हैं । उनके प्रीतिमती नाम की महारानी है
उनका कनकरथ नामका कुमार यहाँ पर अपने दोस्त
के साथ राधावेध की नकल करेगा उसी के लिए य
सारा समारोह है ।

प्रसिद्ध गायनाचर्य वीणारव ने एक दिन राजसभा में
राधावेध की साधना करने वाले किसी श्रीचन्द्र नाम के
एक लोकोत्तर पुरुष का चरित्र सुनाया था । जिस प्रकार
तिलकपुर में राधावेध सम्पन्न हुआ था, उसी का अनुकरण
करते हुए यहाँ नाटक खेला जा रहा है ।

आइयें, देखियें यह मण्डप है । ये राजाओं के
शिविर हैं । ये राजकुमार हैं । यह स्तम्भ है । यह
राधा है । यह तेल का कड़ाह है । नारीवेषधारी यह
पुरुष तिलक मंजरी है । पालकियों में चढ़ी हुई ये राज-
कुमारियां हैं । सामने धनुष—बाण रखा है । देखिए !

ध्यान से देखिये, राधावेष साधनें के लिए बड़ी २ उमंगों-
को लेकर राजकुमार स्तम्भ के पास आते हैं। असफल
होकर, निराशा और अपमान को अपने हृदय में लेकर ये
लौट जाते हैं। देखिये, यह श्रीचन्द्र का वेष बनाकर कुमार
कनकरथ आया है। देखिये इसने श्रीचन्द्र की तरह बाण चला
दिया है। बाण लगा या नहीं तब भी उस कृत्रिम तिलक-
मंजरी ने उसके गजे में बर माला डाल दी है। अहा हा
हा ! कितना सुन्दर नाटक है। ये भाट चारण—“सुरो
सिरि चंदो जयउ” कहकर आशीर्वाद के साथ प्रशंसा
के गीत गाते हैं। इस प्रकार नाटक-दिखानेवाले पुरुष को
कुमार ने प्रसन्न होकर बहुतसा पारितोषिक प्रदान किया।

नाटक देखकर मन ही मन कुमार प्रसन्नता का अनुभव
करता हुआ खड़ा था। उस समय पास में खड़ी हुई
राजकुमारी कनकवती समुद्र के प्रति नदी के समान प्रेम
से नाटकीय कुमार श्रीचन्द्र के प्रति उमड़ रही थी। उसने
पास खड़ी अपनी धामाता के सामने लज्जा और संकोच
को छोड़कर यह बात प्रकट कर दी। अहा ! कितना
सुन्दर स्वरूप है। महामहिम इस उदार शूरवीर, धीर
और गंभीर पुरुष को मैंने मेरा जीवन—साथी मान लिया
है। आज से यही मेरे प्रति है। वहां खड़ी संत्री की
कन्या प्रेमवती, सार्धप्रति की कन्या धनश्री ने और नगर

सेठ की पुत्री हेमश्री ने भी राजकुमारी कनकवती की वा-
के साथ उसी प्रकार अपने मनोगत भावों को भी व्य-
क्रिया और कहा कि—जिस महापुरुष की छाया भी ऐसी
मनोहर है तो साक्षात् स्वरूप का तो कहना ही क्या ?

धाय माता ने उन सखियों के विचारों की प्रशंसा
की और कहा कि—मैं राजाजी से प्रेरणा करके अपने मंत्रियों
को कुशस्थल भेजकर, विवाह के लिए कुमार श्रीचन्द्र को
आमंत्रित करवा दूंगी। कुमार ने इन सारे विचारों को
सुनकर अपने मन में विचार किया—यदि मैं यहां कुछ देर
और ठहरा तो मुझे यहां कोई न कोई अवश्य पहचान
लेगा, इसलिए अब यहां से चल देना चाहिए। यह
सोचकर वह वहां से आगे को चला। बहुत सा
मार्ग तय करने पर उसे दूर से एक ओर नगरी दिखाई दी।
विश्राम की इच्छा से उसने पास ही के एक यज्ञ-मंदिर
में प्रवेश किया। वहां पहले से ही सिर पर हाथ धरे कोई
चिन्तातुर व्यक्ति बैठा था। उसे देखकर कुमार ने पूछा
“भाई तुम कौन हो इस नगरी का क्या नाम है ? और
तुम इतने चिन्तातुर क्यों दिखाई देते हो”।

उसने एक लम्बी सांस लेकर कहा—पथिक ! यह
कान्ति नाम की नगरी है। महाराज नरसिंह देव इसके

शासक हैं। सब कलाओं में निपुण, रूपवती, विदुषी प्रियंगुमंजरी नाम की उनके एक पुत्री है। अब आप चिंता का कारण भी सुनलो—

यहां से नैऋत्य कोण में हेमपुर नाम का नगर है। वहां मकरध्वज नामक का राजा राज्य करता है। उसके मदनपाल नाम का एक पुत्र है। वह युवावस्था में एक दिन अपने गवाक्ष में बैठा चौराहे की छटा को निहार रहा था। इतने में उसने एक योगिनी को जाते हुए देखा। उसने उसे अपने पास बुलाकर पूछा माई ! कहां से आई हो ? और कहां जाती हो कोई आश्चर्य की घटना हो तो सुनाओ।

योगिनीने कहा—मैं कान्तिनगरी से आती हूँ। कुशस्थलपुर की तरफ जा रही हूँ। मैं एक अपूर्व दृश्य तुम्हें दिखाती हूँ। इसे तुम देखो—ऐसा कह कर उसने किसी स्त्री का नेत्र हारी चित्र दिखलाया।

राजकुमार मदनपाल ने उस चित्र को एकटक देखते हुए योगिनी से उसका परिचय पूछा कि बताओ—यह किसका अद्भुत चित्र है ? योगिनी ने कहा कान्तिपुरी के राजा नरसिंह देव की राजकुमारी प्रियंगुमंजरी का यह चित्र है। यह गुणंधर कलाचार्य से श्रीचन्द्र कुमार

की तारीफ सुनकर उस पर आसक्त हो गई है । उसीके आदेश से श्रीचन्द्र का चित्र लाने को कुशस्थलपुर जा रही हूँ ।

मदनपाल ने प्रियंगुमंजरी के चित्र को लेने के लिये भारी कोशीश की, परंतु वह सफल न हो सका, और योगिनी चली गई । मदनपाल कामज्वर से पीड़ित होकर दुबला होने लगा । मित्रों ने उसके पिता से असल हालत कह दी । उनने कान्ति-नरेश से उनकी कन्य की मांगनी की, किन्तु राजा नरसिंह ने उस मांगनी को ठुकरा दी । इस बात को जानकर मदनपाल अत्यधिक पीड़ित हुआ ।

पथिक ! वही मैं मदनपाल हूँ । पुष्प द्वारा आकर भौरे की तरह उस अनिद्य सुन्दरी के रूप से खींचा हुआ मैं यहां आया हूँ ।

यहां आकर मैं राज-माली के मकान में ठहरा मालिन हमेशा राजकुमारी के पास जाती थी । उस साथ मैंने प्रियंगुमंजरी के पास संदेशा भेजा कि-हेमपु का राजकुमार तुम्हारे चित्र को देखकर तुम्हारे मोहपा में बंधा हुआ यहां आया है । कृपा करके दर्शन दे दो

मालिन ने जाकर मेरा संदेशा राजकुमारी से कह
नाया। मेरे प्रति अनुराग बढ़ाने के लिये कोई उपाय
सने बाकी नहीं छोड़ा। खूब प्रलोभन दिया मगर वह
स से मस न हुई मालिन ने जब उसे यह कहा कि
नियां में ऐसा चतुर आदमी खोजने पर भी नहीं मिलेगा
व उसने मुस्कराकर बोलने के लिये अपने होंठ खोले।

उसने कहा, “मालिन ! अगर तुझे उसकी दक्षता
इतना गर्व है तो ले देख, मैं अभी उसकी चतुराई
पता लगा लेती हूँ।”

यह कह कर उसने पुष्प-राशि में से लाल कनेर के
एक पुष्प को उठालिया, और उसे दोनों कानों में धारण
कर उसे देखे बिना ही दूर फेंक दिया। इसके बाद
उसने एक कमल उठाया और फिर उसे देखकर अपनी
श्रांती से लगा लिया। फिर उसने मालिन से कहा,
‘हे मुग्धे ! तू उसके पास जा और मैंने जो कुछ अभी
तेरे सामने किया है उसका उत्तर ला। इसके बाद
घोर कुछ पता लगावेंगे।’

मालिन ने घर आकर सारी बातें मुझे कह दी।
परन्तु मैं राजकुमारी के भावों को न समझ सका और
उसका उत्तर ही दे सका। क्या करूँ ? कहां जाऊँ ?

इस प्रकार उसकी चिन्ता में डूबा, इस यक्षमंदिर में बैठा हूँ। क्योंकि मैंने किसी से यह सुन रखा है कि राजकुमारी सदैव यहां आया करती है। परन्तु हतभाग होने के कारण मेरा उससे यहां भी मिलान नहीं होत कारण कि जब वह यहां पर दर्शनार्थ आती है तब उसके साथ की प्रतिहारिणियों मुझे ठोक पीटकर मन्दिर वाहिर निकाल देती हैं। हे भाई ! यह मैं अपना दुख किसके आगे रोऊँ ? तुम मुझे बड़े दयालु और परोपकार मालूम देते हो, अतः कृपा कर मुझे कोई उपाय बताओ

मदनपाल की यह बात सुन कर कुमार को बड़ा दया आई और उसने अपने मनमें विचार किया, अवश्य गुरु गुणधराचार्य का पहले कभी इधर आना हुआ है अहो ! राजकुमारी की चतुराई का क्या कहना ? इसके अपने भाव पुष्पों द्वारा प्रगट किये हैं। लाल-पुष्प के समान मैंने तुमको अपने में रक्त स्वयं कानों द्वारा सुना है मगर मैं तुम्हारी ओर न तो देखती हूँ और न तुम्हें स्थान ही देती हूँ। दूसरा जो कमल पुष्प उठाया उसका भी भाव यह है कि कमल के समान शुभ्र और सुगन्धि किसी व्यक्ति को जो स्वयं मुझ से विरक्त है परन्तु जिसे मैं प्राणपण से चाहती हूँ और जिसके गुण मैंने कानों से सुने हैं उसे मैंने अपने हृदय में स्थान दे दिया है। कर्तव्य

के लाल पुष्प जैसे तुम मदनपाल हो, और कमल पुष्प जैसे वह कुमार श्रीचन्द्र हैं। उसने उपरोक्त भाव ऐसे प्रगट किये थे परन्तु अपने को बुद्धिमान् समझने वाला व्यक्ति इतना भी न समझ सका खैर। अब इसे ऐसी सलाह देनी चाहिये जिससे इसके मन को संतोष हो।

फिर कुमार ने उस मदनपाल से कहा, “भाई अब क्या करोगे ? क्या तुम्हारी कभी चार आंखे हुई हैं ?” उसने उत्तर दिया, “पथिक ! न तो मैंने उसे कभी देखा न उसने मुझे कभी देखा है। मित्र ! तुम्हीं बताओ यह मेरी मनोवाञ्छा कब पूर्ण होगी ! तुम परोपकारी हो अतः मुझे कोई मार्ग दिखलाओ।

इतने में शंख की ध्वनि सुनाई दी। वे दोनों वहां से उठ कर उपवन में चले गये और मन्दिर की ओर दृष्टि गड़ा कर किसी पेड़ की आड़ में खड़े हो गये। इतने में सखियां समेत राजकुमारी गाजे-वाजे के साथ आई और मन्दिर में प्रविष्ट हुई। वहां पर खूब नृत्य और गान होने लगा। मृदंग, वांसुरियों और वीणाएँ बजने लगी। मन्दिर कुछ ही क्षण में गान-गृहसा प्रतीत होने लगा।

इसी बीच में धूलिधूसर वस्त्र पहिने किसी स्त्री ने शीघ्र ही मन्दिर में प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही

नाच गान सब बन्द होगया । कुछ ही समय के बाद वहां से हायरे ! की आवाज़ के साथ रोने की आवाज़ सुनाई दी । रोती हुई एक सखी शीघ्रता से मन्दिर के बाहर निकल कर उस उपवन में आई ।

उसे देख कुमारने पूछा ? हे सुभ्रू ! यह आश्चर्य काी रंग में भंग कैसे हुआ ? कृपा कर कहो । मुझे अभी समय नहीं है । सखीने उत्तर दिया । इतने में दूसरी सखी आ-पहुँची और उसने पहली सखी से कहा, “वहन जल्दी जाओ और शीघ्र ही केले के पत्ते ले आओ । राजकुमारी बेहोश पड़ी है ।” यह सुन वह शीघ्र ही गई और केले के पत्ते लाकर उसने उसे दे दिये ।

बाद में उसने प्रश्नकर्ता से कहा, “भद्र ! सुनो इस हमारी स्वामिनी ने अपनी सखी को योगिनी के वेष में कुशस्थल भेजा था । कारण कि यह कई दिनों से श्रीचन्द्र पर आसक्त है । इसने अपना प्रेम-प्रकट करने के लिये अपना चित्र तैयार करवा कर श्रीचन्द्र के पास भेजा था परन्तु वह दैवयोग से वहां न मिला । यह अभी अभी जो नलिन वेशधारिणी स्त्री मन्दिर में प्रविष्ट हुई है वही कुशस्थल से लौटी है । इसने जो जो हुआ वह सब अभी इसी मन्दिर में राजकुमारी को कह सुनाया है ।”

सके निराशा भरे वचनों को सुनकर कुमारी मूर्च्छित होगई और उसी को होशमें लाने के लिये यह सारी दौड़धूप मरिदा रही है। उसी के सोच में यह सारा रोना चिल्लाना रहा है। यही बात रंग में भंग का कारण हुई है। जाने अब क्या होगा ? ऐसा कह कर वह अपनी सखी के साथ चली गई।

उन सब के वहाँ से चले जाने के बाद राजकुमारी के साथ विवाह न करने की इच्छावाले कुमार श्रीचन्द्र ने मदन पाल से कहा, “भाई ! तुम व्यर्थ ही राज्यसुख और वैभव को छोड़ कर इधर उधर भटक रहे हो। यदि इसके बिना तुम्हें सरता ही न हो तो मेरी सलाह सुनो।”

संसार में धन ही एक ऐसी वस्तु है जिससे सारे अनोरथ सिद्ध हो जाते हैं बिना इसके सब निष्फल है। यह सुन कर मदनपाल ने कहा, अगर धन हो तो यह उपाय किस रीति से सफल हो सकता है ?

श्रीचन्द्र कुमार उसको लेकर वहाँ से दूर चला गया। वहाँ जाकर उसने कहा कि जो बात राजकुमारी की सखी ने कही है उसीके आधार पर हमें यह सारा जाल फैलाना होगा। तुम कुमार श्रीचन्द्र बनो और मैं तुम्हारा सेवक। फिर नगर में चलें और किराये से मकान लेकर

रहें । वहां पर तुम याचकों को विशेषकर के गुप्तदान देना । इससे तुम्हारी प्रसिद्धि अपने आपही हो जायगी । इसके बाद मैं तुम्हारी सहायता के लिये ऐसे ऐसे का करूंगा जिससे राजा को यह बात मालूम हो जायगी । श्रीचन्द्र चुपके से अपने नगर से यहां आया है । इससे आगे तुम्हारे भाग्य ही प्रमाण हैं, क्योंकि, सबसे बड़ा भाग्य ही एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को इस जीवन-संग्राम में सफल और निष्फल बनाती है ।

यह सुनकर मदन अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उन दोनों ने जैसा विचारा वैसा ही किया । मदन मकान के ऊपरी भाग में बैठा रहता था, और कुमार द्वार पर द्वारपाल के रूप में बैठा उचित कार्यवाही किया करता था ।

श्रीचन्द्र के दान की बाहवाही सारे शहर में फैल चुकी थी । छोटे-बड़े, धनी-निर्धन, सबल-निर्बल सब की जवान पर उसीका नाम था । शनैः शनैः उसके यशोराशि शारदीय चन्द्रिका के तरह राजा को भव सुधालित राज्य प्रासाद में भी फैल गई । राजा भी अपने नगर में श्रीचन्द्र का आगमन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ । उसने अपने मंत्रियों को उसके पास भेजकर आने जाने का मार्ग खोल दिया ।

कुमार ने मदन को यही उपदेश दिया कि तुम योगी की भांती मौनी बने रहो । बस यही तुम्हारा काम है । अवशिष्ट सभी काम मेरे सिपुर्द हैं । सारे काम द्वारपाल रूपी कुमार ने अपने उपर लेकर अपने चातुर्य से, मारे नगर को राजा, राजकन्या और मंत्रियों वगैरह सभी को खुश कर दिया ।

राजा उसके आचरणों से इतना प्रसन्न हुआ कि वह वयं जाकर उसे अपनी कन्या के साथ विवाह करने की धार्थना करने लगा परन्तु कुमार रूपधारी मदन उपर से मानाकानी करता रहा । अन्त में बड़े कष्ट से राजा ने उसे अपनी कन्या से विवाह करने के लिये राजी किया ।

द्वारपाल ने मंत्रियों से कहा कि अब आप विवाह करने में देर न करो-शीघ्र ही इस काम को पूर्ण करो । राजा ने दूसरे दिन ही गोधूलिक लग्न नियत कर दिया और दो जगहों पर विवाह की सामग्री इकट्ठी करली । श्रीचन्द्र के विवाह के उपलक्ष में पुरवासियों ने प्रसन्न होकर शीघ्र ही नगरी को अनेकों प्रकार से सजाकर अमर-रीसा बना दिया ।

मदन खुशी के मारे फूला न समाता था पौफट ने पहले ही वह उठ कर अपने नित्य के धार्मिक कृत्यों

से निवृत्त हो चुका था। वह अपने हृदय में कई प्रकार की आशाएँ और उमंगों लिये अपने महल के भरोसे में बैठा चौराहे और पनघट की शोभा को निहार रहा था। इसी बीच में कुछ पनिहारियों की बातचीत की भनक उसके कानों में पड़ी।

एक सखी ने दूसरी से कहा, सखि ! क्यों भाजारही हो ? दूसरी ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें यह माल नहीं है, कि आज हमारी राजकुमारी का विवाह-दिन है। कुमार श्रीचन्द्र और कुमारी प्रियंगुमंजरी दोनों आचार्य गुणधर से सब प्रकार की शिक्षा पाई है। अतः विवाह के पहले उन दोनों में पद्मिनी आदि स्त्रियों के भेद और लक्षणों के विषय में बातचीत होगी, और इसके पश्चात् उनका पाणिग्रहण होगा। कारण की श्रीचन्द्र उस विषय को भली प्रकार जानता है। अतः आज बड़ा भारी कौतुक होगा। इसीलिये आज जल्दी है। काम काज से निवृत्त होकर फिर राजमहल में जाऊँगी।

मदन इस वार्तालाप को सुनकर बड़ा चिन्तित हुआ और उसने श्रीचन्द्र से यह सारी बात कही, और यह भी कहा कि मित्र ! बताओ अब क्या किया जाय ?

श्रीचन्द्र ने उत्तर दिया, "मित्र ! मैं स्त्रियों के चारों भेदों को थोड़ा बहुत जानता हूँ, अतः तुम शीघ्र

ही उसे लिख कर हृदयंगम कर लो जिससे तुम्हारा यह काम भी पूर्ण हो जायगा । ” मदनपाल ने उत्तर दिया, “मित्र ! अब पढ़ने लिखने का समय नहीं रहा । इधर तो लग्न बेला निकटातिनिकट आरही है और अब इतने संकीर्ण समय में कोई भी बात किस तरह याद की जा सकती है । कहा भी है—

“संदीप्ते भवने तु कूप-खननं, प्रत्युद्यमः कीदृशः ।”

“आग लगे खोदे कुआ, कैसे आग बुझाय ।।”

यद्यपि तुम मुझ से उम्र में छोटे हो लेकिन रूप में समान ही हो, और वस्त्राभूषणों के धारण करने पर और भी अधिक सौन्दर्य को प्राप्त हो जाओगे । अतः मेरी तुझसे यही प्रार्थना है कि तुम मेरा वेप ग्रहण कर लो और तुम्हारा वेप मुझे दे दो और मेरी जगह पर तुम विवाह करके विवाहित राजकन्या को मुझे सौंप दो ।” कुमार ने उत्तर दिया “यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे यह बात भी स्वीकार है ।”

फिर क्या था ? मदन पालने उसका द्वार पाल का वेप धारण कर लिया, मगर श्रीचन्द्र ने उसके वस्त्र न पहने । उसने तो अपने ही वस्त्र और आभूषणों से अपने को सजाया ।

इधर वहां पर आकर के राज-स्त्रियों ने वैवाहिक विधि के अनुसार उसके घर पर मांगलिक कृत्य किये। इसके बाद वह सुवर्ण और रत्नों के आभूषणों को धारण करके अपने कुण्डलों और नाममुद्रा से शोभायमान हाथी पर सवार हुआ। सिर पर सफेद छत्र लगाया गया। चंवर ढुलने लगे। सुवर्ण और रजत दण्ड लिये छड़ीदार और चौपदार आगे आगे चलने लगे। बन्दीजन स्तुति करते हुए चल रहे थे। बाजे बज रहे थे। नगर के लोग और सैनिकों की पंक्तियां आगे आगे चल रही थी। बड़े महोत्सव के साथ वह नगर में होकर राजमहल में पहुँचा। वहां पर तारक भट्ट ने उसे पहचान लिया और उसकी प्रशंसा में बोल उठा,—

तइया विवाह समए, धनवइ पमुहाए अट्टकनाए।

सिरिचन्दो सिद्धिघरे, जो दिट्टो सो इमो जयउ ॥

यह सुनकर राजा बगैरह ने उसे खूब दान दिया और कुमार को गोदी में लेकर राजा सिंहासन पर बैठ गया। कुमार के रूप, नाम-मुद्रा और कुण्डलों को बारबार देखते हुए राजा ने राजकुमारी को दूसरे सिंहासन पर बिठाकर कोई शास्त्रीय चर्चा छेड़ने की आज्ञा प्रदान की। पाठक उस चर्चा को अगले प्रकरण में ध्यानसे सुनें।

२६

काव्य-शास्त्र-विनोदेन, कालो गच्छति धीमताम् ।

व्यसनेन च मूर्खाणां, निद्रया कलहेन च ॥

अर्थात्—पण्डित स्त्री-पुरुषों का समय काव्यों की एवं शास्त्रों की चर्चा के विनोद में हंसी खुशी से बीतता है, तो मूर्खों का समय जूआ, तास, भांग आदि के व्यसन में, नींद में, या लड़ाई झगड़े में ही बीतता है ।

भोजन के बाद का समय था । सूर्य की गति अपूर्व हो रही थी । घाम से बचने के लिये मकानों में खसखस की टाटियों पर गंगा-गुलाबजल के छिड़काव हो रहे थे । उनसे भीठी तर खुशबू के साथ ठंडी हवा की लहरें निकल कर दिल और दिमाग को तर कर रही थीं । कोई अंगड़ाइयां लेते घरों में सोते पड़े थे । कोई पराई

निन्दा वार्ता में लगे हुए गप-सप लगा रहे थे। कोई अपने ही भविष्य की चिन्ता में लीन हो रहे थे। कोई तास, चौपड़, सतरंज के खेलों के साथ जूए के दांव धर कर लक्ष्मी को इधर से उधर कर रहे थे। कोई वीडो, भांग आदि के व्यसनों से विपत्तियों का अनुभव करते हुए भी उन्हीं में मजा लूट रहे थे दुकानदार ग्राहकों के आने की राह देखते २ समय बीता रहे थे। कई धार्मिक जन सामायिक में, स्वाध्याय में, एवं भगवान के नाम जाप में तन्मय हो रहे थे। कड़े धूप के कारण बाहर निकलने को जी नहीं चाहता था। गृह-चिमटां भोजन निपट कर सीने-पिरोने, नहाने-धोने, एवं सोने-पोने के कामों में लगी हुई अपनी सुवडता को दिखा रही थीं।

ऐसे दुपहरी के समय में कांतिपुरी के राजा नरसिंह की राज-सभा में हेमपुर के राजकुमार-वनावटी श्रीचन्द्र-के बदले में चरितनायक कुमार श्रीचन्द्र राजकुमारी प्रिय-गुमंजरी के साथ लग्न के दिन अपने प्रौढ पाण्डित्य का प्रदर्शन करा रहे थे। इस अपूर्व प्रसंग को देखने सुनने के लिये राजा ने नागरिक स्त्री-पुरुषों को भी आमंत्रित किये थे। राज-सभा खचाखच भरी हुई थी। सबकी आंखें और कान राजकुमार के रूप और ज्ञान को नंबर दे रहे थे।

पिता की आज्ञा से राजकुमारी प्रियंगुमंजरी ने समा को साक्षी बनाते हुए कुमार से स्त्रियों के भेद और लक्षण पूछे ।

उत्तर में कुमार श्रीचन्द्र ने कहा:—“अयि पण्डिते ! राजकन्ये ! पद्मिनी, हस्तिनी, चित्रिणी और शंखिनी ऐसे स्त्रियों के चार भेद होते हैं । एक २ भेद के चार २ उपभेद भी होते हैं । ऐसे कुल सोलह भेद शास्त्रों में बताये गये हैं ।

इनके लक्षण गंध से, अंगोपांगों से गति से, दांतों से, नेत्रों से, आदि २ प्रकारों से जाने जाते हैं । उसका स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है—

पहला भेद पद्मिनी का होता है—उसके शरीर से कमल की सी सुगंधी निकलती है, सारा शरीर सुन्दर होता है, उसमें भी मुख की शोभा विशेष होती है । वह हंस की तरह चलती है । उसके मोगरे की कलियों के जैसे सुन्दर सुडौल स्वच्छ दांत होते हैं । माथे में चिकने सलौने श्याम—सुन्दर लम्बे २ बाल होते हैं । मोटे २ उसके नेत्र और स्तन होते हैं । पद्मिनी की नींद आहार, कामवासना, पसीना क्रोध आदि अल्प होते हैं ।

दूसरा भेद हस्तिनी का होता है उसके शरीर में हाथी के मूद जैसी गंध होती है । हथिनी के जैसी उसकी

मस्तचाल होती है। दांत बड़े केश कुछ मोटे, स्तन आंखें कुछ छोटी २ होती हैं। हस्तिनी की नींद गहरी आहार काम-वासना पसीना क्रोध आदि कुछ अधिक होते हैं।

तीसरा भेद चित्रिणी का होता है उसके शरीर से अनेक प्रकार की गंध निकलती है। उसकी साथलें सुडौल होती हैं। दांत और केश उस के सूक्ष्म होते हैं। तीखी उस की आंखें होती हैं। उंचे उसके स्तन होते हैं। चित्रिणी की थोड़ी नींद चटपटा थोड़ा आहार, अनेक स, मध्यम प्रकार का पसीना आदि होते हैं।

चौथा भेद शंखिनी का होता है—उसके शरीर से मंछली की सी गंध निकलती है। स्तनों में सुन्दरता होती है। गधी की तरह चलती है। मोटे लंबे उसके दांत होते हैं। उसका केशपाश लूखा और मोटा होता है। आंखें पीली पीली सी होती हैं। खूब सोनेवाली, खूब खानेवाली, खूब वासना-विकारवाली, और खूब पसीनेवाली शंखिनी स्त्री होती है। क्रोध तो उसका बहुत दीर्घ काल तक चलता रहता है।

पद्मिनी प्रिय-पुष्पौवा, हस्तिनी मैक्कि-प्रिया।
चित्रिणी प्रियभूषा च, शंखिनी कलह-प्रिया ॥

पद्मिनी का फूलों से प्यार होता है । हस्तिनी को मोती प्यारे लगते हैं । चित्रिणी को अलंकार और शंखिनी को भगडा करना ही अच्छा लगता है ।

पद्मिनी का हाथ कमल जैसा, हस्तिनी का शंख जैसा, चित्रिणी का मगर जैसा, और शंखिनी का हाथ मत्स्य जैसा होता है ।

हे बाले ! अब स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों से इनके भेद सुनो । साधारणतया शुभ और अशुभ लक्षणों के अनुसार उनके दो भेद होते हैं । एक तो शुभा और दूसरी अशुभा ।

पूर्ण-चन्द्रमा के समान मुखवाली, बालसूर्य के समान कान्तिवाली, बड़े चेहरे वाली और लाल लाल होठों वाली कन्या 'शुभा' कहलाती है । जिस स्त्री के हाथ में अंकुश, कुंडल और चक्र होते हैं वह पुत्रवती और राजा की रानि होती है । जिसके हाथ में तोरण और प्राकार का चिन्ह होता है वह नीच कुल में पैदा होने पर भी रानी बनती है । जिसके हाथ में मन्दिर, कमल, चक्र, तोरण, छत्र और कुंभ होता है वह अवश्य राजा की रानी बनती है जिसकी हथेली में मोर का छांता दिखाई देता है वह स्त्री पुत्रपौत्रों वाली होकर बहुत फलती

फूलती है और रानी बनती है । जो स्त्री हरिणी के सम
 दृष्टिवाली, कोमल अंगवाली, हरिणी के समान गद
 और उदर वाली तथा हंसी के समान चाल वाली हो
 है वह अवश्य रानी होती है । जिस स्त्री के घुंघरा
 बाल और गोल मुंह तथा दक्षिण की ओर भौरी वाली नाभि
 होती है वह बड़ी ही प्रेम पात्र होती है । जिसकी अंग-
 लियें बड़ी बड़ी और लम्बे लम्बे केश होते हैं वह भी
 बड़ी उम्र वाली और धन धान्य से भरपूर होती है । जो
 स्त्री कृष्ण की तरह श्याम, चम्पक पुष्प के समान गौर
 वर्णवाली स्निग्ध अंग और बदनवाली होती है वह बड़ी
 सुखी होती है । जिस स्त्री के हँसने पर ललाट में स्वस्तिक
 का चिन्ह होता है तो वह हजारों वाहनों सवारियों की
 स्वामिनी होती है । जिसके बाएँ पार्श्व में, गले में,
 अथवा स्तनों पर मस्से, तिल आदि कोई चिन्ह हो तो
 वह सर्व प्रथम पुत्र पैदा करती है जो स्त्री कम पसीने
 वाली, थोड़े रोएं वाली, कम आहार और कम निद्रावाली
 होती है और जिसके शरीर पर रोएं नहीं होते हैं वह
 उत्तम लक्षणों वाली कही जाती है । जिस स्त्री के जांघों
 स्तनों और होठों पर रोएं होते हैं वह शीघ्र ही विधवा
 हो जाती है । जिसकी पीठ में भौरी होती है वह अपने
 पति का नाश कर देती है । हृदय में आवर्त (भौरी)

वाली पतिव्रता और कमर में भौरी वाली स्त्री स्वैरिणी होती है। जिसकी ललाट, पेट और योनि (गुह्यस्थान) लम्बी होती है वह अपने पति, समुर और देवर के लिये घातक होती है। मनुष्य को चाहिये कि वह काली जीभवाली, लम्बे होठों वाली, पीली आंखों वाली, वर्धर-आवाज वाली, अत्यन्त गौरी और अत्यन्त काले रंग की इन छः प्रकार की स्त्रियों के साथ विवाह न करे।

जिस स्त्री के बिना हंसे भी गालों में गड्ढे पड़ते हैं ऐसी स्त्री बड़ी व्यभिचारिणी होती है और वह कभी भी अपने पति के घर नहीं ठहरती। जिस स्त्री की कनिष्ठिका और अनामिका उंगली यदि पृथ्वी को न छूती हो तो वह अवश्य ही युवावस्था में जारों के साथ रमण करती है इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके जैसा मुख हो वैसा ही गुप्त स्थान हो, जैसी आंखें हो वैसी ही कमर हो, जैसे हाथ हों वैसे ही पैर हों, बाहुओं के जैसी ही जंघाएं हों और जो कौए के समान स्वर वाली कौए के सदृश जांघोंवाली पीठ में रोएं वाली बड़े बड़े दांतवाली हो वह कन्या विवाह के बाद दस महिने में ही पति के मृत्यु का कारण बन जाती है इसमें कोई संदेह नहीं।

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार विकट अंगुलियों वाली छिदे छिदे पैर वाली, धम धम चलने वाली, ऐसी स्त्री

वैर वसाने वाली होती है। अति दीर्घ, अतिह्रस्व, अति स्थूल, अतिकृश, अति-गौर और अति-कृष्ण, ऐसे छः तरह के भग, दुर्भग कहलाते हैं। कञ्जुए की पीठ के समान उन्नत, हाथी के स्कन्ध समान, कमल के पत्ते के समान, सुसंवृत, अनुष्ण और अम्बर के समान सद्वृत, ये छः प्रकार के भग सुभग कहलाते हैं।

अब कुमार विवाह के योग्य और विवाह के अयोग्य स्त्रियों के लक्षण बतलाते हैं।

पीनोरु पीनगंडा, लघुसमदशना, दक्षिणावर्त-नाभिः
स्निग्धांगी चारु-सुभ्रुः, पृथुकटिजघना, सुस्वरा चारुकेशी।
कूर्मपृष्ठा--ह्यनुष्ण—द्विरदसम-पृथु स्कंधभागा सुवृत्ता
सा कन्या पद्मनेत्रा, सुभग-गुणयुता नित्यमुद्गाह-योग्या ॥

अर्थात्— पुष्ट जंघोंवाली, प्रफुल्ल और पुष्ट गालों वाली, छोटे छोटे बराबर दांतों की पंक्तिवाली, दक्षिण की ओर भंवरीयुक्त नाभिवाली, स्निग्ध शरीर वाली, सुन्दर भौंहोंवाली, विशाल-जघन वाली, मधुर-स्वर एवं सुन्दर-केशोंवाली, सुभग-पद्म के समान विकसित नेत्रोंवाली ऐसी प्रधान गुणवती कन्या विवाह के योग्य होती है। विवाह के अयोग्य स्त्रियों के सामुद्रिक-लक्षण ये हैं—

पिंगाक्षी, पूषगंडा खर-परुपरवा, स्थूलजंघोर्ध्व-केशी

लम्बौष्ठी, दीर्घवक्त्रा प्रविरलदशना श्यामतालवोप्रजिह्वा।

शुष्कांगी संहितभ्रू विषम-कुचयुगा, नासिकाकान्त-वक्त्रा
सा कन्या वर्जनीया सुख-सुतरहिता भ्रष्टशीला च नारी ॥

अर्थात्—पीले नेत्रों वाली, पूरे के समान छिद्रयुक्त
गालों वाली, गंधे के समान भारी आवाज वाली । मोटी
जाँघों वाली, खड़े केशोंवाली, लम्बे होठ और मुँह वाली,
छोटे छोटे दाँतों वाली, श्याम रंग के तालु, होठ
और जीभवाली, सूखे दुर्बल शरीरवाली, छोटी भौहें और
छोटे बड़े स्तनों वाली, लंबी चौड़ी-नाक वाली, शीलभ्रष्ट
कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिये ।

शास्त्र तो विवाह के बाद भी अयोग्य स्त्री के त्याग
की आज्ञा देता है । जैसे—

विवाद-शीलासनमर्द-सूरिणी, परानुकूलां परपाक-पाकिनीम् ।
आक्रोशिनीं शून्यगृहोपवेशिनीं, त्यजस्व भार्यादश पुत्र-पुत्रिणीम् ॥

अर्थात्:—रात दिन कलह और विवाद करने वाली,
दूसरों के अनुकूल चलने वाली, दूसरों के यहाँ खाना
पकाने वाली, निन्दा करने वाली, सूने घर में सोने वाली
स्त्री को चाहे वह दस पुत्र व पुत्रियों वाली ही क्यों न
हो उसे बिना विचार किए ही त्याग देना चाहिये ।

इस प्रकार कुमार श्रीचन्द्र ने प्रियंगुमंजरी के प्रश्नों
का सुन्दर और स्पष्ट रूप से उत्तर दे उसे संतुष्ट कर

दिया । प्रियंगुमंजरी ने भी प्रसन्न होकर उनके गले पर वरमाला डाल दी । विवाह मंडप में कुमार का विधिपूर्वक प्रौखण (परीक्षण या पोंखना) आदि के होजाने के बाद मातृका स्थान पर वरवधू को लाया गया । शास्त्रोक्त विधि से करणीय और आवश्यकीय कृत्यों को करके सुन्दर हरे वांसो से बनी, चारों कोनों में चार कलशों वाली चंवरी में अग्नि की साक्षी से फेरे फिराये गये । दहेज में यथायोग्य सोना, चांदी, मणि, रत्न, दास-दासी, हाथी, घोड़े राजा ने बड़े भारी उत्साह के साथ दिये । धूमधाम से सवारी के साथ श्रीचन्द्र और प्रियंगुमंजरी को उनके निवासस्थान पर ले जाया गया । लोगों ने परस्पर इस प्रकार कहा —

रूप, विद्या, कुल, बुद्धि और गुणों में यह कुमार एक ही है वैसे ही यह राजकन्या भी सौंदर्य और शक्ति में एक ही है । इन दोनों का संयोग सुवर्ण के साथ रत्न का, इन्द्र के साथ इन्द्राणी का, रति के साथ कानन देव का रोहिणी के साथ चन्द्र का और रत्नादेव के साथ सूर्य का जैसा सुन्दर योग हुआ है उन्हीं के समान इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध भी उतना ही प्रशंसनीय हुआ है ।

कुमार श्रीचन्द्र विवाह के मांगलिक कृत्यों से निवृत्त होकर घर में प्रवेश करके, सबको यथास्थान स्थापन करके, याचकों को दान देकर के अपने महल में विश्राम के लिए चला गया ।

पूज्य पतिदेव के महल में आ जाने पर सुन्दरी प्रियंगुमंजरी भी पति के पास प्रसन्नता के फूल बखेरती हुई पहुँच गई । काव्यालाप और साहित्य चर्चा हो रही थी । परस्पर एक दूसरे के पांडित्य का परिचय हो रहा था । मुखावलोकन और संभाषण के आनन्द का अमृत पिया जा रहा था । लहराती हुई आनन्द की लहरों से वे दोनों किसी अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे थे इतने में मदनपाल ने वहां पहुँच कर आंख के इशारे से श्रीचन्द्र को प्रतिज्ञा की याद दिला दी । श्रीचन्द्र अपनी प्रतिज्ञा को याद करके शौच के बहाने से ज्योंही महल से निकला, प्रियंगुमंजरी भी पानी लेकर उसके पीछे पीछे चली । कुमार ने उसे वहीं रोक दिया । खुद ऊपर से नीचे चला आया । अपने कुण्डल, मुद्रिका एवं प्राचीन वेश को लेकर बोला—मित्र ! मैंने तुम्हारी मनोभिलाषा पूर्ण कर दी है । मैं अन्यत्र जाता हूँ । अब गृह संरक्षण का भार तुम्हारी योग्यता पर निर्भर है ।

मदनपाल ने उत्तर दिया—भाई ! तुमने मेरे लिए सब कुछ किया । मैं बदला नहीं चुका सकता । एक प्रकार से आपने मुझे जीवन दान दिया है । अब आप अपनी इच्छानुसार जा सकते हो । प्रत्येक व्यक्ति का कष्ट दूर करने में समर्थ बने रहो, यही मेरा हार्दिक आशीर्वाद है । कुमार श्रीचन्द्र बाहर निकल गया ।

मदनपाल ने प्रसन्नता के साथ आँखों में सुरा लगाया, पान चवाया, कुमार के विवाह का वेश धारण कर, चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भारी उमंग को हृदय में लिये वह महल में पहुँचा । अजीब प्रकार से आते और बैठते हुए निस्तेज मदन को देखकर प्रियंगुमंजरी के मन में संदेह हुआ । वह विजली की तरह चमक कर बाहर निकल गई । उसने अपनी सखियों से कहा—यह अजनबी पुरुष मेरे महल में कौन घुस आया है । अरी सखियों ! जरा देखो तो सही । वेशभूषा तो मेरे पतिदेव के जैसी ही मालुम होती है परन्तु व्यवहार, आचरण और सूरत में जमीं आसमान का अन्तर हो गया है । सखियों ने कहा—स्वामिनि ! आप पागल तो नहीं हो गई हैं जो इस प्रकार कह रही हैं । भला पति के सिवाय यहाँ अभी दूसरा पुरुष कौन आ सकता है ? उनकी वेशभूषा से ही निर्णय कर लेना चाहिये ।

प्रियंगुमंजरी ने सखियों को विश्वास दिलाते हुए कहा—सखियों ! अगर तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करती हो तो तुम स्वयं जाकर उसे पहले की बातचीत और प्रेम-भरे वचनों को पूछो, और उसके मुँह से कहनाओ। इस प्रकार उसकी जाँच करके देखो, कि वह वही या दूसरा।

सखियों ने आज्ञा पाकर वैसा ही किया। उक्ति-तुक्ति के अनन्तर उनको यह निश्चय हो गया कि यह वह श्रीचन्द्र नहीं है। यह तो कोई दूसरा छली पुरुष है। वे वहाँ से बाहर चलीं आईं और कहने लगीं—
 वामिनि ! वास्तव में आपका कहना सच है। यह कोई अन्य ही है। हमें द्वारपाल से जाकर पूछना चाहिए। यह कहकर वे द्वारपाल के स्थान पर पहुँचीं मगर उन्हें वह भी दिखाई न दिया। यह देख सखियों को वहीं छोड़कर राजकुमारी स्वयं अपनी माता के पास चली गई। इस प्रकार पुत्री को आई देख माता को कुछ सन्देह हुआ, और उसने निकट से पूछा—बेटी ! कुशल तो है ? तुम ऐसी हालत में ऐसे कैसे चली आई हो ? दुखी हृदय से राजकुमारी ने उत्तर दिया—माता जी ! बड़ा अनर्थ हो गया है। जिनको मेरी जिन्दगी सदा के लिए सौंपी थी वे तो नहीं दिखाई नहीं देते। परन्तु उनकी जगह कोई अन्य ही

व्यक्ति उनका वेष बनाकर आ उपस्थित हुआ है। यह सुनकर माता बड़ी दुखी हुई। माँ ने राजा से सारा हाल कह सुनाया। राजा भी इस दुखदायक अद्भुत घटना को सुनकर अतीव दुखी हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल उस पुरुष को बुलाकर बड़े गौर से देखा। राजा को भी निश्चय हो गया, कि यह कोई अन्य व्यक्ति प्रतीत होता है अपने विश्वास को टूट करने के लिए राजा ने कुण्ड और मुद्रिका दिखाने को कहा। वे दोनों चीजें तो श्रीचं के साथ चलीं गईं थीं अतः वह न दिखा सका। पत्रिका आदि स्त्रियों के सम्बन्ध में पूछा तो उसका जवाब भी वह न दे सका। राजा ने नाराज होकर गीली वैतों से पीटने की आज्ञा अपने सिपाहियों को दे दी। वैत उठते ही वह थर थर काँपने लगा और मारे डर के उसने राजा को वृत्तान्त कह सुनाया।

वह कहने लगा—मेरा नाम मदनपाल है। राजकुमारी के चित्र को देखकर मोहित होगया। राजकुमारी के चित्र को पाने के उद्योग में मैं यहां आया। मेरी एक ब्रह्मचारी बाबा से भेंट हुई। उसने मेरा दुखडा सुनकर मेरे ही कहने से मेरा वेष बनाकर इस कन्या से विवाह किया पूर्व प्रतिज्ञानुसार उस परोपकारी ब्रह्मचारी ने मुझे दहेज समेत इस कन्या को सौंप दी। वह कहीं चला गया

नहीं वह अब कहां है । उसी की बुद्धि से मैंने इतना
ता पार किया ।

इस प्रकार उसके वचन सुन कर राजा ने और पुर-
सियों ने कहा—वह अवश्य ब्रह्मचारी बाबा श्रीचन्द्र ही
था, वह श्रीचन्द्र ही था इसमें कोई संशय नहीं ।
स्थित तारक भट्ट ने भी कहा ।

राजा ने श्रीचन्द्र की इधर उधर खोज करवाई परन्तु
कहीं न मिला । कुमारी प्रियंगुमंजरी करुण विलाप
रने लगी । सुनने वालों की आंखों में भी आंसू छल
ला गये । उसके मुंह से निकलनेवाले वियोगजन्य
वचन इतने दयनीय थे, जिनका सुनकर पालतू मयूरों ने
त्य छोड़ दिया । पालतू हरिणों ने घास खाना छोड़
देया । यहां तक कि उसके दुख से सहानुभूति प्रकट
करने के लिए उद्यान के पेड़ों ने भी फूलों के आंसू
रसाए ।

पुत्री को इस प्रकार रोती कलपती देखकर पिता के
धैर्य का बांध भी टूट गया । राजा नरसिंह देव अपने
आप को संभाल न सका । वह धडाम से जमीन पर
गिर पड़ा और उसके बाल बिखर गये । सारा राजकीय
अस्तव्यस्त होगया । मुश्किल से होश में आने पर

दिल को मजबूत करते हुए पुत्री से कहा—बेटी ! रोओ मत । धैर्य रखो । गुणों की परीक्षा आपत्ति में ही होती है ।

धीरज धर्म मित्र अरु नारी,

आपत काल परखिये चारी ॥

तुम अपने पवित्र और सच्चे प्रेम पर श्रद्धा और विश्वास रखो । वह अवश्य ही तुम्हें मिलेगा, लेकिन मिलने पर तुम उसे पहचान तो लोगी ?

पुत्री ने उत्तर दिया—पिताजी ! यहां पर जिसे मैंने देखा है, जिसके साथ सुमापित गोष्ठी की है, उस पति को मैं भूल नहीं सकती हूँ । उन्हें मैं हर तरह से पहचान सकती हूँ । यह मुद्रिका उन्होंने मुझे प्रेम पूर्वक दी है । अतः जब तक पति का मिलाप न होगा तब तक मैं इस मुद्रिका की पूजा करती रहूँगी ।

इधर राजा की आज्ञा से मंत्रियों ने मदनपाल के पास से सारी दहेज सामग्री छीन ली । रानी द्वारा दी हुई अंगूठी उसके पास न मिली तब उन्होंने उससे पूछा—वताओ, वह मुद्रिका कहाँ है ? मदन ने उत्तर दिया—साधु द्वारा दी गई अंगूठी तो वह मेरे पास से स्वयं ले गया । यह सुन राजा सहित सब लोग बड़े हर्षित हुए ।

और कुमार श्रीचन्द्र के परोपकार, धैर्य, बुद्धि तथा साहस की एवं कन्या के भाग्य की सराहना करने लगे । राजा ने कुछ धन देकर मदनपाल को जिन्दा छोड़ दिया । अपने विश्वासपात्र सेवकों को श्रीचन्द्र की खोज में भेजा । आसपास के सारे ग्रान्त छान डाले । कुमार का कहीं अतापता न चला । तब वे निराश होकर लज्जित अवस्था में राजा के सम्मुख उपस्थित हुए । राजा उनकी बात सुनकर दीर्घ और गर्म सांस छोड़ते हुए बोला—किसी अच्छे दिन श्रीचन्द्र की खोज में सुयोग्य मंत्रियों को कुशस्थलपुर भेजूँगा । इस प्रकार सब अपने अपने स्थान पर चले गये और अपने अपने काम में लग गये ।



ग्रीष्मऋतु अपने पूर्ण यौवन पर थी। सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणों से जगत के प्रत्येक प्राणी को तपा रहा था। संताप से बचने के लिये सभी प्राणी आश्रय ढूँढ़ रहे थे। विशाल बट-वृक्ष पशु-पक्षियों की एक खुश-हाल वस्ती बन रहा था। पक्षियों का कलरव बड़ा ही सुहावना लग रहा था। गर्मी की अधिकता से पशु-पक्षी अपने जन्म-जात वैर को भुलाकर एक साथ सूर्य के प्रखर-ताप से अपना बचाव कर रहे थे। जल को छोड़कर संसार की सभी वस्तुएँ नीरस सी प्रतीत हो रही थीं। परोपकारी वृक्ष सब पर छाया किये हुए स्वयं एक तपस्वी के समान तप रहे थे।

एसे विकट समय में हमारा चरित्र नायक कुमार श्रीचन्द्र शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित क्षत्रिय वेश को धारण करके एक बड़े भारी जंगल में आ निकला । जोर की प्यास लग रही थी । किसी ऊँचे स्थान पर चढकर दूर तक जलाशय को ढूँढने के लिये दृष्टि दौड़ाई । कुछ ही दूर पर एक तालाब देखा, उसके किनारे एक दीप्तिमय तेजःपुंज भी दिखाई दिया । कुमार वहीं जा पहुँचा । अपने अंगोछे से जल को छानकर पीया, और वहाँ पड़े तेजःपुंज संपन्न चन्द्रहास खड्ग को देखा । कुमार ने उसे उठा लिया और सोचा यह किसी देव-मनुष्य या विद्याधर की तलवार है ।

इसका स्वामी कौन है ? यह जानने के लिये कुमार ने इधर उधर पता लगाया । पर कोई दिखाई न दिया— तब कुमार ने माना कि-या तो कोई इस तलवार को यहाँ भूल गया है, या आकाश में चलते २ असावधानी से किसी देव-विद्याधरकी पड़ गई मालूम देती है । तीक्ष्णता की परीक्षा-के लिये पास खड़ी वांस की भाड़ी पर कुमार ने उसे चलाई । नीचे की तरफ मुँह किये लटकता हुआ एक आदमी अधकटा कुमार को दीख गया । कुमार को बड़ा खेद हुआ । पश्चात्ताप करता हुआ वह कहने लगा—

अहो ! अज्ञान से यह भारी पाप मुझ से हो गया। निरपराधी को मारने से मुझे नरक में भी शायद स्था मिलना कठिन है। उस अधमरे आदमी के हाथ में तलवार पकड़ाकर कुमार ने कहा—भाई ! भूल में मेरे हाथ से तुम्हा चोट आ गई है। मैं अपराधी हूँ। क्षमा करके अपना तलवार ले लो, और जो दण्ड देना चाहो मुझे दे दो।

बोलने में असमर्थ उस अधकटे आदमी ने तलवार फेंकते हुए इशारे से जल की मांगनी की। कुमार ने उसे पानी लाकर पिलाया। थोड़ी देर बाद उसके प्राण-पखेरु उड गये। कुमार श्रीचन्द्र इस दुर्घटना से दुःखी हुआ। बिना कुछ खाये बिये ही वह आगे की ओर बढ गया।

रात हो चली थी। चन्द्रहास खड्ड ही उसका एक मात्र संगी था। मार्ग के कण्टों और अनजान में हुई नर-हत्या के दुःख से वह सदा की अपेक्षा आज अधिक थक चुका था। सामने उसे एक सघन बट-वृक्ष दिखाई दिया। कुमार ने उसी पर अपना पडाव डाल दिया। ज्यों ही वह आस पास देखता है। डाम के पुत्राल से वनी एक शय्या उसे दिखाई दी। उसे देखकर—“अवश्य ही यहां कोई यात्री पहिले सोया होगा”—ऐसा सोचकर कुमारने

उस शय्या को अपने सोने योग्य मानकर उसकी देख-भाल-पडिलेहना की ।

शय्या को ऊंची नीची करके देखने पर उसके नीचे लकड़ियों से ढकी एक खोखल कुमार को दिखाई दी । आश्चर्य से लकड़ियों को हटाकर क्षण भर में वह साहस का पुतला-कुमार उसमें उतर गया । वृक्ष के मुल में जा पहुँचा—वहाँ पर पड़ी हुई एक विशाल पत्थर की शिला को हटा कर नीचे के गड्ढे में हाथ डालकर टटोला तो उसे नीचे उतरने की एक सीढ़ी का पता चला । शनैः शनैः वह अपनी हिम्मत के बल पर नीचे उतरा । उसके आगे एक खोह उसे दिखाई दी । कुमार बात का पक्का, हिम्मत का धनी और आन का सच्चा था । वह कभी निराश होनेवाला जीव न था । भय तो उसे छू तक नहीं गया था । वह बिना हिचकिचाहट के उस खोह में भी जा घुसा । वहाँ पर उसने भूगर्भ में एक विशाल भवन देखा । रंगविरंगे रत्नों की दीपमालाओं के प्रकाश से प्रकाशित वह दुमंजिला मकान इन्द्रधनुष की भांति शोभा दे रहा था ।

कुमार पहले पहली मंजिल में घूमा, फिर बाद में दूसरी मंजिल में पहुँचा । वहाँ पर तरह तरह की रंग-

विरंगी मणियों से जड़े हुए, अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित, देश विदेश की मनुष्योपयोगी, धातु, काष्ठ, काच आदि की सभी सामग्रियों से शोभायमान एक सुसज्जित कमरे में जाकर वह एक रत्न-जड़ाऊ पलंग पर बैठ गया।

थोड़ी देर विश्राम कर लेने के पश्चात् कुमार ने आसानी से भीतर के कमरे के द्वार खोल दिये, और वह उसके अन्दर भी जा घुसा। वहाँ पर उसने एक बंदरी को रत्न-जड़ाऊ पलंग पर सोते हुए देखा। यह देख कर वह दंग रह गया। इधर बानरी भी उसे चकित देख शय्या को छोड़ के एक दम उठ खड़ी हुई, और आकर उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने उसके वस्त्र का अंचल पकड़ कर पलंग पर बैठाया। पलंग पर बैठकर आश्चर्य चकित कुमार ने उस बंदरी से पूछा “ चेष्टा से तो तुम मानवा दिखती हो और जैसे तुम बानरी हो यह क्या बात है ? मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ । ”

यह सुन कर वह रोने लगी और उसने दीवार में बने हुए एक आले की ओर इशारा किया। वह बार बार अपने नेत्रों और आले की ओर हाथ से इशारा कर के कुमार को समझाने लगी। उसके इशारे से कुमार उठ कर उस आले की ओर गया और उसमें से उसने अंजन

भरी हुई कुप्पियाँ दो बाहर निकाली। एक में सफेद और दूसरी में काला अंजन भरा हुआ था। उसने वानरी के संकेत से उसकी आँखों में काला अंजन डाल दिया। उस अंजनकी महिमा से वह सुन्दर दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण की हुई एक कन्या बन गई। उसे इस प्रकार मानवी बनी देख आश्चर्य में डूबे हुए कुमार ने उससे पूछा,—“भद्र! तुम कौन हो? और तुम्हें किसने ऐसी दशा में पहुँचाया है? इस स्थान का नाम क्या है? इन सब बातों का उत्तर देकर तुम मेरे सन्देह को दूर करो।”

कुमार के सन्देह का निराकरण करती हुई हर्ष और लज्जा के वशीभूत उम कन्या ने कहा “हे वीरवर! हेमपुर के स्वामी मकरध्वज नरेश की महारानी मदनवली-के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। माता पिता ने मेरा नाम मदनसुन्दरी रक्खा है। मैं अपने भाई मदनपाल की छोटी बहन और माता पिता की बहुत प्यारी बेटी हूँ। शुक्लपक्ष में चन्द्रकला की तरह दिन व दिन बढ़ती हुई मैं क्रम से तरुणावस्था को प्राप्त हुई। मैं मनुष्यों के सामुद्रिक लक्षणों-की जानकार होने के नाते यह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, कि जो कोई पुरुष बत्तीस लक्षणों से युक्त होगा, उसीके साथ विवाह करूँगी।

एक समय मेरा भाई मदनपाल किसी चित्रपट पर राजकुमारी प्रियंगुमंजरी के रूप व सौन्दर्य को देखकर उस पर मोहित होगया, परन्तु वह कुमारी राधावेध के कर्ना कुमार श्रीचन्द्र में पहले से ही प्रेम वाली थी। इसलिये उसने मदनपाल की ओर कुछ भी ध्यान न दिया। तो भी मेरा भाई प्रियंगुमंजरी के प्रेम में मोहित होकर वगैरे कहीं निकल गया। प्रेम का पंथ बड़ा ही विकराल है कहा भी है :—

धर भोम के दांतों को आनन से
 चने लोह के चारु चवावनो है,
 मनु आंख विहीन को देखनो है
 विन पांव को पंथ चलावनो है।
 विन डोर पतंग उड़ावनो है
 विन 'बुद्धि' को पाठ पढावनो है,
 यह प्रेम को पंथ कराल महा
 तरवार की धार पे धावनो है ॥

जब से भाई मदनपाल घर से निकला है, वापस लौटा ही नहीं। एक रोज मेरे पिताजी की राज-सभा में एक बंदी-कवि ने मधुर स्वर से कवन किया कि—

दान-व्यजन कोद्भूतः-श्रीचन्द्रस्य यशोऽनिलः।
 नव्यः कोऽप्यर्थि धूलीनां, पुञ्जं सन्मुखमानयत् ॥

अर्थात्-महाराज प्रतापसिंह के चिरंजीवी श्रीचन्द्र कुमार के दान रूप पंखे से पैदा होने वाला कोई यश-रूप नवीनवायु याचक रूप धूली समूह को आपके सन्मुख लाया है ।

यह सुन मेरे पिता हेमपुर-नरेश ने उस कवि का उचित सत्कार करके उसे विदा किया उसके बाद मंत्रियों के साथ परामर्श करके श्रीचन्द्र कुमार के साथ मेरा विवाह करने का निश्चय किया गया ।

इस चर्चा से प्रसन्न-मनवाली मैं समवयस्क सखियों-के साथ अपने फूल बाग में मनोरंजन के लिये गई । रंग-विरंगी फूलों से मेरे लिये हार, गजरे, कर्णफूल, आदि सखियों ने तैयार किये । इतने में कोई विद्याधर आकर मुझे उडा ले चला । उसने अपनी घरवालीके डर से मुझे यहां एकान्तवास में ला रखी है । यहां रहते हुए मुझे पांच दिन बीत गये हैं ।

विद्याधर ने मेरे साथ विवाह करने का प्रस्ताव रक्खा है मगर मैंने उसे ठुकरा दिया है । जब मैं अपने भाग्य पर रोने लगी तो उसने कहा-‘सुभगे ! रोती क्यों है ? मैं वैताल्य-निवासी रत्नचूड विद्याधर हूँ । इस समय गोत्री नरेश ने मेरे मणिभूषण नगर पर अधिकार कर लिया है । इस-

लिये मैं सपरिवार वहां से निकला हुआ, बाहर ही रहता हूँ ।

उसने मुझसे कहा एक दिन की बात है मैं पृथ्वी-पर घूमता हुआ, कुशस्थलपुर नगर में पहुँचा था । वह एक उद्यान में हाथी, घोड़े, ऊँट, रथ, और सेना आदि का पड़ाव पड़ा था । उनके बीच में जरी से काम किया हुआ एक मखमली तंबु लगा था । उसमें सोने के पलंग पर सखियों से घिरी हुई एक पद्मिनी को मैंने बैठी देखा । उस समय वह सुसराल से अपने भाई के साथ अपने पिहर-पिता के घर जा रही थी । मैं उसको देखकर मोहित हो गया । रूप और सौन्दर्य की मूर्ति-उस पद्मिनी-के अपहर्ण की इच्छा से मैं अदृश्य होकर वहां एक दिन ठहरा । परन्तु उसके शील के प्रभाव से एवं उसके पति द्वारा की हुई रक्षा के कारण मैं उसे उड़ाने में असमर्थ रहा ।

वह आगे कहता गया—तब मैं निराश होकर वहाँ से चल पड़ा । उसके समान रूपवाली स्त्री की खोज करने लगा । खोजते २ तू मुझे दिखाई दी, और मैं तुझे उड़ा कर यहाँ ले आया हूँ । अब मैं तेरे साथ विवाह करूँगा ।

यह कह कर विद्याधर ने सफेद अंजन को आंज कर मुझे वानरी बना दी । कुछ फल आदि खाने पीने का सामान रख कर वह यहां से चला गया । इसके बाद तीसरे दिन वह फिर आया, इस काले सुरमे के योग से मुझे वापस स्त्री रूप बनाकर कहने लगा—‘सुन्दरी ! इरती क्यों है ? ले ये मोदक, ये बड़े स्वादिष्ट हैं । इसके खाने से मन की अभिलाषा पूर्ण होती है—‘देख मैं ज्यो-त्षी से अभी लग्न दिखा कर आया हूं । गुरुवार की दोपहरी में लग्न ठहरा है । इसीलिये मैं सारी वेवाह की सामग्री यहां लेकर आया हूं तू इसे म्हाल कर रख । मैं बुधवार की रात्रि में या गुरुवार के प्रातःकाल में निश्चयरूप से आऊंगा इसमें तनिक भी अन्देह मत करना ।’

यह सुनकर मैंने उस विद्याधर से कहा, “विद्याधर ! तू म विद्वान् होते हुए भी मूर्ख क्यों बन रहे हो ? तू मारे पिता तुल्य हो । तू म मेरे साथ विवाह कैसे करोगे ।” उस प्रकार कहने पर भी उसने मेरी बात हंसी में टाल दी और मुझे फिर वानरी बनाकर चला गया ।

हे आर्य ! आज बुध की रात होगई है और वह प्रातःकाल अवश्य ही आवेगा । यह मेरी कथा तो

समाप्त हुई । अब आप अपना परिचय दें । हेसाहसिक आप कौन हैं ? और यहां किस प्रकार आये हैं ? कृपा का आप मुझे इस दुष्ट के पंजे से छुड़ा कर मेरा उद्धार कीजियें ।

यह सुन चन्द्रकला के पति श्रीचन्द्र ने अपने मन में विचार किया कि आज सुबह जो व्यक्ति मुझ से मारा गया है वह रत्न-चूड़ विद्याधर ही हो सकता है दूसर नहीं । ऐसा विचार करके गर्व रहित हो कुमार ने अपने परिचय देना शुरू किया । कुमारी ! मैं कुशस्थल पुराणा निवासी हूँ, और निर्धनता बढ़ जाने के कारण धन कमाने के लिये विदेश में आया हूँ । रात बिताने के लिये मैं इस बट वृक्ष पर चढ़ा और ज्योंही मैं डालपर विठी हुई डाम की पुआल पर सोने लगा तो मुझे एक खोखल दिखाई दी । उसमें घुस कर मैं यहां आया हूँ । पाताल मन्दिर देखकर मैं इस पर चढ़ा और यहां इस दुमंजिले पर तुम्हें वानरी के रूप में देखा । मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम वृथा दुःख क्यों भेल रही हो ? तुम कुमारी तो हो ही । उस विद्याधर के साथ शादी करने पर विद्याधरी हो जाओगी । इसमें तो मुझे तुम्हारा भला ही दिखाई देता है अतः तुम यहीं रहो ।

कुमार के वचनों का उत्तर देते हुए मदनसुंदरी ने कहा हे आर्य ! आप के स्वरूप को देख कर मैं आप को निर्धन नहीं मानती । मेरा अन्तःकरण आप के प्रति आकृष्ट हो रहा है । कहा है:—

सतां हि सन्देह—पदेषु वस्तुषु.

प्रमाण मन्तःकरण-प्रवृत्तयः ।

अन्तःकरण ही सन्देहवाली वस्तुओं में प्रमाण भूत होता है । आप को पाकर मुझे विद्याधरत्व की कोई अभिलाषा नहीं है । मेरे भाग्य ने ही आप को यहां भेजा है । आप ही वत्सीस-लक्षण संपन्न मेरे स्वामी हैं । मैं ही नहीं शास्त्र भी आप को महान् बताते हैं । देखियें सामुद्रिक शास्त्र में वत्सीस-लक्षण जो आप में मौजूद हैं, उन का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है ।

भुजा, नेत्र, उंगलियां, जीभ और नासिका लम्बी होनी चाहिये । पीठ, कण्ठ, लिङ्ग और जांघें छोटी होनी चाहिये । दांत, त्वचा नाखून और केश सूक्ष्म होने चाहियें । हथेली पैरों के तलिये, तालु, आंखों के कोने, जीभ, नाखून और होठ ये लाल होने चाहियें । ललाट और वक्षस्थल विशाल, तथा नाभि और स्वर गंभी

चाहियें । आंखों के तारे और केश सचिककण श्याम होने चाहियें ।

ये सारे सुलक्षण बत्तीसों ही आप के अंगों में प्रशस्य और प्रकट रूप से दीख रहे हैं । अतः मैं आप के ही श्रीचरणों की दासी बनूंगी । आप मेरा पाणि-ग्रहण कर, मेरे सुख-दुःख के साथी और स्वामी बनें । अब मैं किसी की परवाह नहीं करती, केवल आप को ही अपने जीवन का आधार मानती हूँ । कृपा कर के आप मुझे अपना लें वस मुझे विद्या या विद्याधर किसी की भी आवश्यकता नहीं है ।

प्राणनाथ ! पधारियें । इस समय आप अकेले हैं । प्रातः काल होते ही वह दुष्ट विद्याधर आ धमकेगा । व्यर्थ में बाधा खड़ी कर देगा । इस लिये हम दोनों को यहां से चल देना चाहिये । जिस से कि वह हमें देख ही न पावे ।

दूसरी बात प्रार्थना रूपमें अर्ज करती हूँ कि आज ही दुपहर को लग्न का समय है । विवाह की सामग्री यहां मौजूद ही है । अतः आप किन्तु परन्तु न करते हुए विवाह कार्य को साध लें, तो बड़ा अच्छा हो । श्रेयांसि बहुविघ्नानि' । हुआ करता है मंगल कार्य में बाधा आही जाती है । हम तो बाधा के ठिकाने पर ही खड़े हैं अतः

जल्दी विवाह करके हमें यहां से जल्दी प्रस्थान कर देना चाहिये ।

मदनसुन्दरी को समझाते हुए कुमार ने कहा—
सुन्दरी ! तुम अपने मन से भय निकाल दो । तुम्हारा
अब कोई कुल नहीं बिगाड़ सकता । यह तो बताओ
यहां इस धूमिधर में मध्याह्न का पता कैसे लगेगा ? ।
राजकुमारी ने बड़ी नम्रता से कहा—नाथ ! इसी भवन के
पास एक छोटीसी खिड़की है । उसीसे दिन-रात और
दोपहर का पता चलता है

इसके बाद कुमार ने उसके साथ प्रातः काल होने
पर वहीं पारणा किया । दोपहर के समय तक वे दोनों
वहाँ उस विद्याधर की प्रतीक्षा करते रहे मगर लग्न के
समय तक वह वहाँ न आया । पूर्व निश्चयानुसार उन
दोनों ने उसी लग्न में अपना विवाह कर लिया इसके
बाद वे दोनों उसी महल में विश्राम करने लगे । गोष्ठी
के बीच में मदन सुन्दरी ने कुमार से पूछा, “नाथ !
मुझे इस बात का विचार होता है कि विवाह के लिये
अत्यन्त उत्कण्ठित वह विद्याधर अभीतक क्यों नहीं
आया ?

यह सुनकर कुमार ने राजकुमारी को उस विद्याधर

के मृत्यु की सारी घटना से सूचित कर दिया
वह बोला, सुन्दरी ! सुनो,

कुमत्रैः पच्यते राजा, फलं कालेन पच्यते

लंघनैः पच्यते तापः, पापी पापेन पच्यते ॥ १ ॥

अर्थात् बुरी और अनिष्टकारी सलाह से राजा
वर्नाद हो जाता है, फल समय पाकर ही पकते हैं
बुखार लंघन करने से ही उतरता है और पापी पुण्य
अपने किये हुए पाप कर्मों के परिपाक होने पर अपने
आप ही नष्ट हो जाते हैं ।

सुन्दरी ! आज तो हम यहीं ठहरेंगे परन्तु कल हम
यहाँ से किसी दूसरे स्थान के लिये प्रस्थान करेंगे । इस
प्रकार दोनों ने वह दिन और रात्रि बड़ी ही प्रसन्नता
और प्रेमपूर्वक बिताई ।

जैसे तैसे भी वह सुहाग-रात बड़ी ही विलक्षण
और प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा संभाषण से व्यतीत हुई ।
प्रातः काल होते ही वे दोनों उठकर अपने अपने
आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर प्रस्थान की तैयारी
करने लगे । वहाँ के सारे रत्न और सारभूत वे दोनों
अंजन कुं पिकाएँ उन्होंने अपने साथ ले लीं और उसी

मार्ग द्वारा वापस बाहर निकल कर उसे एक विशाल शिला से ढक दिया। वहाँ पर कुछ धन निखेर करके वे वहाँ से आगे चले।

हाथ में तलवार लिये हुए कुमार वन में शेर की तरह निरशंक चला जा रहा था, और छाया की तरह सिंहनी मदनसुन्दरी उसका अनुगमन कर रही थी। क्रमशः वे उस भयानक वन को पार करके किसी एक गाँव में पहुँचे। विश्राम करने के विचार से वे विश्राम करने योग्य स्थान को ढूँढते हुए एक सुन्दर तालाब-की तीर पर पहुँचे। वहाँ उद्यान में डेरा डाला गया। कुमार ने भोजन बनाने का सामान जुटा दिया और बात की बात में राजकुमारी ने घेवर और पूए बना कर तैयार कर दिये।

इधर श्रीचन्द्र ने स्नानादि से निवृत्त हो आभूषण आदि पहन अपने पास रहे तीर्थंकर भगवान् के चित्र के सामने खड़े होकर देव-वन्दन किया। उस समय मदन-सुन्दरी ने कुमार की नाममुद्रा से उसका नाम मालूम कर लिया। उसने जो पहले चारणों भाटों और स्तुति-पाठकों के मुँह से कुशस्थल के स्वामी महाराज प्रतापसिंह-के पुत्र श्रीचन्द्र की प्रशंसा सुन रखी थी, उसी को

अपना स्वामी बना देख उसके आनन्द की सीमा न रही। अपने स्वामी की उदारता, दयालुता और दक्षिणता देख उसका रोम रोम हर्षित हो उठा। उसने अपने स्वामी से विनय पूर्वक प्रार्थना की कि वे भोजन करने बैठजायें।

श्री चन्द्र ने उत्तर देते हुए कहा “सुभ्रू ! आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपनी धर्मपत्नी के हाथ का पकाया हुआ भोजन मिल रहा है। अतः मेरी इच्छा है कि किसी साधु महाराज को पहले भोजन करा कर फिर मैं भोजन करूँ, और अपने सौभाग्य में चार चाँद लगा दूँ। इतना कह कर कुमार तालाब की पाल पर चढ़ कर इधर उधर देखने लगा। इतने में उसके भाग्य से खींचे हुए दो साधु वहाँ आते हुए दिखाई दिये। वह सामने जाकर उन्हें बड़े ही आदर पूर्वक ले आया और घेवर तथा पुए आदि पक्वान्न उन्हें वहरा दिया, फिर उसने अपनी स्त्री के और ओरभी उपस्थित दूसरे लोगों के साथ भोजन किया।

भोजन आदि से निवृत्त होकर कुमार श्री चन्द्र अपनी स्त्री के साथ उन साधुओं की सेवा में जा उपस्थित हुआ। वन्दन करके उन वत्स और कच्छ नाम के दोनों साधुओं के सामने वह बैठ गया। वत्स नामक साधु ने उन्हें धर्मोपदेश देना शुरू किया।

देवानुप्रियों ! चित्त, वित्त और सुपात्रों का योग बड़ा ही दुर्लभ होता है । कहा भी है—

काले सुपत्त दाणं सम्मत्त-विसुद्ध बोहिलाभं च ।

धन्ते समाहि-मरणं, अभव्व-जीवा न पावन्ति ॥

उत्तम-पत्तं साहू, मण्णिम्म-पत्तं च सावया भणिया ।

अविरय सम्मदिट्ठी, जहन्न-पत्तं मुण्येयव्वं ॥

अर्थात्—समय पर सुपात्र में दान देना, सम्यक्त्व से विशुद्ध ज्ञान-लाभ को प्राप्त करना और अन्त में समाधि-मरण ये तीन बातें अभव्य जीवों को प्राप्त नहीं होती । साधुओं को उत्तम-पात्र, श्रावकों को मध्यम-पात्र और अवरित सम्यग्-दृष्टियों को जघन्य-पात्र शास्त्रों में बताये हैं ।

दान धर्म से मनुष्य आत्म-धर्म को पाता है, दान से ही त्याग की साधना होती है । इसीलिये कहा है कि—न्यायोपाजित वित्त और त्याग-प्रधान चित्त की साधना से सुपात्र में दान देते रहना चाहिये । दान-धर्म-से धर्म-लाभ के अधिकारी आत्मा इस लोक और पर लोक की परम-लक्ष्मी को पाते हैं ।

इस प्रकार श्रीवत्स महर्षि के सदुपदेश को सुन कर कुमार ने मुनिराज से प्रार्थना की कि—हे भगवन् !

इस जंगल में घूमते हुए अनजान में मुझ-पापी से एक विद्याधर की हत्या हो गई है। अतः आप कृपा करके उस पाप का कोई प्रायश्चित्त दीजिये। मुझे मेरा पाप कांटे की तरह खटकता है।—

यह सुन श्रीमुनिराज ने फरमाया, पुण्यशाली! तुम्हें पाप-भीरुता प्रशंसनीय है। यद्यपि तुम्हारे पाप की शुद्धि पश्चात्ताप और दान से हो चुकी है फिर भी इस प्रायश्चित्त के रूपमें श्री अरिहंत, भगवान को नमस्कार उन का नाम जाप और मौका आने पर एक जिनमंदिर का भी निर्माण करना।

इस प्रकार सुधा-मधुर गुरु-वाणी को सुन कर आत्मा को कृत-कृत्य मानता हुआ कुमार बहुत प्रसन्न हुआ। क्रम से चलता हुआ वह श्री कल्याणपुर नाम के नगर में पहुंचा।



३१

संसार एक रंग भूमी है। इस में भले बुरे कई प्रकार के पात्र होते हैं। भलों की भलाई सदा सुवर्णाक्षरों में लिखी जाती है, याद की जाती है और बुरों की बुराई घृणास्पद हो कर यातों लोग भूल जाते हैं या फिर उस के प्रति तिरस्कार ही तिरस्कार होता रहता है। कौन नहीं जानता परोपकारी विक्रमादित्य को वस्तुपाल-तेजपाल को या पौराणिक राजा श्रीपाल को। उसी तरह से उस दुर्जन-शक्ति वाले धूर्त धवल सेठ को भी हम भूले तो नहीं पर उस के प्रति हमारा कोई सद्भाव नहीं है।

हमारा चरित्र नायक कुमार श्रीचन्द्र एक भला पात्र है। उसमें वीरता धीरता और गंभीरता तो है ही पर साथ ही साथ उदारता और दक्षिणता भी चरमसीमा में पहुंच

रही थी । अपने पूर्व-पूण्य-कर्मों की प्रधानता से उस के विरोधी उस का कुछ न विगाड सकते थे बल्कि वे विगाडने की भावना वाले ही विगाड जाया करते थे ।

कल्याणपुर की ही बात है । कुमार मदन-सुंदरी को लिये एक दिव्य-देव मंदिर में विश्राम कर रहा था । भोजन की तैयारी थी । इतने में एक कापालिक-बाबा श्रीचन्द्र-कुमार के पास आया । कुमार को बत्तीस-लक्षण संपन्न देख कर मन ही मन मुदित होता हुआ कुमार से कहने लगा—

विरला जाणंति गुणा, विरला जाणंति अत्तणो दोसे ।

विरला परकब्जपरा, पर दुक्खे दुक्खिया विरला ॥

कुमार ! दूसरे के गुणों को देखने वाले, अपने दोषों को देखने वाले, परकीय कार्य को सधाने वाले, और पराये दुःखों में दुःखी होने वाले पुरुष संसार में विरले ही होते हैं ।

कुमारने योगी के भाव समझ कर उससे पूछा बाबा । तुम कौन हो ? योगी ने कहा भैया ! मेरा नाम त्रिपुरानन्द भारती है । मैं खर्पर योगी का छोटा भाई हूँ ।

मैं लोकोपकार की इच्छा से सुवर्ण पुरुष की सिद्धि के लिये भटकता हुआ यहाँ आया हूँ । अभी तक कह

मुझे कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला, जो मेरे इस कार्य-में उत्तर-साधक बने। यहाँ पर तुम्हें आकृति और शरीर की कान्ति से महापुरुष और परोपकारी समझ में तुम्हारे पास आया हूँ अतः तुम आज रात्रि में मेरे उत्तर-साधक, बनो जिससे मेरे कार्य की सिद्धि शीघ्र हो जाय।”

परोपकारी कुमार उसकी प्रार्थना को ठुकरा न सका, और उसे उस कार्य की विधि पूछ बैठा। योगी ने उत्तर दिया, “महाशय ! स्वर्णपुरुष की सिद्धि रात्रि के समय शमशान में मनुष्य के मृत शरीर की साधना से होती है और सत्त्वशाली पुरुष की विद्यमानता में सारी सामग्री सुलभ हो जाती है।”

योगी के वचन सुनकर श्रीचन्द्र ने कहा, “अगर ऐसा है तो जाओ, वहाँ जाकर अपनी सामग्री जुटाओ। मैं वहाँ अवश्य ही आऊंगा।” कुमार की प्रशंसा करता हुआ वह योगी वहाँ से चलकर शमशान में पहुँचा और वहाँ पर सारी सामग्री जुटा ली। अग्नि कुण्ड और शवस्थान आदि का निर्माण अभ्यस्त होने के कारण उसने बात की बात में कर लिया।

इधर योगी के चले जाने के बाद कुमार ने अपनी पत्नी को योगी का सारा हाल बतला दिया। यह सुन

कर वह बोली, “स्वामिन् ! आपने योगी की प्रार्थना स्वीकार क्यों की ? । ये तो हमेशा से कपटी और कुटिल आचरणवाले होते हैं । इनका विश्वास करना आग से खेलना है । अतः मैं आपको वहाँ किसी भी प्रकार जाने नहीं दूंगी ।

वह बोला, “प्रिये ! तुम जानती ही हो, कि शुद्ध-मनवाले का कल्याण ही होता है सम्पत्तियों उनके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती हैं । विघ्न समूह उनके सामने से कपूर की तरह उड़ जाते हैं । अतः तुम घबड़ाओ मत किसी प्रकार की चिन्ता मत करो । मुझे अपना वचन पालन करने दो । अपना नारी धर्म पहिचान कर मेरा साहस बढ़ाओ वचन भंग से संसार में मेरी और तुम्हारी दोनों की हँसी होगी और आजीवन इस कलंक को चन्द्र के कलंक की तरह धारण करना पड़ेगा । धीरज धरो, नमस्कार मंत्र के प्रभाव से तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा । लो मैं तुम्हें फिर से नानरी बना देता हूँ । तुम निर्भय होकर इस पेड़ पर चढ़ जाओ ।”

यह कह कर झुमारने उसी प्राप्त-अंजन के योग से उसे नानरी बना कर वृक्ष पर चढ़ा दिया और स्वयं हाथ में तलवार लिये घूमता हुआ स्मशान में योगी के

जा पहुँचा। योगी पहले से ही तैयार था। आते ही
ने कुमार से रक्त बरने की प्रार्थना की। कुमार-
से निर्भयतापूर्वक कार्य करने को कहा।

योगी विधि-पूर्वक जप और हवन आदि करके
रात्रि के समय कुमार से बोला, “वीर ! सुनो।
दिशा में एक बहुत बड़ा वड़ का वृक्ष है। उस पर
चोर का मृत शरीर लटक रहा है। तुम निर्भयता
हाँ जाकर उस शव को यहाँ ले आओ। देखना !
ने की जरूरत पड़े तो भी तुम मत बोलना।”

योगी की आज्ञा पाकर कुमार शीघ्र ही रात्रि की
न्त को भंग करता हुआ उस बट-वृक्ष के नीचे
पहुँचा। वहाँ पर चोर के शव को लटकता हुआ
कर वह उस पर चढ़ा और चन्द्रहास तलवार से
के बंधन काट डाले। ज्योंही वह उस शव को पृथ्वी-
गिराकर वृक्ष से नीचे उतरा, त्योंही क्या देखता है ?
वह शव पूर्व की तरह फिर से उसी शाखा में लटक
है। यह देख कुमार को न तो कोई आश्चर्य हुआ,
न वह डरा, परन्तु साहस करके वह फिर पेड़ पर
। फिर उसने उसी तरह बंधन काट कर उस शव
अपने कन्धे पर उठाकर वड़ से नीचे उतरा।

कुमार उस शव को कभी कंधे पर और कभी हाथ में उठाता हुआ मार्ग में चलने लगा। इतने में उस शव ने जोर से हँस कर कुमार से कहा, “तुम राजा भी हो और राजकुमार भी हो अतः मुझे कोई का सुनाओ।” लेकिन कुमार ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। तब वह शव फिर बोला, “अगर तुम नहीं कहते हो तो लो मैं ही पद्मावती की लौकिक कथा सुनाता हूँ मगर सुनते समय हुँकारा अवश्य देना पड़ेगा।” यह कह कर शव ने कहना शुरू किया—

क्षितिप्रतिष्ठित नाम के नगर से राजकुमार गुरु-सुन्दर और मन्त्री कुमार सुबुद्धि ये दोनों घोड़े पर बैठ कर बाहर निकले। दैव-योग से मार्ग भूल कर किसी बड़ी भारी अटवी में भटकने लगे। प्यास के मा उनके होंठ सूख कर काले पड़ गये थे, और चेहरे निस्त हो चले थे। अन्त में पानी की खोज करते करते एक सरोवर की तीर पर जा पहुँचे। वहाँ पर वे दोनों एक एक मन्दिर में ठहरे। सुबुद्धि शीघ्र ही तालाब का जल पीकर लौट आया और घोड़ों की रखवाली करने लगा। इसके बाद राजकुमार ने भी बहुत समय की प्यास को शांत किया। बाद में वह सरोवर में जल-क्रीड़ा करता हुआ सामने के तीर पर जा पहुँचा। वहाँ कोई कन्या कम

लिये खेलती हुई बगीचे में से निकल कर आई, और कुमार को देख कर वह अपने कमल, से दंतपंक्ति और कानों को छू कर संकेत करके वापिस प्रसन्नचित्त अपने स्थान को लौट गई ।

कुमार भी उसके संकेत को न समझ कर अपने साथ निराशा लिये पुनः उस तीर पर आ पहुँचा जहाँ पर उसका मित्र उसकी प्रतीक्षा में खड़ा था । उसने अपने मित्र को उस कन्या द्वारा किये गये सारे संकेत कह सुनाये । मित्र बड़ा बुद्धिमान् था । वह बात की बात-में सारी बातें समझ गया । उसने कहा “मित्र ! सुनो ! यह दंतपुर नरेश कर्णदेव महाराज की पद्मावती नामक कन्या है और आपमें अनुरागवती है ।” यह सुन कर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ मित्र सहित उस कन्या के नगर में जा पहुँचा ।

वहाँ पर अपने मित्र के साथ वह एक माली के घर पर ठहरा मंत्रीपुत्र ने सारी बात का पता लगा कर औरमालिन को कुछ लोभ देकर उसे अपना संदेश राजकुमारी तक पहुँचा देने के लिये राजी कर लिया । मालिन उनका संदेश लेकर राजकुमारी के पास पहुँची और मौका पाकर उसने उससे कहा, “राजकुमारी जिस

बोली, "सखियों ! यह बार बार मेरा अपमान करती है इसलिये महल की छत से इसको रस्सी से लटका कर छोड़ दो ।" वस हुक्म की देर थी । सखियों ने फौरन उसको रस्सी से बाँध कर छत से नीचे लटका दिया, और उसे छोड़ दिया ।

बेचारी मालिन ने फिर अपनी दुःख भरी कहानी कुमार से कह सुनाई और कहा कि वस मैं जीवित लौट आई इसी में मैं अपना अहो भाग्य समझती हूँ । मालिन के वचन सुन कर मित्र ने राजकुमार को समझाया कि आप शीघ्रता मत कीजिये, आपके काम में अभी विलम्ब है । लाल कुंकम की चार अंगुलियों के निशान जो इस की गर्दन पर मौजूद हैं वे इस बात के द्योतक हैं कि अभी वह राजकुमारी रजस्वला है, और उसने चार दिन और प्रतीक्षा करने का संकेत किया है । रस्सी का प्रयोग करके तुम्हें भी रस्सी द्वारा ऊपर आने का संकेत किया है । अतः हम नवमी की रात को उसी मार्ग से चलेंगे ।

राजकुमार ने वे चार दिन प्रिया-मिलन की उत्कण्ठा में किसी तरह बिताये । आखिर नवमी आ पहुँची । रात्रि में राजकुमार संकेत स्थान पर जा कर खड़ा होगया । उसको वहाँ वैसी हालत में आया देख राजकुमारी बड़ी प्रसन्न

री बातें कह सुनाई । सुबुद्धि ने उस से कहा कि तुमने
 हाँ पर मेरा नाम फिज़ूल ही लिया । वार्तालाप समाप्त
 होने पर दोनों उठ खड़े हुए । प्रातः काल हुआ ही चाहता
 था, अतः वे दोनों शौचादि से निवृत्त होने के लिये
 चले गये ।

सुबुद्धि मंत्री पुत्र जब शौचादि से निवृत्त हो कर
 आया तो उसने अपने लड्डूओं पर बैठी हुई मक्खियों को
 मारा पाया । उसे यह निश्चित हो गया कि ये लड्डू विषैले
 हैं अतः उसने उनको पृथ्वी में गाड़ दिया । जब राजकुमार
 आया तो उसने उसे इस बात से सूचित कर दिया । यह
 सुन कर वह दंग रह गया । सुबुद्धि ने उसे कहा कि आज
 रात्रि में जब तुम वहां जाओ तब तुम मेरे कथनानुसार कार्य
 करना । उसने मित्र के कथन को बिना किसी बाधा के
 स्वीकार कर लिया ।

दोनों मित्र भोजनादि से निवृत्त हो, सायंकालीन
 कृत्यों में जुट गये । अंधेरा बढने लगा राजकुमार संकेता-
 नुसार राज महल में पहुँच गया । रात के तीन प्रहर आमोद-
 प्रमोद में बीता दिये । राजकुमारी को नींद ने आघेरा ।
 वह सो गई । कुमार ने दोस्त के कहे अनुसार उसकी
 जंघा पर तीन रेखाएँ खींच दी, और उसके पैर का

पायजेव-भांभर निकाल कर चुप चाप अपने उतारे लौट आया ।

कुमार उस भांभर को अपने मित्र सुबुद्धि को दे दिया । वाद में दोनों ने योगी का रूप बना स्मशान में जाकर डेरा डाल दिया । सुबुद्धि गुरु बना राजकुमार शिष्य हुआ । गुरु की आज्ञा से शिष्य जेव लेकर बाजार में बेचने को गया । एक सर्राफ से कि इस के बदले में मुझे धन दे दो ।

इधर राजकुमारी के पायजेव चोरे जाने की सारे शहर में विजली के वेग से फैल चुकी । उस सर्राफ ने उस योगी-वेश-धारी कुमार को पाद समेत राजा के पास पकड़ पहुंचाया । राजा ने नाम देख कर उसे पहचान लिया । राजा का क्रोध उठा । उसने योगी से पूछा, जल्दी बताओ यह तुम्हारे हाथ कैसे लगा ? योगी ने कहा राजन ! विषय में मैं कुछ नहीं जानता हूं । इस बात का केवल मेरे गुरुजी को ही सकता है ।

योगी के ऐसा कहने पर राजा ने सिपाही भेज गुरु को भी सख्ती से बुला लिया । गुरु जी आकर स्थित हुए । उन्होंने ने कहा " महाराज ! जब मैं

रमशान में ध्यान जमाये बैठा था, तभी वहां पर एक प्लेग-की भयंकर देवी आई। मुझे देख वह शहर की तरफ लौटने लगी। मैंने उसके पैर पकड़ लिये। उसे रोकने की कोशीश करते हुए उसके पैर का पायजेव-नूपुर मेरे हाथ आगया। उस की जांघ पर मेरे हाथ से कुछ रेखायें भी पड़ गईं।

इस बात से शंकित-मनवाले राजा ने रानी से अपनी लड़की का परीक्षण कराया। योगी के कहे मुताबिक राजकुमारी की जांघ पर रेखाओं को पाकर, राजा चिंता करने लगा कि अब क्या हो ? उसने योगी से कहा महात्मन् ! आपका कहना सोलहों आने सच है। क्या यह ठीक भी हो सकती है ? योगी ने कहा, जरूर। पर राजकुमारी को मेरे द्वारा अभिमन्त्रित वस्त्र पहिना कर, आंखों पर पट्टी बांध कर हाथ पैर रस्सी से कस कर मन्त्री लोग रथ में बिठा कर नगर के बाहर कुछ दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दें। रथ वाले लोग पीछे घूम-कर न देखें। इस प्रकार आठ प्रहर तक उसे जंगल में पड़ी रहने दें। वह शक्ति-दोष से मुक्त हो जायगी। बाद में आप लोग बड़े भारी उत्सव के साथ अपने राज-महल में उसे वापस ले आना। राजाने योगी के कथना-नुसार उसी हालतमें उसे जंगल में छोड़ दिया।

इधर वे दोनों मित्र भी अपने २ घोड़ों पर सवार होकर वहां जा पहुँचे, और उसके बंधनों को काट, जंगल से अपने नगर की तरफ ले चले। रास्ते में राजकुमारी ने कहा कि—क्या ये सब करतूतें देवर-महोदय की हैं? तब सुबुद्धि ने कहा, नहीं—ये सब करतूतें भाभी-रानी की हैं।

इधर आठ प्रहर का समय बीत जाने पर राजा स्वयं जंगल में गया। वहां उसे राजकुमारी पद्मावती न मिली। इस दुःख से राजा का हृदय फट गया। अब बताओ यह पाप कन्या को, राजकुमार को, या मित्र सुबुद्धि को—इनमें से किस को लगा?

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कुमार ने कहा। मृतक! मेरी सम्झ में तो राजा को ही लगा। कारण, कि उसने इतनी बड़ी कन्या को क्वारी ही क्यों रखी? दूसरे प्रकार से चारों व्यक्ति पाप के भागी हैं। कुमार के ऐसा कहते ही मृतक उसके हाथ से छिटक कर फिर बड में जा टंगा।

इस प्रकार कुमार के भाषण से मुरदे ने तीनवार ऐसा किया। परन्तु कुमार ने भी हिम्मत न हारी और चौथीवार शव को बड़ से उतार ही लाया। मजबूती से

पकड़ कर ज्यों ही वह आगे बढ़ता है, त्यों ही शत्रु ने कहना शुरु किया—

कुमार ! राज-राजेश्वर होकर भी न मालूम क्यों इस योगी के चक्कर में फँस रहे हो ? योगी बड़ा दुष्ट है । कपटी है । तुम से वह अपनी साधना सिद्ध करना चाहता है । मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ कि—कुमार ! अनजान में कहीं धोखा मत खा जाना ।

मुरदे के वचन को सुनकर कुमार विचार में पड़ गया और सोचने लगा कि यह क्या कह रहा है ? इतने में वहाँ एक मध्यम अवस्था वाली स्त्री आई । कुमार ने पूछा तू कौन है ? तो उसने आँखों में आंसू भर कर लम्बी २ सांस लेते हुए कहा—

इस स्थान से दक्षिण की ओर नन्दगांव में मेरा निवास है । यह फांसी में लगा हुआ मेरा पति है । निर्धन होने के कारण यह चोरियाँ करता था । एक दिन पकड़ा गया, राजा ने इसे फांसी की सजा दे दी । लोगों के मुँह से मालूम होने पर पति-मुख-दर्शन के लिये मैं आई हूँ । तुम इसे इस प्रकार पकड़ कर क्या करना चाहते हो ?

योगी ने कुमार से कहा मित्र ! तुम किस विचार में
 डूबे हुए हो । तुम तो इस बात का ध्यान रखो कि
 योगि की साधना सिद्ध हो जाय । इस पर कुमारने कहा—
 जिन के मन वचन और कर्मों में एकता होती है उन्हीं की
 साधना सिद्ध होती है । तुम तन्मय हो कर साधना करते
 जाओ । मैं सावधान हूँ ।

इस के बाद योगी ने उसी विधान को तीसरी बार
 फिर किया । मगर मृतक में नाक की नोक का शल्य है,
 वह वह न जान सका । तब मंत्र का देवता उस मुरदे में
 फिट हो कर क्रोध से फुफकारता हुआ, शल्य को बाहर
 निकाल कर योगी से बोला—

अरे दुष्ट ! तूने मुझे इस शल्य-युक्त-शव में उतारा,
 और इस सीधेसादे कुमार को भी तूने ठगा है । देख !
 साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, अतः जा ! इस की जगह
 जहाँ तू ही बलीका बकरा बन । ऐसा कहते हुए उस शवा-
 ष्ठित-देवने योगी को उठा कर जलते हुए अग्निकुण्ड में
 फेंक दिया । कुमार हा ! हा !! करता ही रह गया ।
 योगी आग में पड़ कर सोने का पुतला बन गया ।

कुमारने अपने साधक की रक्षा न कर सकने से
 शोचता हुआ । बाद आग के शांत हो जाने पर उस

सुवर्ण-पूतले को बाहर निकाला और ज़मीन में गाड़ दिया। सुबह वह अपनी स्त्री से जा मिला। उसे अंजन योग वंदरी से मानुषी बना दिया। फिर रात की सारी घट कह सुनाई।

मदन सुंदरी ने विस्मित होकर पति से पूछा देव इस सुवर्ण-पूतले का क्या प्रभाव है? कुमार ने कहा प्रिये इस की पूजा करके चारों अंग काट लिये जायँ, और रात तक रखने से दूसरे दिन यह फिर तैयार-पूर्णग हो जा है। इस प्रकार जिसके पास यह सुवर्ण पुरुष हो वह धनवान हो जाता है, पर मेरा मन इसमें जरा भी रुचि नहीं रखता—क्यों कि इस के भोग-उपभोग से पहले स्पृष्ट प्राणातिपात विरमण-व्रत का एक तरह से खंडन हो जा है। अतः दयालु पुरुषों के योग्य यह सुवर्ण-पुरुष नहीं है।

परस्पर में बात चीत करते २ प्रसन्न-मन दोनों पति पत्नी आगे बढ़ते गये।

३२

जहां सिंह दहाड़ते हैं। हाथी चिंघाड़ते हैं। रींछ और बंदर किलकारियां मार रहे हैं। वारासिंगे, हिरण, खरगोश सूअर इधर से उधर किलोल करते हुए स्वतंत्रता का आनन्द लूट रहे हैं। ऊबड़ खावड़ जमीन में रास्ते ऊंचे नीचे सांप की तरह निकल रहे हैं। आम नीम जायून बड़ पीपल इमली बांबल सागून पलास महुए आदि के पेड़ अपनी आड़ में छाया में आश्रितों की रक्षा करते हुए परोपकार का पाठ जगत को मूक भाव से पढा रहे हैं। ऐसा विन्ध्याचल का पहाड़ गंभीर योगी के समान समाधि-में लीन हुआ खड़ा है। कहीं-२ उसमें सुधा-मधुर शीतल जल के झरणे भी झर रहे हैं।

सूर्य की बाल किरणें कुमकुम बखेर रही हैं। उस समय विन्ध्याचल की आभा अनन्त गुणी उल्लसित हो

रही थी ऐसे ही प्रसंग में वीर शिरोमणि कुमार श्रीचन्द्र अपनी प्रियतमा मदन सुन्दरी को साथ लिये धीर गंभीर चाल से चलता हुआ उस पहाड़ी भूमी को पार कर रहा था। उस समय वहाँ एक स्तुति पाठक विदेशी कवि मौज में गाता हुआ जा रहा था, वह भी उनके साथ हो लिया, और सब को श्रीचन्द्र की यशो-गाथायें सुनाने लगा !

जयतु कुशस्थल पुर नगर, प्रताप सिंह भूपाल ।
 सूर्यवती सुत जयतु जग, सिरि सिरि चन्द कृपाल ॥
 राधा—वेधी निस्पृही, सुरतरु सम दातार ।
 पर नारी के बन्धुवर, जय सिरिचन्द्र कुमार ॥
 शून्य नगर कुण्डलपुरे, राक्षस मानी द्वार ।
 नया बसाया चन्द्रपुर, जयसिरि चन्द कुमार ॥
 परणी छोड़ी पदमणी, चन्द्रकला वरनार ।
 लक्ष्मीदत्त पालित सुतन, जय सिरिचन्द्र कुमार ॥
 विद्याधर विजयी हुए, जो चोरों का काल ।
 'बुद्धि' सुलोचन वैद्यवर, जय सिरि चन्द दयाल ॥

श्रीचन्द्र ने कहा कविराज ! कहां से आरहे हो ? वन्दी ने कहा देव ! मैं कुण्डल पुर से आया हूं। वीणापुर जाता हूं। कुमार ने उसे भारी पारितोषिक दिया मदन सुंदरी ने कहा आपने अपना चरित्र नहीं सुनाया तो क्या हुआ। आज मैंने तो सुन ही लिया। कुमार ने कहा प्रिये ! तुम

न्त भोली दीखती हो । इस पृथ्वी में श्रीचन्द्र नाम
अनेकों व्यक्ति हैं । जिस किसी की प्रशंसा में मुझे
वह मान लेना ठीक नहीं होता । मदनसुन्दरी ने कहा
भी दीजियें, इन बातों में क्या रक्खा है ? क्या आप
पागल ही समझ रहे हैं ? क्या अब भी आप गुप्त
की ही चेष्टा करते रहेंगे ? अपनी प्रियतमा की तिरछी
बन के साथ कही हुई इस बात का उत्तर कुमार ने
कर ही दिया ।

वीणापुर के मार्ग में जाते हुए एक राजकीय
बेकारी ने कुमार के पास चन्द्रहास खड्ग और चन्द्र-
ली ललना को देख कर ललचाये हुए भावों से कहा कि-
दीजियें तो, देखुं, आप की तलवार कैसी है ? यह
कुमार ने कहा महाशय जी ! आप अपनी तलवार
हाल लें फिर मेरी तलवार का जौहर देखना ।

फुर्तिले और बहादुरी भरे उसके वचन सुन कर वह
भुन गया । वह जा कर अपने साथियों को बहका
या । वे लोग मारो पकडो । बांध लो । अरे तलवार
रस्त्री के चोर ! अब तू भाग कर कहां जायगा ?
तो तू मरा ही समझ ले । इस प्रकार चिल्लपों
गता हुआ उन उद्दण्ड आदमियों का टोला कुमार के
स आ पहुंचा ।

कुमार श्रीचन्द्र पहिले से ही तैयार था वह सिंह तरह गरज कर उन पर टूट पड़ा। कई मारे गये। अधमरे हो गये। कड़ियों के अंग उपांग कट गये। व के बचे हुए भाग खडे हुए। भागते हुए वे लोग क जाते थे वाप रे ! मार दिये। मरवा दिये, इस पापी यह तो कोई विद्याधर है। नाहक इससे हमें भिड़ा दि

राज-कुमारी मदना अपने पति के सिंहनाद तलवार के हाथों को, और विरोधियों की ताड़ाद को कर बहुत खुश हुई। उस में भी वीर-रस भर गया। वीरपत्नी होने का गौरव मालूम हुआ।

उस विरोधी टोले के भाग जाने पर अपनी प्रियतम मदना से प्रसन्नता की बातें करता हुआ कुमार पहाड़ ऊबड़ खाबड़ और टेढ़े मेढ़े मार्गों से कभी धीरे और क तेजी से चलता हुआ सिद्धपुर नगर में जा पहुँचा। व तीर्थभूत एक विशाल श्री जिन मन्दिर के दर्शन किये वहां के प्रभाव से प्रेरित हो दूर दूर से लोग भगवान् आदिदेव के दर्शन के लिए आते थे। वस्त्र अन्नत फल दिकों से अनेक प्रकार की पूजाएँ रचाई जाती थीं। व के निवासी बनिये लोग भगवान् की पूजा में चढाये द्रव्य को आपस में बाँट लेते थे। देव-द्रव्य का उपभोग

करने से वे लोग निर्धन, सन्तति-हीन, निस्तेज दिखाई देते थे। खानदान के खानदान तबाह हो रहे थे। संख्या दिन ब दिन घट रही थी। फिर भी वे अपनी इस आदत से बाज नहीं आ रहे थे।

मदना और कुमार ने बड़े ही भक्तिभाव से जिन-वन्दना और जिन-पूजा की। बाहर निकल कर कुमार ने मदना से कहा—सुनती हो ! यह नगर अपने अन्न जल लेने के योग्य नहीं है, क्यों कि यहां के सब लोग देव-द्रव्य को खाने वाले हैं। यहां किसी का आतिथ्य स्वीकार न करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है।

कुमार ने वहां उपस्थित बूढ़े मनुष्यों से पूछा कि देव-द्रव्य खाने में आपको ग्लानि नहीं होती ? देव-द्रव्य ग्रहण करने की शास्त्रों में आज्ञा नहीं है। कहा है:—

जिणं दन्वं भक्खंतो, अणंतं संसारिओ होइ ।

× × × × ×

भक्खणे देव दन्वस्स, परित्थी-गमणेण य ।

सत्तमं नरयं जंति, सत्तवारा उगोयमा ॥

देवद्रव्येण या वृद्धि-स्तेन द्रव्येण यद्धनम् ।

तद्धनं कुल-नाशाय, मृतोऽपि नरकं व्रजेत् ॥

अर्थात्-देव-द्रव्य को खाने वाला जीव अनन्त-संसार में भटकता है। देव-द्रव्य के खाने से, परस्त्री का गमन करने से, हेगौतम ! सातवार सातवीं नारकी में जीव को जाना पड़ता है। देव-द्रव्य से जो वृद्धि होती है, और उस द्रव्य से जो धन-संख्या होती है, वह धन कुल-नाश के लिये होता है। मर कर के भी देव-द्रव्य खाने वाला मनुष्य नरक में जाने वाला होता है।

इस शास्त्रीय-वचनों से कुमार ने सिद्धपुर-वासियों को देव-द्रव्य छोड़ने का उपदेश दिया। कई आदमियों ने देव-द्रव्य खाना छोड़ दिया। कईयों ने सोचें कुमार को अपना अतिथि बनाना चाहा पर कुमार वहाँ न ठहर कर आगे के लिये प्रस्थान कर गया।

रास्ते के किसी पार्वतीय-गांव में उन दोनों ने शौचादि कार्यों से निवृत्त हो भोजन किया। दूसरे दिन वे वहाँ से चले। चलते चलते किसी बृहड़ जंगल में जा पहुँचे। शाम होने वाली थी। दिनभर चलते २ मदन-सुन्दरी थक गई थी। कुमार ने कहा-इसी वड़ के नीचे रात बिता ली जाय तो ठीक रहेगा। वड़ के नीचे कुमार ने घासफूस का विछौना बनाकर रात बिताने के उद्देश्य से वहीं सोना तय किया। पहले दो पहर तक मदना

सोती रही, कुमार जागता रहा । तीसरे पहर में कुमार सो गया और वह जागती रही । चौथे पहर में वह फिर सो गई । उस समय कुमार जाग रहा था । उत्तर-दिशा-की ओर से कुछ तीव्र प्रकाश दिखाई दिया । क्या यह किसी रत्न का प्रकाश है ? यह क्या है ? चलकर देखना चाहिए कौतुक के मारे कुमार प्रकाश की तरफ तेजी से चला पर वह प्रकाश कभी दूर, कभी निकट होता हुआ कुछ आगे बढ़कर एकाएक गायब हो गया । कुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ किन्तु उसे कोई इन्द्रजाल समझकर उन्हीं पैरों वापस लौट आया । सोयी हुई मदना से कुमार ने कहा—प्रियतमे ! उठो । रात बीत चली है । भगवान् भास्कर उदयाचल के ऊँचे शिखर का स्पर्श कर रहे हैं । एक बार, दो बार, तीन बार आवाज देने पर भी जब कोई उत्तर न मिला तो उसने विशेष प्रयत्न किया, और उसे मालूम हुआ कि वह तो वहाँ है ही नहीं ।

कुमार भौंचका सा रह गया फिर भी न घबड़ाते हुए, उसने बड़ी धीरज से उसे ढूढना शुरू किया मगर मदना के पैरों के निशान तक उसे दिखाई न दिये ।

वह उसके वियोग में दुखी होकर पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा था । अचानक उसे विचार आया

जब मैं उस प्रकाशपुञ्ज का पता लगाने गया था, तब किसी ने पीछे से मेरी मदना का अपहरण किया है। अब अचला मदना मेरे बिना कैसे जीवन धारण कर सकेगी हायरे विधाता ! बेचारी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ है ? अभीर तो उसे विद्याधर के पंजे से बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाया था, इतने में तूने उस पर यह दूसरा दारु वज्रपात कर दिया। सच है, तू क्या नहीं कर सकता ?

यत्कदापि मनसा न चिन्त्यते, यत्स्पृशन्ति न गिरःकवे रपि।

स्वप्नवृत्तिरपि यत्र दुर्लभा, हेलयैव विदधाति तद्विधिः॥

अर्थात्—जिस बात का कभी मन में चिंतन नहीं होता, जिसे कवियों की कल्पना भी छू नहीं पाती, जहाँ स्वप्न की भी पहुँच नहीं होती उस काम को पूर्व-कृत कर्म रूप-विधि बना देती है।

संसार में किसके मनोरथ पूर्ण हुए हैं ?। आदि से अन्त तक कौन सुखी रहा है ? यह भी एक कसौटी है। कसौटी पर कस जाने पर ही सोने की कीमत होती है, वैसे इस प्रकार की घटनाओं के घटने से ही जीवन महान् जीवन बन जाता है, अस्तु, सुभे अपने पथ से विचलित न होते हुए मदना की प्राप्ति का उपाय करना चाहिये। इस प्रकार कुमार आगे बढ़ता हुआ एक कनकपुर नाम के नगर में जा पहुँचा।

इधर कनकपुर-नरेश कनकध्वज दैवयोग से अपुत्र परलोक सिधार गये थे। इसलिये उनके मंत्रिकों ने व दिव्य किये। तीन दिन नगर के बाहिर और भीतर थी, घोड़ा छत्र, चँवर और कलश अधिकारियों के पथ घूमते रहे। कुमार श्रीचन्द्र पर अभिषेक हो गया। त्रियों ने उससे राजकुमारी कनकावली का विवाह करके से राज्य-सिंहासन पर विराजमान कर दिया।

नगर में धूमधाम से सवारी निकली। प्रजाजनों ने मिनन्दन किया। कैदी छोड़े गये। विद्यार्थियों को नाथों को मिठाइयां बांटी गईं। देव-मंदिरों में पूजा-धि संपन्न की गई। राजा श्रीचन्द्र प्रजा का पिता के मान पालन करने लगा।

एक समय राजा से लक्ष्मण मंत्री ने प्रार्थना की कि हाराज ! आपके वंश-परिचय के अभाव में गीतों के ने में बड़ी अड़चन होती है। कुमार ने इस आग्रह का पेष करके गुणों को देखिये, वस इतना ही संकेत किया।

वीणापुर नरेश की कन्या का स्वयंवर होने वाला था। गेग कनकपुर के रास्ते से वीणापुर जा रहे थे। गायना-र्य कलरवजी भी इसी रास्ते से आये थे। उन्होंने कन-पुर में 'श्रीचन्द्र प्रबन्ध' बड़े ठाठ से गाकर लोगों को

सुनाया । लोग सुनकर प्रसन्न हुए बहुतसा इनाम दिए लोगों ने पूछा गायकजी ! क्या आपने श्रीचन्द्र को देखा है ? उनने कहा मैंने तो नहीं मेरे चाचा देखा है, और कुमार से भारी दान भी प्राप्त किया है।

कुशस्थल-पुराधीश—प्रतापसिंह-भूपतेः ।

सती सूर्यवती-सूनुः श्रीचन्द्रो जयताच्चिरम् ॥

श्रीचन्द्र प्रबन्ध को सुनने के कारण से मंत्री अल्लो ग रात्री में दरवार में न जा सके । प्रातः काल समा राजा ने पूछा आप लोग रात में न आये ? उनने कहा देव ! हम 'श्रीचन्द्र' नाम के एक पुण्य पुरुष का चाचा सुनने को रह गये थे । कुमार श्रीचन्द्र मुश्कलाये ।

लक्ष्मण मंत्री ने इस पर निश्चय किया कि ये वे श्रीचन्द्र कुमार हैं । जिनकी यशो-गाथायें हमने सुनी थीं । इस बात का प्रचार हो गया । लोग अतकदीरों की सराहना करने लगे, कि ऐसा पुण्य-पुरुष हमारा राजा बना है ।

एक दिन महाराज श्रीचन्द्र घुड़-दौड़ का आनन्द लेने, सेना के साथ उद्यान में पहुंचे थे । वहां उत्तम जाति के घोड़ों को अलग २ वेश से सजाया जा रहा था । इतने में पश्चिम की तरफ से घुटनों तक धूल से सने हुए

कंधे पर लाठी, और हाथ में जल-पात्र लिये हुए एक पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। राजा श्रीचन्द्र ने अपने सिपाहियों को भेज कर उसे अपने पास बुलाया। पास पहुँचते ही उसने राजा को पहचान लिया। आगन्तुक-की आंखों में हर्ष के आंसू छलछल्ला गये। शरीर पुलकित हो गया।

जय श्रीचन्द्रकुमार जय, जय जय मेरे मीत!

छोड़ गये गुणचंद को, पाये प्रेम-प्रतीत ॥

आ ! हा !! हा !!! प्यारे मित्र गुणचन्द्र ! तुम यहां कैसे आगये ? दोनों अभिन्न-मित्र बड़े प्रेम से एक दूसरे से भेटे। वायु मण्डल में खुशी ही खुशी छा गई। उपस्थित मन्त्रियों, सेनापतियों, एवं पुरवासियों ने नृप-मित्र गुणचन्द्र का बड़े भावभरे शब्दों में स्वागत किया।

राजा श्रीचन्द्र ने बड़े सौहार्द-भाव से कुशल-प्रश्न पूछना प्रारम्भ किया। मित्र ! कुशल तो हो ? तुम अकेले इधर कैसे आये ? कहां कहां होते हुए आ रहे हो ? कुशल कब छोड़ा था ? माता-पिता तो कुशल हैं ? मेरे चले आने के बाद वहां क्या २ घटनायें घटी ? सब बातें सुनाओ—

गुणचन्द्र ने मित्र-दर्शन से गड़गड़ होते हुए कहना शुरु किया—देव ! उस रोज दैनिक कार्यों की अधिकता से मैं आपकी सेवा में न पहुंच सका । आपने विदेश-यात्रा की बात जरूर कही, पर आज ही यह सब हो जायग ऐसा मुझे स्वप्न में भी ख्याल न था ।

महाराजा के आमन्त्रण पर, सेठ साहब के खोज कर ने पर, आपका न मिलना एक अतर्कित घटना के रूप में घट गया । बस, फिर क्या था ? चारों ओर खोज शुरु हुई । आखिर मैं भाभीजी से मिला । उनके उदास चहरे से मेरी उदासी और आशंकाएँ और बढ़ गई । आपकी बात भी याद आ गई । भाभी चन्द्रकलाजी ने कहा कि देवर ! आप को स्वामी इस लिये छोड़ गये हैं, कि आपके बिना माता-पिता को बहुत कष्ट होगा । ऐसा जान कर वे अकेले ही प्रस्थान कर गये । आप इस बात का प्रचार न करें कि कुमार भाभी से कुछ कह कर गये हैं ।

प्रियवर ! इस घटना से एवं आपके वियोग से मेरा हृदय बड़ा ही दुःखी हुआ । मैं ही क्यों ? महाराजा, महारानी, सेठ, सेठानी नागरिक जिसने भी आपके गुम होने की बात को सुना, सभी रोए कलपे, और दुःखी हुए ।

उन्हीं दिनों वहां एक ज्ञानी-गुरुदेव पधारे उन्ने आपके जन्म की बातें कहीं । महारानी सूर्यवतीजी एवं

महाराजा आप के माता पिता हैं, एवं सेठ सेठानी पालक माता-पिता हैं इसका भी स्पष्टीकरण हुआ। उसी रोज सबको जय कुमार आदि की काली करतूतों का पता चला। उन्हीं गुरुदेव ने आपके उज्ज्वल-भविष्य का कथन किया। जिसे सुन कर हम सब आश्चर्य के साथ २ प्रसन्नता का भी अनुभव करने लगे।

गुणचन्द्र आगे कहता चला गया-एक दिन भाभी चन्द्रकलाजी पीहर पधारीं। महेन्द्रपुर के सुन्दर मन्त्री का कुशस्थलपुर में आना हुआ। उनके कहने से आपका पता लगा। कुण्डलपुर के विशारद मन्त्री भी आये। उनसे भी अपने वहां की घटनायें कह सुनाईं। इन लोगों के कथन से महाराजा ने आप की भ्रमण-भूमि को जाना। निर्दिष्ट दिशा की ओर आप को खोजने के लिये सशस्त्र सिपाहियों को भेजा गया। धनंजय को मेरा भार सौंप कर मैं भी कुछ सिपाहियों को लेकर आप को ढूंढने निकल पड़ा। मैं कुण्डलपुर में चन्द्रलेखाजी से और चन्द्रमुखीजी से मिला। वहां से महेन्द्रपुर में सुलोचनाजी से हाल मालूम किये। कान्ती नगरी में प्रियंगुमंजरीजी से मैं सत्कृत हुआ। अपने सिपाहियों को इधर उधर गांवों में भेजता हुआ मैं इधर की ओर आ निकला हूं। मैंने सर्वत्र आपके यश की चर्चा सुनी। अभी २ एक यात्री से मैंने सुना, कि श्रीचन्द्र-कुमार

अद्भुत ढंग से यहां के राजा हुए हैं। मेरी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। मैं सब से आगे बढ़ गया। रास्ते में मेरा घोड़ा मर गया, उसकी परवाह न करते हुए मैं अकेला ही इस रूप में आ रहा हूँ।

आज आप के दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। आज मेरा सारा दुःख सुख रूपमें परिणत हो गया है। कुशस्थलपुर में आप के आने की आशा से गिन गिन कर दिन बिताये जाते हैं। माताजी सूर्यवतीजी ने आप के आगमन तक लड्डू-घी आदि का त्याग कर रखा है। सभी लोग आप के आने की टोह लगाये हुए हैं। आप के वियोग दुःख से ही वे दुखी हैं। अन्यथा स कुशल मंगल है।

उपस्थित मंत्रियों ने, नागरिकों ने गुण चन्द्र के मुँह से ये सारे हाल जान कर भारी खुशी का अनुभव किया। सब लोगों ने गगन भेदी आवाज से जयघोष किया। राजा श्रीचन्द्र सब के साथ वहाँ से चल कर नगर में आये। गुणचन्द्र को प्रधान मन्त्री बनाया। पिछले खिपाही भी धीरे-धीरे सब आ पहुँचे—सर्वत्र प्रसन्नता का वायु—मण्डल छा गया।

इस प्रकार पूर्व जन्म में किये तप के प्रभाव से श्रीचन्द्र कुमार सुखभोग करने लगे। ठीक है, तप ही इस लोक में और पर-लोक में सर्व-सिद्धि का प्रधान कारण होता है।

अद्यापि नोज्झति हरः किल कालकूट-
 मम्भोनिधि वहति दुस्सहवाडवाग्निम् ।
 कूर्मो विभर्ति धरणीं किल पृष्ठभागे,
 द्यङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ॥

अर्थात्—कवि सम्प्रदाय में कहा जाता है कि पिये हुए कालकूट जहर को महादेवजी ने नहीं थूका । दुस्सह वडवाग्नि को समुद्र वहन करता ही है । पृथ्वी को अपनी पीठ पे कछुवेने धार ही रक्खी है । बडे आदमी जो बात अंगीकार कर लेते हैं उसका अन्त तक पालन भी करते हैं ।

राज्य सुख को भोगते हुए भी चरित्र नायक राजा श्रीचन्द्रकुमार मदन मंजरी को नहीं भूला था । अपने मित्र

गुणचन्द्र के साथ सलाह मशिवरा कर के राज्य का भार लक्ष्मण मंत्री को सौंप कर दो बढिया घोडों पर दोनों मित्र मदनमञ्जरी की खोज में एक रोज रातको चुप चाप निकल गये । घोड़े बड़ी तेजी के साथ बढे जा रहे थे । बीहड़ जंगल पार हुआ जाता था । वहां एक वृक्ष के नीचे एक अवधूत को आतिसार की बीमारी से पीड़ित देखा । दोनों मित्र वहीं रुक गये । परोपकार का स्थान जान कर पडोस के गाँव से औषधि लाकर श्रीचन्द्र : उसका इलाज किया । स्नान मालिश आदि से उस अवधूत को कुमार ने सन्तुष्ट किया ।

अवधूत ने प्रसन्न होकर कुमार की प्रशंसा करते हुए अपने पास से—लोहे का सोना बनाने वाला पास—मणि उन्हें प्रदान किया । अवधूत का आयुष्य भी पूर्ण होने ही वाला था । उसकी मृत्यु हो जाने से कुमार ने गाँव वालों को उस स्थान पर एक भारी अवधूत-मन्दिर बनाने का आदेश दिया और उसके योग्य धन भी दे दिया ।

इस प्रकार परोपकार से पुण्य उपार्जन करते हुए दोनों मित्र जंगल में आगे बढ रहे थे । मार्ग में बाँसों की झाड़ी में एक सौ आठ गांठोंवाला बाँस उन्हें दिखाई

दिया। शास्त्र द्वारा बतलाये हुए गुणोंवाले सुपक्व और सीधे उस वांस को उन्होंने चीरा। उसमें से दो मोती निकले। कुमारने मित्र से कहा-दोस्त ! यह बड़ा मोती नर और यह छोटा दांता नारी है।

नर नारी का जोड़ा ही संसार में अग्रगामी होता है। दोनों में एक दूसरे की रक्षा का भार बंटा हुआ है। अपन भी आज उसी कर्तव्य-भार से प्रेरित हुए आगे बढ़ रहे हैं। मदन मंजरी की अवस्था याद करता हूँ दिल बेचैन हो जाता है। उसे दूँढ कर ही दम में दम लूँगा यही मेरी प्रतिज्ञा है, क्यों ठीक है न ? गुणचन्द्र ने कुमार की कर्तव्य-परायणता सराहते हुए कहा अवश्य अवश्य।

इस प्रकार विनोद पूर्ण बातें करते हुए कुमार श्रीपर्वत नाम के एक उंचे और मनोरम पहाड़की तलहट्टी में जा पहुँचे। अचानक उन्हें कोई स्त्री के करुण आक्रंदन की आवाज सुनाई दी। कुमार मित्र के साथ उसी ओर चले। वह शब्द उंचे से आ रहा था, कुमार भी उंचे चढे। वहाँ उनने एक भीलनी को रोते देखी। बहिन ! क्यों रो रही हो ? तब भीलनी ने कहा-इस पहाड़ का नाम श्रीगिरि है। यहाँ से थोड़ी ही दूर चीणापुर नाम का एक

नगर है। वहां पद्मनाभ नाम का राजा राज्य करता है। एक दिन राजा के यहां कोई सुवर्ण-घट की चोरी हो गई चोर के खोज यहां तक आये। सिपाहियों ने हम को यहां देख कर मेरे पति को पकड़ लिया। जब पद-चिह्न मिलाये गये तो उनमें बहुत अन्तर रहा, फिर भी मेरे पति को ही चोर मान कर राजा तंग किया करता है राजा का कहना है। कि तू सोनेका घडा ला नहीं तो तुम्हे फांसी लगादी जायगी। मालिक ! हम गरीब सोने का घडा कहां से लावें ?। मेरे पति को मारा जाता है, इस दुःख से मैं आज यहां रो रही हूँ। कुमार ने उस के पास पडे लोहे के घड़े को पारस मणि से छुआ दिया, वह सोने का हो गया। भीलनी को कहा कि ले लेजा, अपने पति को छुडा लेना। भीलनी खुश हो कर उन्हें आशीर्वाद देने लगी। मालिक ! भगवान् आपका भला करें। कुमार ने वहां जलाशय में स्नान और जल पान किया। भीलनी सुवर्ण कलश को लेकर चली गई।

इधर कुमार अपने मित्र के साथ आगे बढ़ते हुए वीणापुर जा पहुँचे। नगर के हाट-बाजार भव्य-प्रासाद जिनालय आदि से परिष्कृत राज मार्गों को देखते हुए एक सुन्दर चबूतरे पर थकावट मिटाने के लिये बैठ गये।

पाठकों को याद होगा कुशस्थलपुर में पहिले श्रीचन्द्र कुमार को देख कर भगवान के मंदिर में एक सारिका—मैना ने दूसरे जन्म में यह कुमार मेरा पति हो, कह कर अनशन कर लिया था। उस मैना का जीव मर कर वीणापुर के राजा पद्मनाभ की कन्या पद्मश्री नाम से हुई थी—वह अपनी अभिन्न-हृदया सखी मंत्री-पुत्री कमलश्री के साथ उद्यान-क्रीडा से निवृत्त होकर अपने महल की तरफ आ रही थी। उसने गुणचन्द्र के साथ कुमार श्रीचन्द्र को देखा।

विमलं कलुषीभवच्च चेतः ;

कथयति पुरुषं हितैषिणं रिपुं वा ।

हमारे सामने वाला आदमी हितैषी है, या दुश्मन का पता निर्मल और मलिन होता हुआ हमारा मन दे देता है। श्रीचन्द्र के दर्शन मात्र से पद्मश्री का दय पद्म खिल उठा। उसने कुमार के पाण्डित्य को खने के लिये अपने महल में पहुंच कर चन्दन से भर कर एक सुवर्ण का कटोरा अपनी दासी के साथ कुमार के पास भेजा। कुमार ने अपनी कनिष्ठिका उंगली की अंगुठी उतार कर चंदन में डाल कर उसे वापस कर दिया। दूसरी बार कुमारी ने बिखरे हुए फूल एक रकेयी में सजा कर

भेजे । कुमार ने उनकी बढिया माला गूँथ कर वापस कर दी ।

गुणचन्द्र यह सारी लीला देखता ही रह गया । उसने कुमार से पूछा मित्र ! ये क्या बातें हुई ? । कुमार ने कहा सुनो—कुमारी ने हमें यह सूचित किया कि—यह नगर पहिले से ही श्रेष्ठ पुरुषों से भरा हुआ है फिर आप यहाँ कैसे समा सकोगे ? मैंने समझा दिया कि अंगुठी में रत्न के जैसे हमें भी यहाँ स्थान मिल ही जायगा । फूल भेजने का मतलब यह था कि—फूलों की तरह हम अकेली हैं । उसका उत्तर मैंने दिया माला की तरह तुम भी सगुण और वाञ्छित पुरुष वाली हो जाओगी ।

इधर राज-कुमारी ने अपने भावों को जानने वाले सुन्दर स्वरूप वाले पूर्व जन्म से अभिलषित कुमार श्रीचन्द्र को मन ही मन वरण कर लिया । मंत्री पुत्री ने गुणचन्द्र को अपना स्वामी बना लिया । दोनों कन्याओं ने अपने घरवालों से अपने भाव सूचित कर दिये ।

उधर उस भीलनी ने वीणापुर के राजा को सुवर्ण-घट देकर—अपने पति को छुड़ा लिया । भीलने पूछा यह सुवर्ण-घट तुम्हें कैसे मिला तो उसने सारा हाल कह सुनाया । भील अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिये कुमार

को पदानुसरण करते हुए नगर के चवूतरे तक जा पहुँचा। कुमार से बड़ी अनुनय विनय करके अपने घर ले गया और उन दोनों को पके हुए बड़े बड़े आमके फल अर्पण किये।

कुमार श्रीचन्द्र ने पूछा-इन दिनों में-असमय में ऐसे आम कैसे और कहां से मिले ? भीलने कहा मेरे राजा ! इस पहाड़ के पांच शिखर हैं। उनमें ईशान शिखर सबसे ऊँचा है। वहां विजयादेवी का मंदिर है। उसके बगीचे में देवी के प्रभाव से सदा फल देने वाला आम का पेड़ है। मैं वहीं से इन फलों को हमेशा लाता हूँ।

मालिक ! पहाड़ में पहुँचने का केवल एक ही मार्ग है। सिवाय मेरे इस पहाड़ में जाने में कोई दूसरा समर्थ भी नहीं है। पुरखाओं से यही क्रम चला आया है। यह कितना कोश है ? इसका उतार चढाव कहां कितना है ? इसमें कहां-२ गुफायें आदि देखने योग्य हैं ? मैं यह सब जनता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आइयें आपको भी इस पहाड़ पर घुमा लाऊँ।

मित्र के साथ कुमार श्रीचन्द्र भील के निवेदन करने पर उस पहाड़ पर गये। गुफायें, घाटियें, झरणे, शिखर, पेड़, लताएँ आदि अनेक दर्शनीय वस्तुओं को देखते

हुए विजया-देवी के मंदिर के पास जा पहुँचे । पहिले उनने थकावट उतारने को तालाव के स्वच्छ जल में स्नान किया । जल-विहार से थकान को मिटाकर । देवी के दर्शन किये । सदाफल नाम के उपवन में से भील ने समित्र कुमार के खाने के लिये अमृत के समान मीठे आम, अनार, केले, दाख, सेव, संतरे लाकर उपस्थित किये । मुखवास के लिये इलायची, लौंग, सुपारी जायफल, जावँत्री आदि लाया । शृंगार के लिये कमल चंपा, केवड़ा, चमेली, गुलाब, जुई, साटा, मोगरा आदि के फूलों का टोकरा भर कर सामने रखा । कुछ फूलों के हार-गजरे बने और कुछ योंही सूँघने को रखे गये ।

भील की सहायता से भलीभांति पहाड़ का परिभ्रमण करके कुमार ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि-अबसर आने पर अधिष्ठात्री देवी के आदेश से यहां एक नगर बसाउंगा । जिन-भवन का भी निर्माण कराउंगा ।

बाद में भील को समयोचित हितोपदेश देकर कुमार अपने मित्र के साथ आगे के लिये अपने घोड़ों पर खाने हो गये । दोनों सवार कष्टों की परवाह न करते हुए अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाये जा रहे थे । उनके आँसुओं के शरीर पसीने से तर हो गये थे । आखिर जान

ही तो ठहरे । बेचारे घोड़े थक कर चूर चूर हो गये ।
 ग्रह से भाग निकलने लगे । घोड़े अपने आखिरी अक्षांश
 पर दौड़ रहे थे । यह देख उन दोनों ने लगाम ढीली
 छोड़ दी । घोड़े ठहर गये । वे दोनों उतर पड़े । पीठ
 सहलाते हुए पास ही के तालाब के तीर पर सघन पेड़
 की छाया में विश्राम के लिये डेरा डाल दिया ।

घोड़ों की जीन उतार दी गई । घोड़ों ने भी हिन हिनाते
 हुए अपनी थकावट को दूर की । कुमार ने पसीना सूखा
 कर निर्मल शीतल जल का पान किया । बाद पेड़ की
 छाया में कोमल वास के विछोने पर लेट गये । उन्हें
 नींद आ गई—

नींद में कुमार ने एक स्वप्न देखा कि—मेरु पर्वत
 पर कल्प वृक्ष की छाया में कोई अद्भुत स्त्री, मानो कोई
 कुल देवी, लक्ष्मी या सरस्वती हो बैठी हुई थी । उसने
 मुझे अपनी गोदी में उठा लिया । कुमार ने मित्र से कहा
 सखे ! इस दिव्य स्वप्न का सुन्दर फल आज हमें जरूर
 मिलेगा ।

इतने में जंगल में से व्यथित हरिणी की तरह चकित
 नेत्रों वाली दिव्य अलंकारों से देदीप्यमान लाल-वस्त्रों-
 को धारण की हुई गर्भवती कोई सधवा स्त्री आती हुई

श्रीचन्द्र को दिखाई दी। वह हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ उसके सामने गया, और-मातृ भाव से उसके चरणों भुक्त गया। कुमार ने कहा माँ! आप इस प्रकार अकेले इस वन में कहां से आ रही हैं? उस आगंतुक संभ्रान्त महिला की दृष्टि कुमार की अंगुठी पर लिखे-‘श्रीचन्द्र कुमार’-इस नाम की ओर गई तो उसने कुमार को पहचान लिया, उसके स्तनों से दूध की धारा छूट गई।

बड़ी प्रसन्नता से उस देवी ने पूछा-बेटा! सेठलक्ष्मी दत्त के घर में प्रसिद्ध श्रीचन्द्र तुम्हीं तो हो न? चक्रि होकर कुमार ने उत्तर दिया जी हां-यह सुनते ही उसने श्रीचन्द्र को अपनी गोद में बिठा कर हर्ष के आंसुओं से नहलाती हुई कहने लगी।

ए मेरे आंखों के तारे! हिरदेके हार! ए मेरे लाडले बेटे! चन्द्रकुमार! आज मेरा जन्म सफल हुआ। मैं रानी सूर्यवती तेरी मां हूँ। तू मेरा बेटा है। पूर्व कर्मों की महिमा से तेरा मेरा बारह वर्षी त्रियोग हो गया था। बेटा! ज्ञानी गुरु के वचनो से आशा ही आशा मैंने ये दुःख के वर्ष बीताये हैं। आज तेरा मिलना हुआ है। यों अपने बेटे का लाड प्यार करती हुई उसने पुत्रवती होने का सच्चा सुख उसी रोज अनुभव किया।

श्रीचन्द्र कुमार ने भी, विस्मित और प्रसन्न होते हुए पूछा माताजी आप का अंगज पुत्र होते हुए भी मैं सेठ के घर कैसे गया ? और आप यहां कैसे पधारीं ? इन दो बातों का स्पष्टीकरण कीजिये । बेटा ! जब तू गर्भ में था, तब तेरे पिता कुशस्थलाधीश युद्ध में पधारे थे । तेरे सौतेले भाई जयकुमार-आदि ने किसी निमित्त जानने वाले से जाना, कि राज्य-का उत्तराधिकारी तू होगा, तो तुझे मारने के लिये उनने ठान ली । मुझे मेरी सखियों से पता लग गया । गुप्त रीति से तेरा जन्म होते ही फूलों की टोकरी में मालिन के द्वारा तुझे मैंने वगीचे में पहुंचा दिया । सेठ लक्ष्मीदत्त ने देवी के संकेत से फूलों के ढेर से तुझे अपने घर ले जाकर अपना पुत्र प्रसिद्ध किया । चन्द्र पान के दोहद से हमने तेरे लिये श्रीचन्द्र कुमार नाम तजवीज कर के यह अंगुठी बनवाई थी देख ! यह तेरी उंगली में लगी हुई है ।

लक्ष्मीदत्त के लेजाने के बाद हमारी सखियों ने तुझे ढूंढा वहां तेरा पता ही न लगा । मेरे दुःखों का पार नहीं था । उस दुःख में कुल देवी ने मुझे स्वप्न में कहा कि किसी धनवान के घर तुम्हारा लालन पालन हो रहा है । वहीं वह सुरक्षित रह सकेगा । तू चिंता मत देवी के कथन से मुझे कुछ शांति हुई ।

बेटा ! इसी प्रकार एक ज्ञानी गुरु के मुँह से भी मालूम हुआ कि तेरा मेरा मिलाप बारह वर्ष में होगा धीरज से मैंने उस अत्यधिक कष्टमय समय को पार कि दैव योग से आज तेरा मेरा मिलना हो गया ।

दूसरी बात—मेरा यहां कैसे आना हुआ ? उसे मैं सुन ले । गर्भवती होने के नाते मुझे लाल रंग के पान में स्नान करने की उत्कट इच्छा हुई । महाराजा ने उसका प्रबन्ध कर दिया । अपने बाग की एक सुन्दर बावड़ी में गहरे लाल रंग से पानी को भी खून के समान लाल-सूख बना दिया गया मैंने उसमें दिलखोल कर खूब क्रीडा की । जब मैं बाहर निकली तब मैं खून से तरबतर मांस पिण्ड के समान दिखाई दे रही थी । इतने में किसी भारण्ड पक्षी-की दृष्टि मुझ पर पड़ी उसने मुझे मांस-पिण्ड के भ्रम-से पंजों में और चोंच में पकड़ एकदम झपट से उठा कर आकाश में उड़ा ली ।

उड़ते २ उसने मुझे जीन्दी जानकर कोई पूर्व पुण्य से यहां लाकर इस वनमें छोड़ दी—नमो आरिंहताण—के ध्यान से मैं जीन्दा बची हूँ । रात तो मैंने पास की एक गुफा में बीताई और प्रातः काल होते ही वहां से निकल कर घूमती हुई इधर आई हूँ । यहां आज तुम्हें

पाकर मेरा सारा दुःख सुख रूप में परिणत हो गया है । मेरे लाल ! आज मेरी तपस्यायें, कठोर अभिग्रह, -भगवान का ध्यान, -गुरुदेवों की कृपा सब फलीभूत हुए हैं । गूंगे के गुड की तरह मैं आज के अपने इस आनन्द का वर्णन नहीं कर सकती । पुत्र ! तुझे पाकर आज मैं यक्षी-प्रदत्त कष्ट को भी भूल चुकी हूँ । पर बेटा ! एक नयी चिंता मुझे आतंकित कर रही है, वह यह कि-मेरे अचानक इस प्रकार गायब हो जाने से तेरे पिता को कितना असह्य-दुःख होता होगा ?

इस प्रकार मां के स्नेह भरे बचनों को सुन कर कुमार कहने लगा—मां ! आज आप के दर्शनों से मैं धन्य और कृतपुण्य हूँ । आज बिना बादलों की वृष्टि हुई है, जो मैंने आज अपनी माता को पाया है । जननि ! संसार में आप से बढ कर कोई वस्तु मुझे नजर नहीं आती । बड़ेर राज्य, सुन्दर पत्नियाँ, गुणवान्-मित्र, सर्वत्र विजय, अखूट वैभव, और भोग विलास की अपूर्व सामग्रियाँ ये सब आप की ही कृपा का फल मानता हूँ । माँ ! पिता से आपको दशगुणा गौरव प्राप्त है । हजार शिक्षक बालक जो शिक्षा नहीं दे सकते उसको गुणवती माता एक इशारे में दे सकती हैं । मैं कहां तक वर्णन करूँ आपकी महिमा अनन्त है ।

कुमार के चुप हो जाने पर गुणचन्द्र ने मां सूर्यवती को कुमार का सारा चरित्र कह सुनाया। अपने लाडले बेटे की उदारता दयालुता शूरता और विस्मयता भरे चरित्र को सुन कर महारानी बहुत प्रसन्न हुई।



३४

पूरब पुण्य प्रभावतें जंगल मंगल होय ।

पुण्य करो संसार में पुण्य कियां सुख होय ॥

पुण्यवान् पुरुष जहां जाते हैं, वहीं उन के लिये आनन्द मंगल होने लगते हैं । समुद्र उनके लिये क्रीडा सरोवर, सिंह उनके लिये सवारी, सांप उन के लिये फूलों की माला और विपत्तियाँ उनके लिये संपत्तियाँ बन जाती हैं जिन ने जीवन में धर्म की आराधना से पुण्य संचय किया हुआ होता है ।

चरितनायक श्रीचन्द्र उन्ही पुण्यवान् पुरुषों में एक अनुपम पुण्य-पुरुष हैं । संपत्तियाँ उन्हें खोजती फिरती थीं । जंगल में अचानक माता का मिलाप होने

के साथ ही वीणापुर नरेश के सिपाही कुमार के पद चिह्नों की खोज करते हुए वहां आ पहुँचे ।

सिपाहियों के साथ मंत्री बुद्धिसागर ने कुमार से प्रार्थना की—राजन् ! वीणापुर की राजकुमारी पद्मश्री आप में और मेरी पुत्री आप के इन प्रधानजी में अनुराग रखने वाली हो गई हैं । हमारे राजा ने आप की खोज में मुझे भेजा है । सुनिये ! नंदीपुर के स्वामी हरिषेण की पुत्री तारलोचना के भेजे हुए शुक युगल को देख कर पिता का गोद में बैठी पद्मश्री मूर्छित हो गई । सावधान होने पर उसने कहा पिताजी ! मैं पूर्व जन्म में कुशस्थल की महारानी सूर्यवती के पास कर्कोटजा सारिका थी । भगवान् श्री आदिनाथ के मन्दिर में श्री चन्द्रकुमार को पति रूप में पाने की इच्छा से अनशन कर यहां पैदा हुई हूँ । यह मैंने उन्हीं कुमार को देखकर निश्चय किया है, कि मैं इस भव में मैं उन्हीं को पति बनाउंगी ।

इसी लिये राजाजी ने आपको खोजने के लिये भेजा है । सौभाग्य से आप यहां मिल गये हैं । राजन् कृपा करके निज-चरण धूली से हमारे नगर को पवित्री कीजिये इतनमें वीणापुर नरेश अपनी पुत्री के साथ वहां आ पहुँचे । बड़े अग्रह समारोह के साथ कुमार को वीणापुर में प्रवेश कराया ।

माता की आज्ञा से पद्म श्री और नंदीपुर की राजकुमारी तारलोचना के साथ कुमार श्रीचन्द्र ने ब्याह कर लिया। गुणचन्द्र का विवाह कमल श्री के साथ होगया।

विवाह विधि सम्पन्न हो जाने पर कुमार ने उस बुद्धि सागर मन्त्री को अपने पिता महाराजा प्रतापसिंह के पास अपनी माता रानी सूर्यवती की कुशल-सुचना देने-के लिये सांढणी-सवारों के साथ भेजा, और कहा कि—कनकपुर में लक्ष्मण मंत्री को भी इस बात की सूचना दे दें।

श्रीगिरि पहाड़ के उस भील ने राजा श्री चन्द्र को एक सोने की खान दिखलाई। प्रसन्नता से इसने वहाँ श्रीचन्द्र नगर बसाया। उस नगरके चारों ओर मजबूत किला बनवाया। बड़ी २ सड़कें, चौराहे, बाजार, मठ, मन्दिर, और हाट-हवेलियों से सम्पन्न उसे बनाया। बाग बगीचों कुओं और तालावों से उसे सुसज्जित किया।

श्री गिरि के मध्य भाग में श्री चन्द्र ने चार दरवाजों-वाला विशाल उन्नत सुवर्ण शिखरों से विराजित एक श्री जिन मन्दिर बनवाया। उसमें श्री चन्द्रप्रभ स्वामी की प्रतिष्ठा करवाई। आस पास के भयंकर जङ्गल को साफ

करवा कर नये नगर और पुरे बसाये । दान पुण्यों से, उत्सवों से, धर्मशाला, मन्दिर, विद्यालय, ज्ञान भण्डार, छात्रावास, अन्नक्षेत्र, औषधालय, उद्योग मन्दिर आदि नये निर्माणों से दुनिया में त्याग का एक आदर्श पैदा किया । सारा संसार उस परोपकारी धर्मात्मा-राजा श्री चन्द्र के गुणों को गाने लगा ।

कल्याणपुर से आये किसी यात्री ने एक रोज राजा श्री चन्द्र से कहा कि कनकपुर में आजकल बड़ी गडबड़ी चल रही है । वहां का राजा तो न जाने अपने राज्य भार को मंत्री लक्ष्मण के कंधे पर डालकर कहीं चला गया है । लक्ष्मण पर गुणविभ्रम आदि छह राजाओं ने मिलकर चढ़ाई कर दी है । मंत्री लक्ष्मण यथाशक्ति अपनी फौज के साथ विरोधियों से टक्कर ले जरूर रहा है पर-घण जीते रे लक्ष्मणा-वाली कहावत चरितार्थ हो जाय ऐसी सम्भावना है ।

यह बात सुन कर राजा श्रीचन्द्र का मुह मारे क्रोध के तम तमा उठा । उनकी भुजायें फड़कने लगीं । उन्होंने होठ काटते हुए मंत्री गुणचन्द्र से कहा तुम अभी पद्मनाभ आदि राजाओं को सेना सहित साथ लेकर जाओ और शत्रुओं को अपनी करणी का फल चखा दो ।

आज्ञा की ही देर थी । रण भेरी बज उठी । शंख-
 ध्वनि से दिशायें गूँजा उठी । रण बंके सैनिकों के अस्त्रशस्त्र
 सूर्य प्रकाश में झिलमिला उठे । पृथ्वी कांप उठी । घोड़ों-
 की टापों से उठती हुई धूल हाथियों के मद से शांत हुई ।
 महाराज श्रीचन्द्र की जय के नारों से आकाश का पर्दा
 फटने लगा । राजा श्रीचन्द्र भी अपने तेजस्वी घोड़े पर
 सवार हो कर प्रयाणोन्मुख सेना के सामने आकर खड़े
 हो गये । सैनिकों ने फौजी ढंग से अपने महाराजा का
 आभिवादन किया । आज्ञा पाकर सेना ने आगे को कूच
 किया । महाराजा तीन पडाव तक साथ गये । गुणचन्द्र
 को अपना चन्द्रहाम खड्ग दे कर श्रीगिरि की ओर
 वापस लौटे ।

रास्ते में एक विशाल बट-बृक्ष की छाया में विश्राम
 के लिये सो गये पर किसी अतर्कित कारण से कुमार श्री
 चन्द्र को नींद नहीं आ रही थी । इतने में वहाँ कुछ
 जोगणियां उस बट पर बैठ कर कहने लगी—कुशस्थलपुर
 का राजा राणी के वियोग में जल मरेगा, चलो ! देखने
 के लिये इसी बट पर बैठ कर उड़ चले—

कुमार ने भी फुर्ति से बट की खोखल में अपना
 आसन जमा लिया । बड़ उड़ा । कुशस्थलपुर के बाहिर

वह जमीन पर उतरा । अदृश्य रूप से जोगणियां और कुमार नगर की तरफ चले । रास्ते में मानवोंका समुद्र उमड़ता हुआ देखकर कुमार ने अवधूत का वेश बनाया और उस टोले में जा पहुँचा । वहां मंत्री आदि समझा रहे हैं पर महाराजा प्रतापसिंह अपनी गोत्र देवी के सामने धधकती आगमें—अपने आपको भोंकने की तैयारी कर रहे हैं ।

उस समय बड़ी तेजी से ठहरो ! ठहरो !! करताहुआ अवधूत वहां पहुँच गया । कहने लगा महाराज ! आप अधीर न होइयें । महारानी पुत्र सहित सुरक्षित स्थान में विराजमान हैं थोड़े ही दिनों में आप से मिल जायेंगी । उनके कुशल—समाचार तो आपको आठ ही दिनों में प्राप्त हो जायेंगे । आप आठ दिन ओर प्रतीक्षा करें ।

मंत्रियों ने और नागरीकों ने भी यही राय दे कर के जोर दे दिया । राजा जलने से रुक गये । वापस नगर में पधारे ! अवधूत को भी साथ ले लिया । योग की चर्चा होने लगी अवधूत ने अपने ज्ञान का खजाना खोल दिया । वह कहने लगा—महाराज !

योगश्चित्तवृत्ति—निरोध

चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है । मूर्च्छित अवस्था में भी चित्तवृत्तियां रुक जाती हैं पर उसे योग

नहीं कहा जा सकता । इसीलिये कुछ ज्ञानी आचार्य उपरोक्त योग के लक्षण में—क्लिष्ट—पद को और जोड़ने की सिफारिश करते हैं । अर्थात्—

योगः क्लिष्ट-चित्तवृत्ति-निरोधः

खराब चित्त वृत्तियों को रोकने का नाम योग है ।

देखिये गुदा के मूल में चार पांखुड़ियों वाला एक आधार चक्र है । लिंग के मूल में षट्कोण आकार का स्वाधिष्ठान चक्र है । नाभि में दश पांखुड़ियों वाला मणि पूरक चक्र है । हृदय में बारह पांखुड़ियों का अनाहत चक्र है । कण्ठ और ग्रीव में—सोलह पांखुड़ियों का विशुद्ध चक्र है । ललाट में बारह अक्षरों का आज्ञा चक्र है ।

महाराज के साथ राज-योग हठ-योग ध्यान धारणा समाधि आदि योगांगों पर चर्चा करते हुए अवधूत ने अपने ज्ञानी होने की छाप बड़े सुन्दर ढंग से जमा दी । इसीलिये कहा है—ज्ञानं सर्वत्रंगं चक्षुः ।

एक रोज जयकुमार आदि राजकुमार आपस में एक पड्यंत्र कर रहे थे, कुमार ने अदृश्य रूप से सुन लिया । वे कहते थे—विमाता सूर्यवती के मोह में महाराज

तो राज अपना होता । पर उस अवधूत ने बचालिया
अब न जाने क्या हो ? महाराज के रहते अपने राजा नहीं
बन सकते अतः लाख के घर में धोखे से महाराज को
और इस शैतान के बच्चे अवधूत को जला देना चाहिये ।
सब ने ठीक है, करके दिन निर्धारित किया ।

इधर श्रीचन्द्र ने बड़ी तेजी से लाख के घर के नीचे
सुरंग तैयार करवादी और खुद महाराजा की रक्षा में
सावधान हो गया । पांचवें दिन जय आदि राजकुमारों ने
महाराजा से अनुरोध किया कि पधारियें कैसी अद्भुत
कारीगरी हुई है । महाराजा गये गुप्त दरवाजे बंद किये
गये । आग की लपटें निकलने लगी । महाराज ने कहा
यह क्या ? अवधूत ने कहा राज्य लोभी कुमारों की यह
काली करतूत है, जो आपका प्राण लेना चाहते हैं । महा-
राजा किंकर्तव्य मूढ हो गये । अवधूत सावधान था ही-
सुरंग द्वार खोलकर महाराज को निकाल लिये । वे अपने
महल के ऊपरी भाग में चले गये । इधर जयकुमार ने
भाइयों के साथ राजसभा में प्रवेश करके सर्वत्र कब्जा
करलिया, और खुद राजा की जगह आ बैठा शहर में
सन्नाटा छा गया । मंत्री हतबुद्धि हो गये । चारों ओर
हाहाकार मच गया ।

महाराजा प्रतापसिंह ने अवधूत की सलाह से अपने अंग रक्षक सैनिकों को बुलाया । सैनिक महाराज को जीवित देख बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने महाराज की आज्ञा से जय आदि राजकुमारों को गिरफ्तार कर लिया । महाराजा राजसभा में आये । अधिकारीगण विस्मित और हर्षित हुए । महाराजा ने अवधूत से कहा—आपने मेरे प्राण बचाकर के आभारित किया है । मेरा आधा राज्य ग्रहण करके मुझे उन्नत बनाइयें । पर वह लेने को तैयार नहीं होता । ठीक ही कहा है किसी ने—

मंगतों की मंगतों से सगाई
वे मांगते हैं वे देते ही नहीं ।
बड़ों की बड़ों से सगाई
वे देते हैं वे लेते ही नहीं ॥

इधर सातवें दिन सांठनियों की सेना के साथ मंत्री बुद्धिसागर कुशस्थलपुर में आ पहुंचे । महाराज की आज्ञा से उनका राजसभा में प्रवेश हुआ । स्वागत सत्कार के बाद मंत्री बुद्धिसागर ने साथ लाये हुए पत्र महाराजा के सामने पेश किये और कहा कि—महाराज ! मैं आपके पुत्र राजा श्रीचन्द्र का मंत्री हूँ । वीणापुर से आया हूँ । वहां महारानी सूर्यवती जी अपने पुत्र के साथ सकुशल हैं ।

प्रधान मंत्री गुणचंद्र भी वहीं हैं। उन्हीं के कनकपुर राज के मंत्री लक्ष्मण से मिलकर आ रहा हूँ। अभी वह युद्ध चल रहा है। इसके बाद उसने राजा श्रीचंद्र और मंत्री गुणचंद्र के विवाह आदि का भी जिक्र किया।

महाराजा ने सेठ आदि के पत्रों को अलग अलग देकर अपना पत्र पढ़ना शुरू किया। पुत्र की पत्र-लेखन की चतुराई व युक्तियों से वे बहुत प्रसन्न हुए। कवि हरिभट्ट ने श्रीचंद्र की जीवन घटनाओं को गा गाकर सुनाया। महाराजा ने भी अपने पुत्र और पत्नी के समाचार पाकर भारी प्रसन्नता का अनुभव किया। नगर में कई महोत्सव हुए। गुप्त वेश में वहीं बैठा हुआ कुमार श्रीचंद्र बहुत प्रसन्न हुआ। धनंजय को कुमार का संदेश था कि चंद्रकला को अपने पीहर से लिवा कर श्रीगिरि पहुँचा देना। ऐसी आज्ञा को पाकर धनंजय शीघ्र ही वहाँ से चला और रानी चंद्रकला को उनके पीहर से श्री पर्वत पर पहुँचाने गया।

इस प्रकार कुशस्थलपुर में सर्वत्र खुशी का साम्राज्य छा गया।

वसन्त का समय था। आमों पर मँजरियाँ आ रही थीं। उनके रसास्वाद से उन्मत्त होकर कोकिलाएँ पंचम स्वर में आलाप कर रहीं थीं। पतझड़ की समाप्ति से पेड़ों की डालियाँ में नई नई कोंपलें अपने रंग विरंगी गुच्छों के साथ बनश्री की शोभा को अनंत रूप से प्रदर्शित कर रही थी। प्राणी मात्र के जीवन में नई उमंगे, नई नई आशाओं के साथ तरंगित हो रहीं थी। ऐसे ही समय में कुशस्थलपुर के राजा का जयकलश नाम का मुख्य हाथी किसी कारण से मदोन्मत्त हो गया। वह अपने बंधनों को तोड़कर और महावत को मारकर शहर में पील पड़ा। उसने नगर में छकड़ों और घोडा-गाड़ियों को उलट दिया। दुकानें उजाड़ दी। सामने आने वालों को कुचल

दिया । सर्वत्र शहर में खलवली मच गई । लोगों की चीख पुकार सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ और अपने सिपाहियों को हुक्म कर दिया—जाओ, दौड़ो । जैसे बने हाथी को वश में करलो । पकड़ लो ।

सिपाही दौड़े । उनको देख हाथी विशेष कुपित हुआ । सारे नगर को उसने तहस नहस कर दिया । सबको कुचलता हुआ वह राजद्वार की ओर आ धमका । सबको अपने जीवन की लगी थी । हाथी के मुकाबले में कोई नहीं आ रहा था । ऐसी अवस्था में अवधूत वेश धारी श्री चंद्र कुमार हाथी के पास गया । सब लोग चिल्लाने लगे । राजा ने भी मना किया । कुमार ने एक की भी न सुनी । उस मदमस्त गजराज के पास जाकर, अपने वस्त्र से उसे अधिक कुपित किया । बाद में हाथियों की शिक्षा में निपुण उस अवधूत वेशधारी श्रीचन्द्र ने हाथी को अपने वश में कर लिया । सब के देखते २ बड़े मजे से वह उसके कंधे पर जा बैठा । हाथी ने उसे अपनी पीठ से गिराने की बहुत कोशिश की मगर वह अपने स्थान पर डटा ही रहा हाथी उसे बल पूर्वक जंगल में ले भागा । तीन दिन के बाद वह मद रहित होकर शांत हो गया । किसी पहाड़ की तराई में आये हुए तालाब में जल पीने की इच्छा से कुमार नीचे उतरा । तालाब में नहा थोकर,

प्यास बुझाकर उसने अपने असली वेश को धारण किया। अनन्तर प्यार से पुचकारते हुए, कुमार उसके पैरों के सहारे उसकी पीठ पर जा बैठा।

महाराजा प्रतापसिंह अपनी सेनाको लेकर हाथी के पीछे गये सारी रात श्री चंद्र को सब ओर ढूँढा पर वह उन्हें कहीं मिला ही नहीं। आगे पहाड़ी प्रदेश में उसके खोज भी न मिले। महाराज को अपने सर्वश्रेष्ठ हाथी के चले जाने का उतना कष्ट नहीं हुआ, जितना अवधूत वेशधारी कुमार के चले जाने का हुआ वे कहने लगे—
अरे ! मुझे प्राण दान देने वाला वह जानी कितना सच्चा और उपकारी था। मैं तो उसका कोई बदला नहीं चुका सका ! महाराज उसके गुण स्मरण करते हुए कुशस्थल में लौट आये।

इधर उस गजराज की पीठ पर चढा हुआ। कुमार श्रीचन्द्र आनन्द से वन-विहार कर रहा था। पास की पहाड़ी पर भीलों की एक पल्ली थी। पल्लीपति ने उस को देखतेही पकडने की इच्छा से भील सेना के साथ आकर उसे घेर लिया। जोर से धमकाते हुए वह कहने लगा अरे तू कौन है ? कहां जायगा ? यहां क्यों आया है ? साथ ही भीलोंने बाण बरसाना शुरु कर दिया।

कुमार अपने को बाणों से बचाता हुआ, हाथी द्वारा उखाड़ कर दी हुई वृक्ष शाखाओं और पत्थरों से उन भीलों को मार भगाया।

भीलों को भगा कर तेजस्वी कुमार श्रीचन्द्र एक सवन पेड़ की छाया में विश्राम करने लगा। वहां कहीं से वन विहार करती हुई भील कुमारीकाएं आ पहुँची। भील राज की कन्या मोहिनी कुमार को देखते ही मोहित हो गई। उसने अपने बाप से जाकर कहा कि—पिताजी! मैं तो उस हाथीवाले बहादुर पति को ही स्वीकार करती हूँ। किसी दूसरे का पाने की इच्छा अब है ही नहीं।

मिल्लराज अपनी इकलौती बेटी की इच्छा का ख्याल करके विनीत वेश में कुमार के पास पहुँचा। कइने लगा महापुरुष! आप महान् हैं। हमारे अपराधों के लिये क्षमा करें। इस मेरी पुत्री को स्वीकार कर मुझे आभारी करें। कुमार ने कहा—जब तक आप का डाकुओं का व्यवहार बना रहेगा तब तक मैं आपसे अपना संबंध जोड़न ठीक नहीं समझता। नीति दुष्कुल से भी स्त्री रत्न को स्वीकारने की प्रेरणा करती है पर मेरे सम्बन्धी हो कर आप डाकू बने रहें यह मेरी शान के खिलाफ बात मानता हूँ। अतः मैं आपकी प्रार्थना मंजूर नहीं कर सकता।

भीलराज ने कहा कुमार ! परिस्थितियां ही मनुष्य को डाकू बना देती हैं । डाकू बन जाने पर भी क्या हमारे पास दिल नहीं होता ? मैं खुद इस धंधे से नफरत करता हूँ, पर क्या करूँ लाचार हूँ । पारस को छू कर तोहा जैसे सोना बन जाता है वैसे आप के प्रसंग से मेरा यह पाप भी छुट जायगा ऐसी मेरी दृढ धारणा है । आप मेरी प्रार्थना को न टुकरायें ।

भावी लाभ को जानकर कुमार ने कहा कि यदि आज से आप दस्यु-वृत्ति का त्याग करते हैं, तो आपकी कन्या-से विवाह करने में मुझे भी एतराज नहीं है । पल्ली-पति बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने भीलों के साथ डकेती, चोरी, आदि के धंधे का सर्वथा त्याग कर दिया । बड़ी धूम-धाम से कुमार के साथ मोहिनी का विवाह हो गया । दहेज में हाथी, घोड़े, रथ दास दासी मणि-रत्न आदि अपूर्व वस्तुएं भीलराजा ने कुमार श्रीचंद्र को दीं । उस-में अपना सुवेग रथ और उन दिव्य घोड़ों को देख कर कुमारने पूछा ये आपके हाथ कैसे लगे ? भीलराज ने कहा गायक वीणारव हमारे धावे में इन घोड़ों समेत इस रथ को छोड़ भागा था । तभी से यह हमारे कब्जे में है, जब से ये घोड़े आये हैं तब से बहुत दुखी हैं । रातदिन इन की आँखों से आंसू बहते हैं । देखो न ?

इन की आँखें कैसी हो रही हैं । कुमार ! बेटी मोहिनी को दहेज में देने के लिये ही यह मेरा संग्रह है ।

भील्लराज के साथ कुमार घोड़ों के पास गया । घोड़े मारे हर्ष के हिनहिना ने लगे अपने सच्चे स्वा को पहचान कर उनकी कली २ खिल उठी पल्लिपति ने कुमार से पूछा कुमार ! इनकी इतनी प्रसन्नता क्या कारण है ? कुमार ने कहा—भील्लराज ! यह सुवे रथ और ये वायुवेग और महावेग नाम के घोड़े मेरे हैं हैं, मैंने ही जयकुमार के षड्यन्त्र से अनजान वीणारव की याचना पर इन्हें दे दिया था । आज ये मुझे पहचान कर खुशी जाहिर कर रहे हैं । ऐसा कह कर कुमार श्री चन्द्र ने प्यार से पुचकारते हुए घोड़ों की पीठ पर हाथ फेरा और उन्हें थपथपाया घोड़ों ने नया जीवन पाया । भील्लराज भी खुश हो गया ।

कुमार ने कहा पल्लिपति ! आपका यह साा दहेज और मेरा यह हाथी अब आप ही संभालें । अभी तो मैं सीर्फ इस रथ को ही लेता हूँ । उनने भील्लराज के सिपाहियों में से कुंजर नाम के एक क्षत्रिय कुमार को अपना सारथी चुना । अपनी नाम मुद्रिका दिखाते हुए अपना संक्षिप्त परिचय भी दे दिया । यह श्रीचन्द्र कुमार है ऐसा जानकर भील्लराज बड़ा ही खुश हो गया ।

कुमार ने पल्लिपति और भीलों को लज्ज करके कहना शुरू किया—आप लोग ? कमसे कम आठम चौदश अमावस्या और पूर्णिमा इन चारों पर्वों में हिंसा आदि कतई न करें । पर्व तिथि में आनेवाले भय का आयुष्य पडता है । शास्त्रों में कहा भी है—

अट्टमी चरदसी पुणिण्णमाय, तह मावासा हवह पव्वं ।

मासम्मि पव्व-छक्कं, तिन्निय पव्वाइं पक्खम्मि ॥

चतुर्दश्यष्टमी चैवा-मावास्या चैव पूर्णिमा ।

पर्वाण्येतानि राजेन्द्र ! रवि संक्रान्ति रेवच ॥

तैल-स्त्री-मांस भोगी स्यात् पर्वस्वेतेषु यः पुमान् ।

विण्मुत्र-भोजनं नाम-प्रयाति नरकं मृतः ॥

अर्थात्-आठम चौदस अमावास्या पूर्णिमा दूज पंचमी और एकादशी महीने में ये छह और पक्ष में तीन बड़े पर्व होते हैं । विष्णु पुराण में कहा है कि-उपर बताये दिन और रवि संक्रान्ति का दिन ये पर्व माने जाते हैं । इन पर्वों में तैल स्त्री और मांस का भोग करने वाले टट्टी-पिसाव का भोजन करते हुए मर कर के नरक में जाते हैं ।

जीव की रक्षा करने में ही हमारी रक्षा है, हमारी भलाई है । सभी जीवित रहना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । सभी शास्त्रों का एक ही उपदेश है

किसी जीव को मत सताओ । अगर सताओगे तो सता जाओगे । कोई अपना सताया जाना पसंद नहीं करता तो दूसरों को भी नहीं सताना चाहिये । अभयदान सदानों से श्रेष्ठ-दान है । अहिंसा, इंद्रिय-दमन-क्षमा सचाई, ज्ञान, ध्यान और तप ये आठ बातें असली पुण्य हैं । इन्हीं से देवता भी प्रसन्न होते हैं ।

महानुभावों ! अभक्ष्य भक्षण करने से भी बड़ भारी पाप होता है । मांस और शराब दोनों ही जीवों को गिरानेवाले हैं । शराबियों को कोई हिताहित का ज्ञान नहीं रहता । उनमें पवित्रता तो नाम मात्र की भी नहीं होती । उन की स्त्रियां बाल-बच्चे दुखी होते हैं । शराबी बेहोश होकर गिरता है तब उसके मुह में कुत्ते मूत जाते हैं । बड़ी बेइज्जती होती है । शराब से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ।

मज्जे महुम्मि मंसंमि-नवणीयम्मि चउत्थए ।

उपपज्जंति असंखाय-तव्वएणा तत्थ जंतुणो ॥

शराब में, शहद में, मांस में, और यकखन, ये असंख्याते तस-चलते फिरते जीव उसी वर्ण के पैदा होते हैं । अतः दयालू पुरुषों को विवेक से काम करना चाहिये ।

अस्तं गते दिवानाथे आपोरुधिर मुच्यते ।

अन्नं मांस-समं प्रोक्तं मार्कण्डेय महर्षिणा ॥

सूर्य-अस्त हो जाने पर पाणी पीना एक प्रकार से खून पीने जैसा होता है, और अन्न खाना मांस खाने जैसा ऐसा मार्कण्ड महर्षि ने बताया है ।

आप लोगों से मेरा अंतिम कहना यही है, कि अगर आप लोग अपना भला चाहते हैं, तो चोरी, डकैती, जीव-हिंसा, मांस-भक्षण, मद्य-पान आदि का सर्वथा त्याग कर देना । अभी तो मुझे जाना है, वापस आउंगा तब सारी दहेज-सामग्री को और आपकी कन्या-को मैं ले जाउंगा ।

कुमार की हित की बातें सुन कर सभी लोग बड़े खुश हुए, और उस रोज से चोरी डकैती के नियम लेकर अपने आप को दुर्गति से बचाया, और धर्म के अधिकारी हो गये । कुमार श्री चन्द्र मदनसुन्दरी की खोज में एक दिन वहां से अपने सुवैद्य रथ में निकल गये ।

कल कल करती गिरि-नदी बह रही थी । नारों में लोग हवा खोरी का मजा लूट रहे थे । धोबी कपडे धोने में और दूसरे लोग नहाने धोने में लगे हुए-गंगा

गोदावरी नर्मदा आदि का नाम लेकर अपनी ठंडी भगा रहे थे । हमारा चरित नायक कुमार श्रीचन्द्र उस भील-पल्ली से पार होता हुआ नदी के किनारे हवा के साथ बातें करता हुआ शाम होते २ कुण्डिन पुर जा पहुंचा ।

नगर के बाहरी उपवन में विश्राम के लिये डेरा डाल दिया । पड़ोस में ही एक यज्ञ का मंदिर था । उस में सोने की व्यवस्था की गई । कुमार प्रसन्नता से सो रहा था । कुछ समय के बाद कोई राजकुमारी सरस्वती अपनी सहेली सुनामिका और सुरुपिणी को साथ लिये विवाह की सामग्री लेकर वहां आ पहुंची । उन्होंने अवाज लगा कर कहा कि-मंत्रीपुत्र श्रीदत्त ! उठो व्याह के लिये तैयार हो जाओ । वहां मंत्रीपुत्र तो कोई था नहीं । श्रीचन्द्र ही था वह उठ बैठा और बिना चूंचपट किये चुपचाप व्याह कर लिया । विवाह करके कुमार जब सोने लगा तो उन कन्याओं ने कहा स्वामिन् ! बाहर सांढनी खड़ी है, चलियें यहां से कहीं अन्यत्र चलें । इस पर कुमार ने कहा अभी रात्री है । मैं चल नहीं सकता, न मुझे सांढनी पर बैठने का ही अभ्यास है । चुपचाप सो जाओ गड़बड़ मत करो ।

उन कन्याओं ने आश्चर्य के साथ देखा कि अरे !
 इतनी ही अजनबी आदमी से हमारा ब्याह हो गया ।
 हमारा पूर्व संकेतित मन्त्रि-पुत्र श्रीदत्त का तो यहां पता भी
 नहीं । उन्होंने पूछा अजी ! आप कौन हैं ? तब कुमार-
 ने कहा मैं कुशस्थल से आया हूँ, तुम कौन हो ? तुम
 यहां से अन्यत्र क्यों चलना चाहती हो ? कुमार के ऐसा
 ख़ुने पर उनमें से एकने कहा—

हे आर्य ! इस नगर के स्वामी राजा अरिमर्दन की
 ये राजकुमारी हैं । ये सदा यज्ञ की पूजा करती हैं एक
 समय गोद में बैठी हुई राजकुमारी को देख राजाने अपने
 मंत्रियों से पूछा कि बताओ ! इसके योग्य-वर कौन हो
 सकता है ? इसी प्रसंग में किसी वंदिने कहा—

कुशस्थल नरेश महाराज प्रतापसिंह के कुमार श्रीचंद्र
 जो परिस्थिति के वश एक सेठ के वर बड़े हुए हैं, वे बड़े
 त्यागी और अति-योग्य हैं, । पर वे अभी अपने पालक
 पिता सेठ लक्ष्मीदत्तसे नाराज हो कर विदेश-यात्रा कर
 रहे हैं । अगर वे राज कुमारी के पति हों तो सोने में
 सुगंध हो जाय । यह सुन राजा तो चुप हो गये । पर
 राजकन्या सरस्वतीजी इसी उधेड़ बुन में अपने इष्ट यज्ञ
 की मनौती करने लगीं । एक समय रात्री में यज्ञ ने, कहा,

राजकुमारी ! आज से पांचवें दिन मैं अपने मन्दिर में रात्री के समय लग्न बेलामें तुम्हारे पति को ले आउंगा।

सुबह होने पर अपने स्वप्न को राजकुमारी ने बड़ी प्रसन्नता से हमें कह सुनाया। स्वप्न की बात जान कर हमने जो कुछ किया इसको भी आप सुनियें—

इसी नगरी में श्रीदत्त नाम का एक मंत्री पुत्र रहता है। उसने राजकुमारी के रूप-गुणों से अकृष्ट होकर इनकी प्राप्ति के लिये कई उपाय किये। किन्तु राजकुमारी तनिक भी उसे नहीं चाहती थी। उसने मुझे लोभ दे दिया, मैं उसके फंदे में फंस गई। मैंने राजकुमारी का स्वप्न उससे कह दिया। उसने मुझे बताया कि तुम जाकर राजकुमारी को यह कह दो कि मंत्री कुमार श्रीदत्त को भी ऐसा ही स्वप्न आया है। मैंने वैसा ही किया और राजकुमारी को जाकर झूठमूठ ही निवेदन किया कि आज रात्रि में श्रीदत्त ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा है।

राजकुमारी ने कहा, यदि ऐसा है तो यत्न के बचन मुझे मान्य हैं। यह कह कर राजकुमारी चुप हो गई और उसने सखियों को सारी विवाह-सामग्री तैयार करने की आज्ञा दे दी। मैंने मंत्री-पुत्र से भी सारा कार्यक्रम

सूचित कर दिया । पर न जाने वह क्यों नहीं आया । देवताओं के वचन भी तो महिमावाले होते हैं न ?

अब राजकुमारी कहने लगी देव ! मैं भी तो देव द्वारा ठगी गई हूँ । मेरे भाग्य से ही यक्ष-द्वारा आप मुझे मिले हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम दोनों का यहां अधिक ठहरना खतरनाक होगा । न जाने पिताजी क्या कर बैठें ?

श्रीचन्द्र ने कहा प्रिये घबड़ाओ नहीं । वे भी मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य ही हूँ । देखलुंगा वे कितने पानी-में हैं । रात तो राजकुमारी की दुविधा में ही बीती । प्रातः काल में जब स्पष्ट रूप से कुमार के दर्शन हुए तब वह बड़ी ही प्रसन्न हुई ।

यक्ष-मंदिर के पुजारी ने राजा से सारी घटना कह सुनाई । उसने क्रोधावेश में अपने सेनापति और सिपाहियों-को भेज दिये । कुमारी थर थर कांपने लगी । कुमार ने कहा-प्रिये ! डरो मत । ये त्रेचारे अभी भागते हैं । कुमार ने एक सिंह-गर्जना की, गीदड़ के समान सारे सिपाही भाग खड़े हुए । राजा को पता चला, तब वह अधिक क्रोध में आकर पूरी ताकत के साथ आया । कुमार ने सखियों सहित पत्नी को अंगुठी की नाम मुद्रा दिखा

दी। उनके कान में कुछ कह कर-सार वस्तुएँ एक गठरी में बांध कर अंजन-योग से उसे बंदरिया बना दी। सामने आनेवाले सिपाहियों को दायें बायें हाथ के धक्के से गिरा कर राजा के हाथी पर शेर के जैसे दहाड़ता हुआ चढ़ गया, और राजा की तलवार छिन कर उसे बांध वहीं छोड़ दिया।

इतने में किसी बंदि ने कुमार को पहचान कर ये गाथाएँ गईं—

कुण्डल पुरस्स रज्जं, चंदमुही राय कन्न-परिणयणं ।

जक्ख विहिणा उ विहिणं, चंदउरं वासिय जेण ॥

सो कुण्डल पुर सामी, सिरिचंदो जयउ पयावसिह कुलचंदो ।

संफुसइ जस्स तइया, जक्खो भत्तीइ पायतले ॥

अर्थात्—कुण्डलपुर के राज्य को और विवाह के द्वारा चन्द्रमुखी नाम की राज-कन्या को पानेवाले, यज्ञके आदेश से नया चन्द्रपुर बसानेवाले, यज्ञ द्वारा अपने पै-सबलाने वाले कुण्डलपुर के स्वामी और महाराजा प्रताप-सिंह के कुल में चन्द्रमा के जैसे कुमार श्रीचन्द्र की जयही।

इन गाथाओं को सुनकर श्रीचन्द्रराज ने उस चारण को पर्याप्त धन देकर संतुष्ट किया। बाद में वनमें जाकर अपने रथ पर सवार हो कुमार वहां से नौ दौ ग्यारह हो गये।

इधर मंत्रियों ने मिलकर राजा अरिमर्दन के बंधन काटे, और मन्दिर के चबूतरे पर उन्हें ला विठाया ! श्रीचन्द्र से वाञ्छित धन को पानेवाला वह चारण भी वहां आ पहुँचा । उसने राजा से श्रीचन्द्र की महती महिमा श्रीचन्द्र-प्रबंध के रूप में गा सुनाई । भट्ट द्वारा मुझे बांधने-वाला पुरुष श्रीचन्द्रराज ही था यह जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने अपने सिपाहियों को श्रीचन्द्र राज को लेने के लिये भेजे पर उसे वे न पा सके, और योंही निराश होकर वापस लौट आये ।

राजा-मन्दिर में अपनी कन्या सरस्वती के पास गया, वहां वह वंदरी के रूप में आंसू भरे खड़ी थी । उसे देख कर राजा बड़े ही दुखी हुए । जब सखियों ने सारा रहस्य समझाया तो उन्हें कुछ धीरज हुआ, और वे कुमार की कला को सराहने लगे । अपनी पुत्री से उनने कहा-बेटा ! महाराजाधिराज प्रतापसिंह के परम प्रतापी पुत्र श्रीचन्द्र ने तुझे ब्याहा है । तू बड़ी भाग्य-शालिनी है । मैं तुझे हाथी घोड़े आदि हहेज की उच्चम सामग्री के साथ कुशस्थलपुर पहुँचाऊंगा । तू जरा भी चिंता मत कर । राजाने उस भट्ट को खूब दान दिया । एवं अपनी उस वानरी कुमारी सरस्वती को अपने महल में ले गया । सारे शहर में प्रसन्नता छा गई ।

३६

पुण्यवान जहाँ पद धरे-प्रकटे नवे निधान ।
सुख दुख इस संसार में-पुण्य पाप फल जान ॥

वीर पुरुष जब तक अपने आश्रित को सुखी नहीं बना लेते, वहां तक वे खुद सुख से नहीं बैठते हैं। यही हालत चरितनायक कुमार श्रीचन्द्रराज की थी। मदनमंजरी कहां गई ? वह सुखी है या दुःखी ? इन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक उनके लिए कहीं शांति से बैठ जाना असंभव था। राजा अरिमर्दन को छोड़कर वे मदनमंजरी की खोजमें पहाड़ों में, बौद्ध-बनों में नगरों में घूमते ही जाते थे।

शुभ-शुक्रनों द्वारा प्रेरित हुए वे एक रोज एक बगीचे में रात्री बिताने के खयाल से टिके हुए थे। इसी बीच

में उन्हें थोड़ी दूर से बड़ी ही मधुर मुरज-ध्वनि सुनाई दी। अपने सारथि कुंजर को सावधान करके वे उस ध्वनि को लक्ष्य करके चले। एक छोटी सी पहाड़ी पर किसी यक्ष के मंदिर में द्वार बंद करके कुछ स्त्रियां श्रीचन्द्र के गीत गा रही थीं। उनकी उत्कण्ठा और भी बढ़ गई। किंवाड़ के छेद से अंदर की गति विधि को देखा तो वहां आठ सुंदर कन्याओं के साथ मदन मंजरी नाच गान कर रही थी। उसे देख कुमार को भारी प्रसन्नता हुई। गुप्त रूप से सारे कार्य कलाप को देखना, उनने तय किया सारी रात भर उन कुमारियों-को मदन सुंदरी ने श्री चन्द्र-प्रबंध को नाच-गान के साथ समझाया।

रात बीत गई। मदन सुंदरी उन कुमारियों के साथ यक्ष-मंदिर से निकल पड़ीं। यह देखकर कुमार का हृदय खुशी के मारे उछल पड़ा। वे एकदम मन ही मन में बोल उठे “ओहो! आज मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है, कि मेरी स्त्री मुझे मिल गई।”

कौतुक देखने के इच्छुक कुमार अब भी प्रकट होना नहीं चाहते थे। अतः वे उस गुटिका के योग से अदृश्य रूप से उनके पीछे पीछे हो लिये। तब वे एक पहाड़

की गुफा में घुसीं और एक बारी में से होकर पाताल नगर में जा पहुँची सारा नगर मणि-प्रदीपों की कान्ति-से जगमगा रहा था मदन अपनी सहेलियों समेत अपने महल में चली गई, और वहां पर रत्न-जटित पलंग पर बैठ कर अपनी मुख्य सखी से बोली, "सखि ! आज मेरा बाँया नेत्र बार बार फड़क रहा है इससे मैं यह मानती हूँ, कि या तो मेरे पति स्वयं ही आज यहाँ आजायँगे या उनका संदेश मुझे जरूर मिल जायगा ।

यह सुन रत्नचूला ने कहा, "सखि ! मेरी भी आज ऐसी ही मान्यता है कारण कि जिस दिन से तुम यह आई हो, उसी दिन से आंखिल और उपवास आदि से खूब तपस्या कर रही हो अतः वह तपस्या के प्रभाव से यहाँ तुम्हें जरूर मिलेंगे ।

इसी वार्तालाप के बीच में किसी दासी ने आज रत्नचूला से कहा कि चलिये आपकी माता जी भोजन के लिये बुला रही हैं । यह सुन मदना ने उन सब से कहा कि वहनों ! तुम भाग जाओ, और भोजन करो । भूख न होने के कारण आज मैं भोजन नहीं करूँगी । परन्तु मैं सब वहाँ से टस से मस न हुई, और बोली, "वहनों ! हम तुम्हारे बिना अकेली भोजन नहीं करेंगी । "इत

वाद विवाद में काफी देर हो जाने के कारण माता जी स्वयं उन्हें बुलाने के लिये वहां आ पहुँची । उसने मदना से कहा कि मदने ! आज तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो ? यह सुन मदना ने उत्तर दिया “माताजी ! आज न मालुम मुझे क्या हो गया है, कि मेरी तन्वियत किसी भी काम में नहीं लगती ।

विद्याधरी ने कहा, “पुत्री ! तनिक भी विचलित मत हो । जो तुम्हारा पति है उसी को मेरी इन पुत्रियों ने भी अपना पति स्वीकार किया है । धीरज धरो बेटी ! निमित्तिक का वचन कभी झुंठा नहीं हो सकता । मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ । मेरे दुःख अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं । मेरे स्थान आदि भी मेरे हाथों से निकल चुके हैं, और मेरा पति भी वन में मृत्यु को प्राप्त हो चुका है । मेरा देवर अपने पुत्र समेत सुमेरु पहाड़ पर बहुत पहले से ही जा बैठा है । कुशस्थल को भेजे हुए दूत भी अभी तक कोई खबर लेकर वापिस नहीं लौटे हैं । पुत्रि ! क्या करूं मैं सब ओर से निराधार हूँ । तुम स्वयं बुद्धिमती हो सभी बातों को जानती हो । अतः जानते हुए इस प्रकार हठ करना तुम्हें शोभा नहीं देता उठो । भोजन करो । हमारे इस कार्य में तुम अंतराय मत बनो ।” इतना समझाने पर भी जब मदना भोजन

करने के लिये तैयार नहीं हुई तब वह विद्याधरी उसे अपनी छाती से लगा कर उसके दुःख से दुःखी हो फूट फूट कर रोने लगी ।

कुमार अदृश्य रूप से वहां खड़ा ये सारी घटनाएँ देख रहा था । विद्याधरी की बातें सुनकर उसको ध्यान हो आया कि वन में मुझ से जो विद्याधर मारा गया था यह उसी की पत्नी है । मुझ में अत्यन्त स्नेहवती है । इसके दिल में मेरे लिए लेशमात्र भी वैर प्रतीत नहीं होता है । ऐसा विचार कर कुमार उस नगर द्वार पर प्रकट होकर बैठ गये । उन ने द्वारपाल से कहा कि अन्दर जाकर सूचित करो कि कोई व्यक्ति आप लोगों से मिलना चाहता है । द्वारपाल ने भीतर जाकर सूचना दी, और सूचना पाकर मणिवेगा वहां पर आ उपस्थित हुई । उसने रूप रंग और आकार से सुन्दर उस पुरुष से पूछा, “आप कौन हैं और आप कहां से आये हैं ?”

श्रीचन्द्र जवाब देने ही वाला था कि इतने में मदन सुन्दरी भी सखियां समेत वहाँ आ पहुँची । वहाँ अपने पति को देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई । मारे प्रसन्नता के उसके रोमांच हो आये और कंठ गदगद होगया । आँसों में हर्ष के आँसू छल छला आये । रुँधे हुए स्वर से

उसने विद्याधरी से कहा, माताजी ! आज आपके द्वार पर खड़े हैं ।”

इस शुभ समाचार को सुनते ही विद्याधरी दौड़ी आई और कुमार को महल में ले जा कर उसका गुण-गान करने लगी महाराज--प्रतापसिंह के सुपुत्र श्रीचन्द्र ! आप हम लोगों के अहो--भाग्य से ही यहां आये हैं । यह आपकी प्यारी मदना रातदिन आपके वियोग में रोती हुई आपके मिलन की आशा का आधार पाकर ही आज तक जीवित बची है । आपके प्रेम और गुणों को स्मरण करके आपके विछोह में इस बाला ने अपने नेत्रों को सावन-भादों के बादल ही बना डाले हैं । आप दोनों का पारस्परिक प्रेम अत्यन्त सराहनीय है ।

इधर उस विद्याधरी के आदेश से वे आठों कन्याएँ हाथों में वरमालाएँ लेकर कुमार के गले में पहनाने के लिये वहाँ आ उपस्थित हुईं । यह देख कुमार श्रीचन्द्र ने उस विद्याधरी से कहा, आपकी “ऐसी स्थिति क्यों है ? और ये कुमारिकाएँ कौन हैं” ?

कुमार के प्रश्न का उत्तर देती हुई विद्याधरी ने कहना शुरू किया, वीरों के मुकुटमणि कुमार ! सुनो । मैं आपको अपना सारा वृत्तान्त सुनाती हूँ ।

इसी वैताल्य नामक पहाड़ पर मणिभूषण नामका नगर है। वहाँ पर पहले रत्नचूड़ नामके राजा राज्य करते थे। उनके छोटे भाई मणिचूड़ वहाँ के युवराज पद को सुशोभित करते थे। रत्नवेगा और महावेगा हम दोनों उनकी स्त्रियाँ हैं। ये रत्नचूला, मणिचूला आदि उनकी पुत्रियाँ हैं। रत्नकांता आदि ये चार उनकी भानजियाँ हैं, रत्नचूड़ और मणिचूड़ इन दोनों को अपने गोत्री विद्याधरों के साथ आकाश में घूमते हुए उत्तर-श्रेणी के स्वामी सुग्रीव विद्याधर ने जीत लिया। वे दोनों अपने समस्त धनमाला व परिवार समेत उस नगर को छोड़कर यहाँ चले आये, और यहाँ पाताल नगर बसा कर रहने लगे।

एक समय पुनः राज्य प्राप्ति के लिये मेरे पति रत्नचूड़ विद्याधर चन्द्रहास तलवार को पाकर उसकी प्रयोग-सिद्धि के लिये वन में गये वहाँ पर विधि के अनुसार नीचा मुंह किये उस विद्या को ज्योंही साधने लगे त्योंही किसी ने उन्हें मार दिया।

जब प्रातःकाल हम पूजा की सामग्री लेकर वहाँ पहुँची तो वे मरे पाये। उसी जगह उनकी प्रेत-क्रिया करके हम अपने स्थान पर लौट आईं।

एक समय रत्नचूड़ का पुत्र और रत्नचूड़ा का भाई रत्नध्वज पिता की मृत्यु से दुःखी हो कर इधर उधर भटकता हुआ एक बड़ी भारी अटवी को प्राप्त हुआ वन में किसी स्थान में प्रकाश का भ्रम पैदा कर, इस मदनसुन्दरी को अपने पति से पृथक् करके यहाँ ले आया। इस के शील के प्रभाव से एवं हमारी धाक से वह इस के साथ कोई अत्याचार नहीं कर सका। उस दिन से मैंने इस सदाचारणी सुशीला मदना को अपनी धर्म-पुत्री बनाकर रक्खा है। यह इन सभी कन्याओं को अपने पति के गुणों और चरित्र का ज्ञान कराती है। मदना द्वारा कहे हुए आपके गुणों को व परोपकार युक्त कार्यों को सुन कर ये आप की हो चुकी हैं, और साथ में मदना को भी ये कह चुकी हैं, कि जो आपके पति हैं वे हमारे भी पति होंगे।

एक समय मणिचूड़ ने किसी नैमित्तिक से पूछा कि भाई ! कृपा कर यह तो बताओ कि हमारा खोया हुआ राज्य कब मिलेगा ? उसने उत्तर देते हुए कहा, "महाभाग ! तुम्हारी आठों कन्याओं द्वारा वरण किया हुआ वर ही तुम्हारे खोये हुए राज्य को जीत कर लौटा लावेगा। ऐसे महापुरुष का संयोग अप्रतिचक्रा विद्या की साधना से ही हो सकेगा। उसके कथनानुसार मणिचूड़ और रत्नध्वज दोनों छः महिने में सिद्ध होने वाली उस



साथ मेरा जो सम्बन्ध हुआ है, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ" ।

विद्याधरियों ने कहा कुण्डलपुर-नरेश ! हम अनुनय विनय कर के आपको रोक कर आप के कार्य में कोई बाधा पैदा करना नहीं चाहती हैं । केवल एक ही प्रार्थना है, कि इन कन्याओं का पाणि-ग्रहण करके इन को साथ ले पधारें । ताकि मदन सुन्दरी के साथ इन का जो प्रेम है उसमें वियोग का कष्ट इन्हें न हो ।

श्रीचन्द्र ने उत्तर दिया माताजी ! आप क्यों इतना विचार करती हैं ? विवाह तो जब चाहेंगे तभी हो जायगा । जब आप लोगों को पुनः राज्य की प्राप्ति होगी तभी मैं इन से ब्याह करूंगा । किसी प्रकार समझा बुझा कर उनकी अनुमति से वह मदना को साथ ले कर वहां से खाना हुआ, तब रत्नचूड़ा रो पड़ी । उसने रुंधे हुए स्वर में कहा—स्वामिन् इधर आप पधारने का विचार कर के हमारे लिए दुस्सह विरह की आग भड़का ही रहे हैं, पर इन हमारी बड़ी वहीन मदन सुन्दरी जी को आप क्यों लिये जाते हैं ? हमारी हालत पर भी तो जरा गौर कीजिए । हम यहां इस वियोगी दशा में कैसे जीयेंगी ? उसकी प्रार्थना पर कुमार का हृदय पीघल गया । उनने

नर कल्याण को प्राप्त करता है । मर कर अन्धकार के गहरे गर्त में चला जाता है । दूसरी ओर शहर कीतवाल द्वारा गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति रस्सियों से बंधा हुआ खड़ा है ।

कुमार रथ से उतर पड़े । पास खड़े प्रधान से उनसे पूछा भाई क्या बात है ? उसने कहा महाभाग ! इस नगरी का नाम रूद्रपल्ली है । ये सामने खड़े हैं वे यहां के नरेश हैं । पास ही उनकी महारानी क्षेमवती खड़ी हैं । यह उन्हीं की राजकन्या दुर्बल और दुःखी हंसावली है । इसके आगे वह कुछ कह ही रहा था कि—राजा की दृष्टि रथ पर पड़ी । इतना सुन्दर रथ, और ऐसे प्रभावशाली कुमार को देखकर राजा को बड़ा भारी विस्मय हुआ । उनसे मन्त्रियों को एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को कुमार के पास भेजा । वे सब कुमार के पास पहुँचते हैं इतने में वहाँ आये हुए हरि वारहट के भाई अंगद भट्ट की दृष्टि कुमार पर पड़ी । वह बोल उठा—

कण्ठ उभयस्स रज्जं, पुत्ति कण्ठाउलीं च कण्ठउरे ।

बिलसइ सुरदिन्नं जो, नव लक्खवईस सिरिचंदो ॥

सिरिपव्वयग्गसिहरे, चंदप्पह-जिणस्स चेइयं जेण ।

कारवियं चउदारं, रम्मं सो जयउ सिरिचंदो ॥

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

जानकर यह कन्या अन्दर ही अन्दर दुःख पाती हुई आपके स्मरण में जीवन व्यतीत कर रही है ।

इधर कुण्डिनपुर के नरेश अरिमर्दन का पुत्र चन्द्रसेन हंसावली से विवाह करना चाहता था, इसीसे चन्द्रावली की प्रतीज्ञा और आपका विदेश गमन जानकर उसके मन में कुमति पैदा हुई । वह अपने नगर से निकल पड़ा । कनकपुर में पहुँच कर उसने आपको सारी स्थिति का अध्ययन किया । इसके बाद वह एक मनुष्य को साथ लेकर यहाँ आया । उसने अपना नाम श्रीचन्द्र रखा । उसके छल कपट का हम लोगों को कोई पता न चला । हम और कन्या उसको सचमुच श्रीचन्द्र समझ कर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उसने कपट जाल बिछा दिया । एक समय कनकपुर का व्यापारी हमारे यहाँ आया । उसने राजकुमार को पहिचान लिया । यह जानकर हम बड़े दुखी हुए कि श्रीचन्द्र के बदले में चन्द्रसेन ने हमें धोखा दिया है, हमारी पुत्री के दुख का तो क्या पूछना ? मन्त्री चिंतित हो उठे । विवाह विप हो गया ।

कुमारी हंसावली प्रायश्चित्त के लिए अग्नि में जलने को तैयार हुई । हमने बहुत रोका पर यह अपने आग्रह पर डटी रही । हमें अपनी अज्ञानता पर पश्चात्ताप हो

जल मरने का अकार्य मत करो । दुर्लभ मानव-भव वार नहीं मिलने का । आत्महत्या एक घोर पाप है । उसे करके अपने आप को क्यों कलंकित करती हो । चाहे मन से और वचन से वरण न किया हो पर पाणि-ग्रहण कर लेने पर वह निश्चित रूप से पति हो ही जाता है

सिंह-गमन सुपुरुष-वचन, कदली फले इक बार ।

तिरिया तेल हमीर-हठ, चढे न दूजी बार ॥

सज्जनों का वचन और स्त्रियों का व्याह एक बार ही होता है ।

हंसावली ने कहा—महापुरुष ! जो आप फरमाते हैं वह सच है । फिर भी आप सती स्त्रियों के कुल धर्म पर दृष्टि डालिए । स्त्री मन से जिसको अपना पति स्वीकार करलेती है वही उसका पति हो सकता है, दूसरा नहीं । मैंने आपके भ्रम में उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन अब घम के न रहने पर मैं उसे क्यों मानूँ मैं दृढता से उसका त्याग करती हूँ शास्त्रों में कहा भी गया है ।

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः ।

तथैवालिङ्ग्यते भार्या- तथैवलिङ्ग्यते स्वसा ॥

अर्थात्—मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है जिस प्रकार स्त्री का आलिङ्गन किया जाता है

वैसे ही वहन का भी किया जाता है, परन्तु मन वहन को वहन की दृष्टि से स्त्री को स्त्री की दृष्टि से जुदा कर देता है। मन से किया हुआ काम ही सब ठीक और शास्त्रीय माना जाना चाहिए। अतः मेरी आप से यही प्रार्थना है कि मेरे बिना मन से किये हुए कामों को व्यर्थ मान कर बिना किसी हिचकिचाहट के आप मुझे स्वीकार कर लें।

राजकन्या हंसावली के चतुराई भरे वचनों को सुनकर श्रीचन्द्रने कहा—राजकुमारी ! वास्तव में तुम सदाचारिणी हो। कांच और मणि का परिवर्तन निश्चय ही हो सकता है, परन्तु विवाहित स्त्री का विनिमय नहीं हो सकता। बुद्धि के भ्रम से दूध में डाला हुआ नमक क्या बदल सकता है ? कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार भ्रम से किया हुआ विवाह, विवाह ही रहता है। भ्रमसे विवाहित पति पत्नी, पति पत्नी ही रहते हैं। वैसी स्त्री को मैं पर स्त्री ही मानता हूँ, और पर स्त्री को अपनाते से घोर पाप लगता है।

हंसावली ने कहा देव ! यदि आप मुझे पराई स्त्री ही समझते हैं, तो आग में जल मरने के सिवाय में लिप्रे दूसरा क्या मार्ग हो सकता है ? मैंने तो मन उचक

से आपको ही अपना पति माना है, और मानती हूँ । छल-कपट से बने हुए पुरुष को पता लग जाने के बाद पति मानना मेरे लिये एक घोर अपराध है । मैं ऐसे पुरुष को पर पुरुष मानती हूँ और पर पुरुष से संबंध करना क्या घोर पाप नहीं है ?

वज्रलेप के समान राजकुमारी के ऐसे अमिट निश्चय को जानकर राजा श्रीचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए । सबके सामने उन्ने कुमारी की शील-दृढ़ता को सराहा । दण्डनीय और निरोध करने योग्य उस अपराधी चन्द्रसेन को दया करके राजा से छुटकारा दिलवा दिया । वे कहने लगे—

राजन् ! संसार की स्थिति ही ऐसी है । सभी प्राणी विषयों द्वारा सताये जाते हैं । वासना ही सब दुःखों की जड़ है । मन में जरासी शिथिलता आने पर वासना बढती ही जाती है, और मनुष्य को अपने स्थान से गिरा देती है । मदिरा मनुष्य को उन्मत्त बनाती है, पर वासना में उससे अनंत गुणी मादक शक्ति होती है । मदिरा एक जन्म तक ही काम करती है, और वासना अनंत जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती । वासना को सर्वथा जीतने वाले पुरुष जिन् भगवान् कहलाते हैं और वासना को जीतने का अभ्यास करने वाला जैन होता है । अनंते जन्म-जन्मा-

न्तर होने पर भी सच्चे जैनत्व के अभाव में हम संसार के दुःखों से मुक्त नहीं हुए हैं। सर्वथा वासना को जीतने वाले और वासना को जीतने का अभ्यास करने वाले महापुरुष सदा वंदनीय होते हैं। वह दिन धन्य, परम-धन्य होगा जब कि हम वासनाओं पर काबू कर लेंगे।

इस प्रकार जीवन को उन्नत बनाने वाले श्रीचन्द्र-राज के प्रवचन को सुनकर राजा, मंत्री, राजकन्या, आदि सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। चन्द्रसेन कुमार-श्रीचन्द्र के चरणों में गिरकर कहने लगा-स्वामिन् ! आपने मेरे प्राणों की तो रक्षा की ही है पर इससे भी बढकर वासना विजय-विवेक को समझाकर आपने मेरा परम उपकार भी किया है। आज से मुझे आप अपना एक छोटासा सेवक समझें।

इधर कुमारी हंसावली के ज्ञान-चक्षु भी खुल गये। उसके मनोभावों में सहसा परिवर्तन हो गया। उसका मुख-मण्डल ज्ञान की ज्योति से चमक उठा। वह हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहने लगी-देव ! पहिले तो आपने सौंदर्य, शौर्य, औदार्य आदि गुणों से मेरा मन हर लिया था, और आज इस प्रकार का अद्भुत ज्ञान सुनाकर, आपने मेरी रक्षा की है। आज से मैं आपको


अपना धर्म-गुरु मानती हूँ । अब मैं वासनाओं पर मरने वाली नहीं हूँ प्रत्युत वासनाओं का विजय करूंगी । आपकी दया से आज मैंने जैन धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ पाया है । आज से पूर्ण वीतरागी-श्रीजिन भगवान् को—देव, वीतराग भावमें स्मरण करने वाले को गुरु, और उन्हीं के बताये विधि विधानों को धर्म रूप मानूंगी छल कपट से हुए विवाह के बंधन को काटकर मैं अब जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारिणी रहूंगी । शील ही मेरे जीवन का आदर्श रहेगा ।

राजा श्रीचन्द्र ने कहा देवी ! तुम धन्य हो । तुम्हारे जैसी सती माताओं के कारण ही हमारा मस्तक गौरव से ऊँचा है । हमारा देश आर्य देश कहलाता है । तुम्हारे त्याग और तप की बराबरी कौन कर सकता है ? इस त्याग और तप को मैं वंदन करता हूँ ।

राजा वज्रसिंह और उनका परिवार राज कन्या हंसावली की वीर-प्रतिज्ञा को सुन कर बड़े प्रसन्न हुए । सारा वायु मण्डल ही आनन्दमय हो गया । राजा वज्रसिंह ने बड़े भारी समारोह के साथ कुमार को नगर प्रवेश कराया । यहां श्रीचन्द्र कुमार से प्रार्थना की कि कुमार ! हंसावली के मनोरथ तो दैव योग से सफल न हो सके,

पर हमारी एक प्रार्थना को आप सफल बनावे। हंसावली की छोटी बहीन चन्द्रावली विवाह के योग्य हो चुकी है, उसका पाणि ग्रहण कर के हमें कृतकृत्य करें।

हंसावली मदन सुन्दरी और राजा वज्रसिंह के विशेष आग्रह करने पर श्रीचन्द्र ने विवाह मंजूर किया। बड़े ठाठ के साथ विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन के लिए कुमार यहां ठहरे।



जीवन एक संग्राम है । इसमें कई दांव पेच खेलने होते हैं ! धीर और वीर पुरुष ही इसमें फतेह पा जाते हैं । संसार में हार और जीत दोनों साथ २ चलती हैं । चूके को चौरासी के गोते खाने पड़ते हैं । इसमें अनुकूल और प्रतिकूल ऐसे दो प्रकार के संघर्ष चलते हैं । विवेकी विजयी होता है, और अविवेकी का कचूसर निकल जाता है ।

राजा श्रीचन्द्र भी अपने जीवन संग्राम का ठीक ढंग से संचालन कर रहे थे । रुद्रपल्ली में राजा वज्रसिंह के यहां—सुसराल के स्वर्ग-सुखों को भोगते हुए उनसे एक रोज कनकपुर का ख्याल किया । राजा वज्रसिंह से बड़े आग्रह से आज्ञा लेकर रति और प्रीति के समान परम सौंदर्य शालिनी दोनों स्त्रियों को साथ लेकर कामदेव के

उत्साहित हो उठे हैं । जोश का एक नया तूफान उफन रहा है ।

यह सुनते ही राजा श्रीचन्द्र का शरीर वीर रस की साक्षात् मूर्ति हो गया । आंखे लाल हो गईं । भौंहें कमान की तरह तन गईं । शत्रुओं पर प्रहार करने वाली भुजायें फड़क उठीं । वह शीघ्रता से सब में वीरता के भाव भरता हुआ चन्द्रहास खड्ग को हाथ में लेकर सहस्र किरण सूर्य के समान अपनी सेना में प्रदीप्त हो उठा । राज राजेश्वर श्रीचन्द्र को वहां आये जानकर शत्रुओं के सिपाही कांप उठे । उनके हृदयों में खलवली मच गई । मुखमंडल निस्तेज हो गये । चेहरों पर मारे भय के हवा-इयां उड़ने लगीं । अब उन्होंने ने अपनी जीत की आशा को छोड़ दी ।

राजाधिराज श्रीचन्द्रने साम-दाम भेद और दण्ड की राजनीति में चतुर अपने दूत को गुणविभ्रम के पास भेजा, और कहलाया की तुम ने पहिले कनकपुर नरेश से जो दण्ड लिया है, उस को सौगुना कर के हमारे खजाने में जमा करा दो । अन्यथा लडने की पूरी तैयारी कर मोर्चे पर आजाओ ।

राजा गुणविभ्रम को दूतने महाराज श्रीचन्द्र का सन्देश सुना दिया । सुनते ही वह आग-बबूला हो गया ।

अंदर से बौखला कर उपर दृढ़ता दिखाते हुए उसने कहा—जा अपने उस छोकरे से कह देना कि तुम्हें युद्ध के मैदान में ही मैं जवाब दूंगा ।

दूत लौट आया । महाराज श्रीचन्द्र अपने सन्देश का जवाब सुन कर अपनी फौजों को मैदाने जंग में पहुँचाने का आदेश दे दिया । दोनों ओर से मजबूत मोर्चा लग गये । दोनों सेनायें अपने-अपने स्वामी की आज्ञा पाकर आपस में भीड़ गई । बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा । जयश्री कभी इधर और कभी उधर डोलती दिखाई देने लगी । राजा गुणविभ्रम ने मौका पाकर बाणों की भयंकर बौछार करके महाराज श्रीचन्द्र की सेना को तीतर पीत कर दिया ।

अपनी सेना के पैर उखड़ रहे हैं । राजा पद्मनाभ वज्रसिंह और लक्ष्मण मंत्री धिरे जा रहे हैं । यह सब देख कर राजाधिराज श्रीचन्द्र शीघ्रता से हाथी पर सवार हो गये । शत्रु के निकट पहुँच कर कहने लगे कि—महोदय ! अपनी कुशलता चाहते हो तो अब भी झुक जाओ, और यदि लड़ना ही है, तो आज्ञा पहिले वार कर दो ।

गुणविभ्रम ने कहा—कि अभी तू बच्चा है, युद्ध के मैदान से हट जा, यदि लौटने की इच्छा ही नहीं है, तो

ले अपना शस्त्र संभाल ले । यह कह कर उसने श्रीचन्द्र पर तलवार का प्रहार किया । राजाधिराज श्रीचन्द्र ने बड़ी कुर्ती से अपने चन्द्रहास से उसे बीचमें ही काट दिया । चन्द्रहास के सामने वह निस्तेज हो गया । श्रीचन्द्र ने गुण-विभ्रम को हाथी से गिरा दिया । सैनिकों ने उसे कस कर बांध लिया और एक लकड़ी के पींजड़े में उसे डाल दिया । बाकी के राजाओं को भी और उन की सारी सेना को हराकर हिरासत में ले लिया । सभी पराजित अधिकारी अपराधियों की भाँती श्रीचन्द्र के सामने हाथ बांधे खड़े थे । विजयश्री कुमार से और कुमार विजयश्री से-वर वधू के रूपमें एक दूसरे से शोभा पा रहे थे ।

कल्याण पुर में और उसके सातों देशों में अपने प्रियों को भेज कर श्रीचन्द्र ने अपनी आज्ञा प्रचलित करा दी । कनकपुर में उसके निवासियों ने विजयी महा-राज श्रीचन्द्रका नगर, हाट, मकान, मन्दिर, महल-राज-मार्ग आदि खूब सजाकर जय जय शब्दों से बड़े भारी समा-रोह के साथ स्वागत किया ।

कुछ समय वहां ठहर कर कुमार अपनी दोनों स्त्रियों और अधीन स्थ राजाओं के साथ मातृ दर्शन की कण्ठा से श्री पर्वत पर बसे हुए अपने श्री चन्द्रपुर नगर

श्रीचन्द्र ने अपने छोटे भाई को गोदी में लिया, गुण लक्षणों के अनुसार उसका एकांगवरवीर ऐसा नाम रखा। राजाओं के नाम पत्र लिखे गये। पत्र पाकर सभी राजा लोग श्रीचन्द्र की सेवा में आ उपस्थित हुए। कईयों ने कन्याएँ देकर, कईयों ने धन, रत्न, हाथी घोड़े आदि अपूर्व वस्तुएँ भेंट कर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। पद्मिनी चन्द्रकला वामांग, वरचन्द्र, सुधीराज और धनंजय ये लोग भी एक बड़ी भारी सेना के साथ वहाँ आ पहुँचे।

कुमार के वैभव को देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। महाराज श्रीचन्द्र ने भी वामांग को सचिव, धनंजय को सेनापति इस प्रकार उन सबको अलग २ यथायोग्य-पदों पर नियुक्त किये। रानी चन्द्रकला को महारानी बनाया। क्षत्रिय कुमार कुंजर को और मल्ल-भील को उचित शिदा के साथ वहीं श्रीपर्वत के रक्षाधिकारी कायम किये।

सारे परिवार के साथ श्रीचन्द्र ने भगवान श्रीजिनेश्वर-देव के मंदिर में वंदन पूजन किया। अष्टान्हिक महोत्सव कर के अपने सम्यग्दर्शन को निर्मल किया। निग्रथ पंचमहाव्रत-धारी त्यागी संयमी साधु गुरुओं की सेवा



विवाह किया। मदन सुंदरी के मुह से यहां सुवर्ण-
रूप आदि के वृत्तांत को सुनकर महारानी सूर्यवतीजी
द्रकलाजी आदि सब लोग बड़े विस्मित हुए।

वहां से भी राजा को, गुणवती रानी को, एवं स्वर्ण-
रूप को, साथ लिया। जंगल में जहां पर बड़ के पेड़ में
शिगृह छिपा हुआ था। वहां से सार वस्तुएँ ग्रहण की
जिन चूड़ के मृत्यु-स्थान पर आये। उसके दाह स्थान पर
क जिन मन्दिर बनवाया। वहाँ से कान्ती पुरीगये कान्ती
रेश नरसिंह ने बड़े उत्सव के साथ नगर प्रवेश कराया,
कान्ती के पास में ही बड़गाँव में गुणधर कलाचार्य रह
हे थे। श्रीचन्द्रने अपनी पत्नी सहित वहाँ जाकर गुरु
और गुरुपत्नी को नमस्कार किया और अपूर्व भेंट अर्पण
की। गुरु के पुत्रों, कुटुम्बियों और वाँधवों आदि का भी
था योग्य सत्कार किया। कलाचार्य ने भी अपने शिष्य
श्रीचन्द्रकुमार को भूरि भूरि अशीर्वाद दिये।

इसके बाद रानी प्रियंगुमंजरी और राजा नरसिंह
साथ वह हैमपुर को गये। वहां पर मदनपाल का
रता मकरध्वज राज्य करता था। मदनसुन्दरीने श्रीचंद्र
को अपना पति बनाया है यह सुनकर वे बहुत प्रसन्न
ए। उन दोनों के साथ फिर वहां से राजा श्रीचन्द्र चल-

कर कांपिल्य पुर आये । वहां पर बड़ी धूमधाम से उनका पुर प्रवेश हुआ । वहां पर उनने अपनी माता के आग्रह से कनकवती आदि चारों कन्याओं के साथ बड़ी सज्जन और धूमधाम से विवाह किया ।

वीणारव नामक गायक का भी नगर कहीं आस पास में ही था । जब उसने सुना कि महाराज श्रीचन्द्र कांपिल्यपुर में पधारे हुए हैं, तो वह भी वहां आ उपस्थित हुआ, उसने प्रसन्न हो कर महाराजा की प्रशंसा के कई आश्चर्य उत्पन्न करने वाले श्लोक पढ़े । जैसे—

बलगतुंगतुरंग-निष्ठुरतर-क्षुणा द्रणदमातले ।
निर्मिन्न द्विप-कुंभ मौक्तिककण-व्याजेन बीजावलि ॥
खड्गस्ते वपतिस्मर्कुण्डलपते ! लोक-त्रयीमण्डप-
प्राप्त प्रौढतमस्य कीर्तिलतिकागुल्मस्य निष्पत्तये ॥

अथात् हे कुण्डलेश्वर ! आपकी कीर्तिरूपी लता को पुष्पित बनाकर त्रिभुवन में फैलाने के लिये अपना घोंडा रणभूमि को खोद कर बीज बोने योग्य बनाना है और आपकी तलवार मदमस्त हाथियों के कुंभस्थलों को चीर कर उनमें से निकले हुए मुक्ता कणों को बीज के रूप में बोती है, तथा हताहतों से निकला हुआ रक्त उसकी सिंचाई करता है ।

श्रीचन्द्र ने प्रसन्न होकर उसको पाँचलाख के मूल्य का धन दिया । ओरों ने भी उसे यथा शक्ति इनाम देकर संतुष्ट किया । वह इनाम में पाये हुए सभी रत्न, सुवर्ण, आभूषणादि को लेकर श्रीचन्द्र की सराहना करता हुआ प्रसन्नता से अपने डेरे पर चला गया । रात्रि में चौर उसका सर्वस्व हरण करके ले गये । जब सुबह हुआ तो उसने अपने मालकी एक दम चोरी हो गई, देखी । घबड़ाते हुए उसने राज सभा में आकर श्रीचन्द्र से सारा हाल कह सुनाया । इस बात को सुनकर श्रीचन्द्र ने वहाँ के राजा जितशत्रु को उपालम्भ दिया ।

तब जितशत्रु ने महाराज से निवेदन किया कि स्वामिन् ! यहाँ पर तीन चौर हैं, और वे बहुत प्रयत्न करने पर भी पकड़े नहीं जा रहे हैं । उन्होंने इस नगर को चौरियां करके परेशान कर रक्खा है । यह उत्तर पाकर राजाधिराज श्रीचन्द्र ने वीणाशत्रु को पहले से द्वागुना धन दिया । वह भी प्रदत्त धन राशि को लेकर पहले की तरह अपने डेरे पर चला गया ।

इधर महाराज श्रीचन्द्र स्वयं गुटिका के प्रयोग से अदृश्य होकर रात्रि में नगर में इधर उधर घूमने लगे । आधी रात के समय उनने तीन मनुष्यों को कहीं देखा ।

गौर से देखने पर उनमें दो को तो अच्छी तरह पहचान लिया, मगर तीसरे को न पहचान सके। तब वे उनके काम देखने के विचार से वहीं रुक गये।

चौर आपस में विचार करने लगे। लोहखर ने कहा, यहाँ पर जो राजा आया है उसने गायक को कल से दुगुना धन दिया है सो चलो वहीं चलो।” तब वज्रजंघ बोला, “सुनो ! आगन्तुक राजा के पास एक सुवर्ण-पुरुष सुना जाता है, सो चलकर उसे ही क्यों न चुरा लिया जाय जिससे अपना जन्मजन्मान्तर का दारिद्र्य ही दूर हो जाय। तुम अवस्थापिनी विद्या के जानकार और तुम्हारा भाई धन की गंध का जानकार है। तुम्हारा भतीजा मैं एक बार सूँघे हुए धन की गंध मात्र से ही जान लेता हूँ।”

लोहखर ने उत्तर दिया, भाई ! यह राजा बड़ा भाग्यशाली, न्यायी और परोपकारी है इसलिये उसका कोई कुछ भी हरण नहीं कर सकता। अपना क्रिया हुआ उद्यम व्यर्थ जायगा। इस प्रकार सलाह करके लोहखर ने हाथ से कुछ धूल उठाई और उसे मंत्रित करके धीणारव के डेरे की ओर ऊपर की उछाल दी। फिर वे

तीनों उस गायक के डेरे की ओर चले । उस भर्म को जानने वाले श्रीचन्द्र भी उनके पीछे हो लिये ।

वाद में वे वहाँ जाकर गंधज्ञान से धन का अपहरण करके वापिस उसी जगह लौट आये और फिर वहाँ से नगर के बाहिर निकल गये । किसी एक मठ में पहुँचकर उन्होंने उसके पीछे की ओर एक बड़ी शिला को उखाड़ कर नीचे के भोंयरे में सब धन रख दिया । बाद में फिर उस शिला को उस पर रखकर उन्होंने वावाओं का वेश बनाया और उस मठ में आकर सो गये । श्रीचंद्र इस क्रिया को देखकर अपने स्थान पर लौट आये ।

इधर जब प्रातःकाल हुआ तो वीणारव जगा । उसको अपनी कुछ वस्तुएँ अस्त व्यस्त पड़ी मिलीं । उसको चोरी होने का सन्देह हुआ । ज्योंही उसने जाकर अपना कोटा सँभाला त्योंही वह चीख पड़ा । उसके हृदय में धिग्धी सी बंध गई । उसका सर्वस्व चुराया जा चुका था ! वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरने को ही था, कि साहस ने उसका साथ दिया । वह सम्हल गया । दौड़ता हुआ श्रीचन्द्र के पास आ पहुँचा । महाराज ! 'मेरा तो आज भी फिर सब कुछ चला गया' कहता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने भाग्य की निन्दा करने लगा ।



या सद्रूपविनाशिनी स्मृतिहरी पंचेन्द्रियाकर्षिणी ।
चक्षुः श्रोत्रललाटदैन्यकरणी वैराग्यमुत्पाटनी ॥
बन्धूनां त्यजनी विदेशगमनी चारित्रविध्वंसिनी ।
सेयं धावाति पंच-भूत-दमनी प्राणायहर्त्री क्षुधा ॥

अर्थात्-जो सुन्दर रूप को बिगाड़ने वाली, स्मरण शक्ति को नष्ट करने वाली, इन्द्रियों को मुर्झाने वाली, आँख कान और ललाट आदि को मलिन और निर्बल करने वाली वैराग्य उत्पन्न कराने वाली, बंधुओं का त्याग कराने वाली, परदेश में ले जाने वाली, चारित्र और सतीत्व को भंग करने वाली पांच-भूतों का दमन करने वाली और प्राणों का नाश करने वाली है वह भूख बढ़ी तेजी से पेट में खलबली मचा देती है ।

श्रीचन्द्रने संदेश लाने वाले सेवक को संकेत से ही समझा दिया कि आज बड़ी भारी मंत्रणा हो रही है अतः मैं आनेमें असमर्थ हूँ सो तुम जाकर माताजी से अर्ज करदो कि आप सब शीघ्र ही भोजन करलें । मेरेलिये तनिक भी इन्तजार न करें । मेरा रखा हुआ बीड़ा आज तक कभी निष्फल नहीं गया । इसलिये मैं जब तक यह मेरी प्रतिज्ञा पूरी न हो जायगी तब तक भोजन नहीं करूँगा । गुणचन्द्र ने कहा, “महाराज ! आपको ऐसे वचन

सहसा अपने मुख से नहीं निकालने चाहिये कारण कि मालूम यह चोरी कितने दिनों बाद जाकर पकड़ी जावे

यह सुनकर श्रीचन्द्र एक दम वहां से उठ खड़े हुए और उन राजाओं के साथ वगीचे में जाकर पैदल हवन विहार करते हुए उस मठ के पास जा पहुँचे। वहाँ पर उनने पांच छः योगियों के साथ पान खाये हुए उन तीनों चोरों को देखा। राजा श्रीचन्द्र ने मठ के सामने की चबूतरी पर बैठ कर उन सभी योगियों को अपने पास बुलाया। वे सब वहाँ से चले आये और आशीर्वाद देकर बैठ गये।

आप लोगों में कौन कौन योगी और कौन कौन भोगी हैं ? राजा ने पूछा राजन् ! हम लोग तो योगी और आप भोगी हैं। योगियों ने उत्तर दिया। तो कि यह पान की लालिमा आपके मुख में क्यों ? राजा ने कहा।

यह सुन उन तीनों का मुँह काला पड़ गया। महाराज का संकेत पा कर गुण चंद्र ने उन तीनों के हिरासत में लेलिया साथ के मनुष्यों ने हुकम पाकर उस मठ के पास की शिला को उठा कर दूर फेंक दिया उसके नीचे एक विशाल और अद्भुत भूगृह था, उसमें अर्पा

धन राशि भरी हुई थी। यह देख सभी श्रीचन्द्र के भाग्य, बुद्धि और परोपकारिता की प्रशंसा करने लगे।

इसके बाद श्रीचन्द्र ने उस चोरी के धन में जिस जिस का धन था उन सब को पहचान पहचान कर दे दिया। उन तीनों चोरों को राजा जितशत्रु के हवाले करके और बाकी बचे हुए धन को लेकर अपने निवासस्थान पर लौट आया।

इधर राजा जितशत्रु ने उन चोरों को खूब निर्दयता से पिटाया, परन्तु उन्होंने लेश मात्र भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अन्त में राजा ने उनके पास चोरी से सम्बन्ध रखने वाली कुछ वस्तुएँ और कुछ चिन्ह आदि देख कर उन्हें मृत्यु दण्ड की आज्ञा दे दी। सिपाही उन्हें लेकर वध्यभूमि में शूली के पास पहुँचे।

जब श्रीचन्द्र को इस बात का पता लगा तो उनने उन चोरों को वहाँ से अपने पास बुलाया, और पूछा, कि वताओ तुम लोग कौन हो ? और तुम्हारे क्या क्या नाम हैं ? इस पर उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब कुमार ने कहा, लोहखर ! क्या तुम मुझे नहीं जानते ? महेन्द्रपुर की सीमा में मैंने तुमको पुत्री समेत दया करके जिन्दा छोड़ दिया था। मैं अवस्वापिनी विद्या जानता हूँ।

क्या वह मुझे तुमने नहीं दी थी ? ” क्या तुम रत्न खर नहीं हो ? राजा ने दूसरे से पूछा । पहले खाये हुए आम के फल तुम्हें याद नहीं हैं ? अब जल्दी बताओ यह तीसरा कौन है और इसका क्या परिचय है ?

इतना सुनते ही वे तीनों उनके चरणों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ा कर माफी माँगने लगे । बादमें चोरों-ने अपना वक्तव्य शुरु किया, “राजन् ! लोहजंघ इस नामका एक बड़ा मशहूर चोर हो गया है । उसके तीन पुत्र हैं । एक रत्नखर, लोहखर, और वज्रखर । ये तीनों कभी कुण्डलपुर में, कभी महेन्द्रपुर में, कभी पहाड़ों में, कभी नदियों के किनारों की खोहों में निवास करते हैं । वज्रखर के पास तालोद्घाटनी विद्या थी परन्तु उसके मरने के बाद वही विद्या उसके पुत्र वज्रजंघ को प्राप्त हुई । रत्नखर को पिता ने अपना सब से छोटा पुत्र समझ कर अदृश्यगुटिका दी थी । लोहखर में हूँ ही । इस प्रकार मैंने आपके समक्ष हमारा सारा वास्तविक हाल कह सुनाया है, अब आज से आप ही हमारे स्वामी हैं ।”

महाराज श्रीचंद्र गुणी थे, गुणियों का आदर करते थे । उन्होंने विद्यागुण संपन्न उन चोरों को जीवन-दान किया । अपने सत्संग से उन को भी वीतरागमार्ग के अनु-

यायी बनाये । अपने प्रयाण में उन्हें भी साथ ले लिया । क्रमशः महेन्द्रपुर में पहुँच कर वहाँ की उस चौर गुफा से धन निकाल कर जिस का था उस को दे दिया । राजकुमारी सुलोचना के साथ बड़े ठाठ से व्याह भी कर लिया ।

प्रधान मंत्री गुणचंद्र को चौदह राजाओं के साथ कांपिन्व्य-पुरसे सेना आदि को लाने के लिये भेजा । साथ साथ चलने वाले श्रीलक्ष्मण, सुधीराज, सुंदर और बुद्धिसागर नाम के मंत्रियों ने आगे जाकर महाराजा प्रतापसिंह को वधाई दी । उन्होंने कहा कि महाराज ! आप के चिरंजीवी कुमार श्रीचंद्रजी अपनी माता भाई और रानियों के साथ आपकी सेवा में आ रहे हैं । महेन्द्रपुर से तिलकपुर, रत्नपुर, और सिंहपुर होते हुए यहाँ पहुँचेंगे ।

इधर से गुणचन्द्र ने कुमार से कहलाया देव ! आप के द्वारा छोड़ा हुआ गंध हाथी दूसरे के कावू में नहीं आ रहा । यह जान कर महाराज श्रीचन्द्र अकेले वहाँ पहुँचे । उनके प्यार भरे वीर-वर्ताव को देख कर हाथी पानी पानी हो गया ।

गजारूढ कुमार अपने मित्र गुणचन्द्र के साथ अपनी चन्द्रमुखी-चन्द्रलेखा आदि रानियों को एवं राजा वीर-

वर्मा के परिवार को लेकर महेन्द्रपुर लौट आये। वहाँ के राजा त्रिलोचन को साथ लेकर मार्ग में आने वाले राजाओं से आदर पाते हुए वे वसन्तपुर पहुँचे। वहाँ का राज्य वीरवर्मा को देकर वे कुछ दिन वहाँ ठहरे।

पत्रों द्वारा बुलाये हुए, और स्वेच्छा से आये हुए राजा लोग वहाँ एकत्रित हुए। श्रीचन्द्र राजमुकुट-कुण्डल-छत्र चामर आदि राज्य-चिन्हों से अलंकृत हो कर अपने उस गंधहाथी पर सवार हुए ऐरावत—स्थित इन्द्र के समान चलते हुए तिलकपुर पहुँचे।

तिलकपुर के राजा तिलकसेन ने कुमार का भारी स्वागत किया। इधर से पुत्र का आगमन सुन कर महाराजा प्रतापसिंह अपने भारी खवाजमे के साथ कुशस्थलपुर से निकल पडे। सेठ लक्ष्मीदत्त भी राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करके आठ व्यवहारीयों के कुटुम्ब के साथ सामान तैयार करने के लिये रत्नपुर में गया।

गुप्तचरों से पिताजी पधार रहे हैं, ऐसा जानकर श्री चन्द्रराज सारे दलवल के साथ पितृ—मिलन के लिये सामने आये दूरसे दोनों एक दूसरे के बाजों को सुनकर आनन्दित हुए। सेना की अग्रिम टुकड़ियों ने एक दूसरे के राज्य—ध्वजों के दर्शन किये। कुछ आगे बढ़ने

पर कुमार की दृष्टि महाराज प्रतापसिंह के हाथी पर पड़ी। कुमार अपनी सेना को पंक्तिबद्ध बनाकर पिता का फौजी स्वागत करने के लिये, आगे बढ़े। महाराज प्रतापसिंह हाथी से उतर पड़े। कुमार श्रीचन्द्र ने बड़े विनीत भावसे पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने बड़े प्यार से अपने वीर शिरोमणि बेटे को हृदय से लगा कर अनेकों हार्दिक भाव भरे आशीर्वाद दिये। दोनों फौजों का परस्पर में प्रेम स्वागत हुआ।

महाराज का संकेत पाकर सेवकों ने रत्नजडाउ सुवर्ण सिंहासन लगा दिया। क्षण भर में वह स्थान पारिवारिक सभा के रूप में परिणत हो गया। सिंहासन पर महाराजने अपनी गोदी में कुमार को बिठाकर असीम प्यार किया। महारानी सूर्यवती ने भी महाराज के दर्शन कर अपनी चिर-वियोग-व्यथा को शान्त की। सब की आंखोंमें हर्ष के आंसू थे। हृदय गद् गद् हो रहे थे। सारी बहुओं ने अपने सास ससुर को भक्ति भाव से प्रणाम किया सबने आशीर्वाद पाकर अपने को कृतार्थ माना। जंगल में मंगल हो गया।

विजित और संबन्धित राजाश्रीं ने अपनी इज्जत के अनुरूप महाराजा की भेटें की। सब का परिचय कराया

गया । लक्ष्मण और विसारद आदि मंत्रियों ने कनकपुर और कुण्डलपुर राज्यों की भेटें अर्पण की ।

कुमार श्रीचन्द्र ने अपना अपूर्व खड्ग, सुवर्णपुरुष, प्रारसमणि, और अनमोल रत्न, घोड़ों सहित सुवेग रथ गंधहाथी आदि सारी वस्तुएँ पिता के समक्ष हाजिर की ।

सासुओं ने सौतों ने सैन्धी आदि सखियों ने परस्पर में एक दूसरे को नमस्कार कर यथोचित रीतिरिवाज संपन्न किया । एक दूसरे के कुशल समाचारों से अवगत होकर महाराजा प्रतापसिंह ने कुमार मित्र गुणचन्द्र के मुह से श्रीचन्द्र के चरित्र को बड़े चाव से सुना । बहुत २ आनन्दित हुए । कुमार ने अपने छोटे भाई वीर की पिता की गोद में लिटा दिया । बाद में महाराज ने भी महारानी के वियोग की, अवधूत मिलन की बातें कह सुनाई । अवधूत का नाम लेते समय महाराज के हृदय में एक टीस सी चलती थी । उस ने मेरे प्राण बचाये, मैं कुछ नहीं कर सका इस बात का खेद जाहीर करने लगे ।

कुमार ने हँसते हुए कहा पिताजी आपकी दया से उसका सब जगह कल्याण ही कल्याण होगा । उस का भविष्य चमक उठेगा । आप उसकी चिंता न करें ।

वर्तमान की अवस्था प्रायः भूतकाल के कार्यकलापों पर अवलम्बित होती है। उन्हीं कार्य-कलापों से पैदा होने वाले सूक्ष्माति सूक्ष्मतम संस्कारों को हम भाग्य, दैव, विधि, कर्म, तकदीर और नशीब रूप से मानते हैं। उनमें जो शुभ होते हैं उन्हें पुण्य, और अशुभ होते हैं उन्हें पाप रूप मानने की परिपाटी चली आ रही है। पुण्य-पाप रूप कर्म आत्मा और जड द्रव्य दोनों के संबंध से हुआ करते हैं। दुःख, पाप-कर्मों का फल और सुख, पुण्य-कर्मों का फल माना जाता है। इन का नियंत्रण काल, स्वभाव, नियति, और पुरुषार्थ से हुआ करता है। इन्हीं को शास्त्रों में पांच समवाय नाम से बताया है। अच्छी और बुरी दोनों अवस्थाओं के कर्ता धर्ता हमारे

लिये हम खुद ही हैं। परमेश्वर खुदा या गोड़ नाम की कोई दूसरी महाशक्ति का इस के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता।

हमारा चरित्र-नायक कुमार श्रीचन्द्र भी अपने ही पुण्य-कर्मों से जीवन का विकास करता हुआ सुखी, और सम्पन्न हो गया था। अनुकूल काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत-कर्म और पुरुषार्थ के समवाय से ही कार्य सिद्धि हो सकती है। कुछ न होते हुए भी सब कुछ बन जाने का नाम ही तो कार्य सिद्धि है।

तिलकपुर की सीमा में महाराजाधिराज प्रतापसिंह को उनकी प्रियतमा महारानी सूर्यवतीजी अपने परम प्रतापी पुत्र कुमार श्रीचन्द्रराज के साथ मिली। पिता पुत्र के उस सुखदायी मिलन से सर्वत्र आनंद ही आनंद का अनुभव होने लगा। संबंधितव्यक्तियों को उन की यथा-योग्य सेवा का सिरोपाव दिया गया। जंगल में मंगल हो गया।

उधर तिलकपुर के राजा तिलकसेन राधावेध साधना के समय से कुमार श्रीचन्द्र को चाह रहे थे। आज उन्हें पता लगा कि वे कुमार ही अपने प्रतापी पिता महाराज

प्रतापसिंह के साथ अतर्कित रूप से हमारी सीमामें आ गये हैं। उल्लसित मन से उनने भी वहां पहुँच कर महाराज से तिलकपुर आने का निमंत्रण किया। उनके अनुरोध से महाराजा अपने चिरंजीवी के साथ बड़े भारी स्वागत समारोह से तिलकपुर में पधारे। तिलकसेन की राजकुमारी तिलक मंजरी ने श्रीचन्द्रराज के गले में वर-माला डाली। महाराजा प्रतापसिंह ने अपने पुत्र का विवाह बड़ी धूमधाम से किया।

इस प्रसंग में रत्नपुर से लक्ष्मीदत्त सेठ और लक्ष्मी-वती सेठानी भी वहां पर आये। कुमार ने उनको माता पिता के रूप में ही मान्यता प्रदान की। उन दोनों माताओं और पिताओं के एवं पुण्यशाली कुमार श्रीचन्द्र के हृदय में उस समय अनंत आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। उसी समय वहां कुमार के नानाजी दीपशिखा के अधिपति राजा दीपचंद्रदेव और सिंहपुर के स्वामी श्वसुर शुभगांग नरेश भी वहाँ आ पहुँचे। सब के मनोरथ सफल हो गये।

विवाह के बाद कुमार श्रीचन्द्रराज वहां से तिलक नरेश एवं अपने माता पिताओं के साथ रत्नपुर की ओर रवाना हुए। रास्ते में जहां पिता से प्रथम बार मिलन

हुआ था, वहां प्रियमेलक नाम का नगर बसाया । कुछ आगे बढ़कर समुद्र के किनारे पर अपने पिता महाराजा के नाम से प्रताप नगर बसाया । उन्हीं के नाम से सोने चांदी के सिक्के चलाये ।

इधर कर्कोटक द्वीप के स्वामी रविप्रभ का पुत्र कनकसेन अपनी कनकसेना आदि नव बहिनों के साथ समुद्र मार्ग से वहां आया । उसने महाराजा प्रतापसिंह से अपना परिचय देकर प्रार्थना की कि—देव उमा और खर्परा नाम की जो गणियों से गवाते हुए आपके प्रतापी कुमार श्री चन्द्र राज के गुणों से आकुष्ट हुई ये मेरी बहिने स्वयंवरा हो कर पिताकी आज्ञा से यहां आई हैं । हमारी इन बहिनों का विवाह यहां सम्पन्न होना चाहिये । महाराजा ने प्रसन्नता से अनुमति प्रदान की और वहीं उन कन्याओं के साथ श्रीचन्द्रराज का विवाह बड़े ठाठ से कर दिया ।

उस समय दहेज रूप में दश हजार हाथी, तीस हजार घोड़े, एक करोड़ पैदल सेना और अपरिमित सोना चांदी मणि रत्न आदि कर्कोटक द्वीप से लाई हुई सारी दहेज सामग्री कुमार को प्रदान की गई । अद्भुत गुण और सौन्दर्य शालिनी उन कन्याओं ने अपने सास स्वसुर

के पावां धोक दी । समस्त सामाजिक रीति रीवाज संपन्न हुए ।

वार्ता के प्रसंग में महाराजाने उस उपकारी अवधूत की चर्चा छेड़ दी । कुमार कुछ बहाने से बाहर जाकर अवधूत का वेश बनाकर आगया । महाराजा अवधूत को देख कर खुश होगये । धीरे २ अवधूत ने अपनी डाढी हटाई कुमार को पहिचान कर कहा कि अरे बेटा ! क्या अवधूत भी तुं ही है । तेरी लीला अपरंपार है । तब उसने सारी घटना का वर्णन किया । सुनकर सारा राजन्य परिवार और अन्तःपुर दांतों तले उंगली दवाने लगा ।

इस प्रकार नित नये विनोदों को करते हुए कुमार महाराज के साथ कुशस्थलपुर पधारे । पुरवासियों ने कुमार के सद्गुणों और सच्चरित्रों से प्रसन्न हो कर अनेक उत्सव समारोह किये । इस प्रकार कुशस्थलपुर में अमोद प्रमोदों का एक विशाल कार्य क्रम हो गया । महाराजाने एवं सारी राज-सभाने कुमार के अलौकिक चरित्र को गुणचंद्र के मुख से सुन कर ये सब पूर्वकृत पुण्य-कर्मों के ठाठ हैं, कहते हुए बडा आनन्द अनुभव किया ।

इधर भील्लराज मल्ल ने भी कुमार को प्रणाम किया उसे वामुतिका की रक्षा का अधिकारी बनाया गया ।

श्रीचंद्रराज का भारी लाड प्यार किया । रास्ते में पिताकी आज्ञा से कुमार ने राजा कनकदत्त की राजकन्या कुमारी रूपवती से व्याह किया ।

एक दिन कुमार ने अपने जीवन का सिंहावलोकन करते हुए अपने भाई जयकुमार आदि कुमारों के कैद की बात याद कर के अपने पिता से विनीतभाव से प्रार्थना की कि देव ! आप उन्हें अपराधों की माफ़ी देकर उदार-भाव से मुक्ति दीजिये । कुमार की प्रेरणा से महाराजा ने भी उन्हें छोड़ दिया । वे लोग पछताते हुए महाराजा और कुमार श्रीचन्द्र के पास गये । उनको कुमार ने योग्य पद प्रदान किया । इस प्रकार समय आनन्द से बीतने लगा ।



उनको आया देख रत्नवेगा आदि बहुत प्रसन्न हुई। रत्नवेगा ने उनके जाने के बाद जो जो घटनाएँ घटीं, और श्रीचंद्र आदि का जो आगमन हुआ वह सब उन्हें कह सुनाया। श्रीचंद्र का आगमन सुन कर उन को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि का पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। वे दोनों शीघ्र ही अपना विमान तैयार कर के वहां से उड़े और कुशस्थल के बाहर जहाँ पर श्रीचन्द्र का पड़ाव पड़ा था वहाँ पर आकाश से उतरने लगे।

आकाश से उतरते हुए और रत्नों की कान्ति से आकाश को देदीप्यमान करते हुए उन दोनों को देख कर श्रीचंद्र सभा में सहसा उठ खड़ा हुआ। नीचे उतर आने पर परस्पर में प्रणाम आदि की प्रथा के पूर्ण होने के बाद वे दोनों संकेत पाकर योग्य सिंहासनों पर बैठ गये। कुछ देर बाद उन्होंने अपने आगमन का प्रयोजन कुमार को कह सुनाया। कुमार ने विना किसी आनाकानी के उनकी प्रार्थना स्वीकार करली और अपने माता पिता, मित्र, सेठ, सेठानी, अधीनस्थ राजाओं और अपनी पत्नियों समेत विमान में बैठ कर आकाश मार्ग से पाताल नगर में पहुंचे वहां जाकर आवश्यक सामग्री तैयार करके वे उन दोनों विद्याधरों के साथ वैता-

और अज्ञान उसके पास तक नहीं फटकते। कभी कहीं पर भी उसकी पराजय नहीं होती। उसके लिये कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं होता। अतः अपने मनोरथों को पूर्ण करने-के लिये मनुष्यों को चाहिये, कि अपनी सामर्थ्यानुसार तप करें।

तपस्या से सभी प्राणियों को सब प्रकार की सम्पत्तियां मिलती हैं। सर्वत्र उनका आदर होता है, और अन्त में वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देखो ! श्रीचन्द्र को तपस्या के प्रभाव से कैसा अलौकिक लाभ हुआ, श्रीचन्द्र के विषय में श्रोताओं के पूछने पर उन्होंने उसके चरित्र की कुछ मोटी मोटी बातों पर प्रकाश डालते हुए कहना शुरु किया।

भरत क्षेत्र में कुशस्थल नामका एक बड़ा रमणीय नगर है। वहां पर प्रतापसिंह नामके एक प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा राज्य करते हैं। उनकी सहारानी सूर्यवती के गर्भ से श्रीचन्द्र का जन्म हुआ है। उसकी माता ने अपने सौतेले पुत्रों के भय से अपने उस नव जात शिशु श्रीचन्द्र-को राजकीय उद्यान में एक शुष्कपुष्पपुंज के भीतर छिपा कर त्याग दिया था। कुल देवी का आदेश पाकर लक्ष्मीदत्त नाम का एक सेठ उद्यान में जाकर आभूषण

और मुद्रा से विभूषित उस श्रीचन्द्र को अपने घर ले आया। पति-पत्नी-ने मिल कर बड़ी धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया। वह लक्ष्मीवती की गौदी में शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगा।

इधर महारानी सूर्यवती को नवजात पुत्र के विरह में अतीव व्याकुल देख, राज्य की कुल-देवी ने रात्रि में आकर यह आश्वासन दिया कि भद्रे ! दुःखी मत हो तुम्हारा पुत्र श्रीचन्द्र तुम्हें बारह वर्ष बाद मिल जायगा।

इस प्रकार प्रारम्भ से लेकर पितृमिलन तक उन्होंने उसका सारा चरित्र कह सुनाया। इसके बाद उन्होंने सुग्रीव को सम्बोधित करते हुए कहा, राजन् ! देखो ! यह वही श्रीचन्द्र तुम्हारे सामने विद्यमान है जिसका उज्ज्वल चरित्र मैं तुम्हारे सामने अभी कह रहा था। महाराज प्रतापसिंह, महारानी सूर्यवती, रानी चन्द्रकला और गुणचन्द्र आदि सारा परिवार यहां पर मौजूद है। यह सुन कर वहां पर उपस्थित सारी जनता ने एक साथ श्री चन्द्र को धन्य २ कहा।

बाद में कुमार श्री चन्द्र ने भी आचार्य महाराज से बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा कि महाराज ! मैंने पूर्व-भव में जिनेश्वर भगवान् द्वारा बतलाया हुआ ऐसा कौन सा

पुण्य किया था ? जिससे मुझे ये सब देवताओं से भी बढ़ कर सुख सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं । उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हुए आचार्य देव ने फरमाया ।

पुण्यात्मन् ! तुमने अपने पूर्व भव में ऐरवत नामक क्षेत्र में विधि पूर्वक आयम्बिल-वर्धमान तप किया था यह सारा ऐश्वर्य उसी तप के प्रभाव से तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पूर्व-भव की कथा इस प्रकार है—

ऐरवत क्षेत्र के चृंहण नामके नगर में जयदेव नामके राजा राज्य करते थे । उनकी रानी का नाम जयादेवी था । बहुत से देवी और देवताओं को मनाने के बाद उनके नरदेव नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । जब वह शिक्षा पाने योग्य हुआ तो राजा ने शुभ मूर्त में उसी नगर के एक ख्यातनामा विद्वान् के पास विद्याभ्यास करने के लिये उसे रख दिया ।

जयदेव राजा के वर्द्धमान नामका एक धनवान सेठ अमिन्नहृदयी मित्र था । उसके बल्लभादेवी नामकी पत्नी थी । उनके चंदन नामका एक पुत्र हुआ जिसे देख कर सेठ दम्पती माता-पिता ने पढ़ने लिखने योग्य हुआ समझ उसे उसी विद्वान् के पास पठनार्थ भेज दिया ।

पूर्व--कर्मों के उदय से छह महीनों के बाद ही चन्दन को अपने आदमियों के साथ विदेश जाना पड़ा। वह पाँच व्यापारी जहाजों को लेकर रत्न-द्वीप में गया वहाँ पर उसे खूब लाभ हुआ। वहाँ से कोणपुर की ओर लौटते हुए वह और उसके जहाज तूफान के कारण संकट में पड़ गये। एक बहुत बड़ा जहाज टूटफूट गया, और बाकी के अलग २ हो कर कहीं के कहीं चले गये। दैवयोग से चंदन का जहाज शर्वरमंदिर नामके बंदरगाह पर आ लगा। वहाँ पर उस जहाज को मोतियों से भर कर वह घूमता घामता चारह वर्षोंसे कोणपुर के तट पर जा पहुँचा।

इधर जहाज के टूटफूट जाने पर जो लोग लकड़ी के लट्टों की सहायता से पहले ही बृहणपुर में आ पहुँचे थे। उन्होंने चंदन सेठ के जहाज डूबने के समाचार लोगों से कह दिये, ऐसे दर्द और शोक भरे समाचार सुनकर चंदन के पिता, उसके मित्र, और अशोक श्री आदि बहुत दुःखी हुए। उन्होंने कई कोसों तक के समुद्री किनारे को छान मारा परन्तु चंदन का कहीं पता न चला। आखिर छः सात साल के बाद लोकापवाद से अशोकश्री-चंदन स्त्री ने

अशोकश्री और अन्य पुरवासियों के साथ उनके दर्शनार्थ गया। वहाँ जाकर सब के साथ गुरुमहाराज को नमस्कार करके उचित स्थान पर बैठ गया। गुरुदेव ने धर्मलाभ का अशीर्वाद देकर धर्मोपदेश देना शुरू किया।

तक्रादिव नवनीतं, पंकादिवपद्म ममृतमिवजलवेः ।

मुक्ताफलमिव वंशाद्धर्मः सारं मनुष्यभवात् ॥ १ ॥

अर्थात् जिस प्रकार छाछ का सार मक्खन कीचड़ का सार कमल, समुद्र का सार अमृत, चाँस का सारमोती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जन्म का सार धर्म है। अतः हे भव्यात्माओं ! हर तरह से धर्म का पालन करते रहो। यही तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा।

उपदेश के समाप्त होने पर राजा ने हाथ जोड़ कर आचार्यदेव से पूछा कि भगवन् ! किस कर्म के प्रभाव से अशोकश्री को पति का वियोग और संयोग हुआ ? इस प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव ने कहा कि :-

राजन् ! प्राणी अपने ही द्वारा किये गये शुभाशुभ-कर्मों के कारण सुख दुःख भोगते हैं। उनके लिये कोई दूसरा कर्म नहीं बाँधता।

आचार्य महाराज ने फरमाया । “भव्यात्मन् ! यदि तू अपने सम्पूर्ण कर्मों का नाश चाहता है तो जिनेश्वर भगवान द्वारा बताये हुए तत्त्वों को सुन । अपने पापों के क्षय के लिये शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार आयम्बिल वर्धमान तप कर । ऐसा करने से तेरे सारे निकाचित दुष्कर्म भी नष्ट हो जावेंगे ।

गुरुदेव के कथनानुसार चंदन ने अपनी स्त्री के साथ उस तप को करना प्रारम्भ किया । उसकी देखा देखी उसके कुटुम्बियों ने, पड़ोसियों ने और और भी कई स्त्री पुरुषों ने इस तप को करना शुरू किया । दही, दूध, घृत और पक्वान्न आदि खाने योग्य स्वाष्टि पदार्थों से भरे पूरे घर में रहते हुए भी वे दोनों उस तप में इतने तत्पर हुए कि कोई भी उन्हें उस तप से विचलित करने में समर्थ नहीं हुआ । उसके मित्र नरदेव ने उनके तप की प्रशंसा की परन्तु उसने उनके दत्तौन बगैरह न करने पर अपने दिल में कुछ घृणा प्रकट कर नीचगोत्र का कर्म बांधा । तप समाप्त होने पर उन्होंने विस्तार पूर्वक उद्यापन आदि किये और सप्त क्षेत्रों का भी पोषण किया ।

तदनन्तर पंचत्व को प्राप्त हो कर अच्युत देवलोक में चंदनसेठ इन्द्र हुआ और अशोकश्री सामानिक देव हुई । अच्युतेन्द्र



इसके बाद विद्याधरेन्द्र सुग्रीव की पुत्री रत्नवती ने भी अपने पूर्वजन्म की स्मृति के योग से परम प्रतापी श्रीचन्द्र-को अपना पति स्वीकार किया उसी समय श्रीचन्द्रने वहाँ गुरु देव के सामने रत्नचूड़ की हत्या प्रकट करके रत्नवेग आदि से क्षमा माँगी । सुग्रीव और मणिचूड़ दोनों को आपस में एक दूसरे से क्षमा मँगवा कर उनमें मैत्री करवा दी । फिर उन दोनों के साथ वह धूमधाम से मणिभूषण नगर में प्रविष्ट हुआ । वहाँ पर दक्षिण और उत्तर श्रेणि के विद्याधर राजा अपनी अपनी कन्याओं और रत्नादिकों की भेंट लाये । श्रीचन्द्र ने उनको यथायोग्य सन्मानित किया ।

तदनन्तर रत्नवती रत्नचूड़ा मणिचूलिका और रत्नकांता आदि विद्याधरों की दूसरी पुत्रियों के साथ भी कुमार ने विवाह किया । उनके दहेज में उसको बहुत सी अमूल्य वस्तुएँ और आकाशगामिनी आदि विद्याएँ प्राप्त हुई । फिर सुग्रीव आदि एक सौ दश विद्याधर नरेशों ने मिल कर बड़े भारी उत्साह से बल और भाग्य में सर्व श्रेष्ठ श्रीचन्द्र को विधिपूर्वक विद्याधरों का चक्रवर्ती बनाया । बाद में उसने बड़े प्रेम और ठाटवाट से सिद्धाचल तीर्थराज की यात्रा की फिर माता-पिता, स्त्री, मित्र और विद्याधरों के साथ चक्री श्रीचन्द्र ने वैताड्य पर बसे हुए सभी नगरों का निरीक्षण किया ।



सूर्य के प्रकाश ने अपनी लम्बी २ भुजाओं से अन्धकार को गर्दनियाँ दे दी हैं। कमल खिल उठे हैं। भौरे गूँजते हुए प्रसन्नता की सुरीली तान छेड़ रहे हैं। कुशस्थल की प्रकृति में कुमार श्रीचन्द्र की पधरावणी से एक अलौकिक आलोक के दर्शन हो रहे हैं।

राज-प्रासाद सुन्दर ढंग से सज रहे हैं। जगह २ तोरण वन्दनवारों लहरा रही हैं। स्थान २ पर कुंकुम बिखर रहा है। नगर के मुख्य २ चौराहों पर दरवाजे बन रहे हैं। उन पर रंग विरंगे वस्त्रों की सोना चांदी के वरतनों की, हीरे पत्ते मणिरत्नों की, केले के थम्भों की और पांच-वर्ण के फूलों की सुन्दर सजावट हो रही है। सच्चे मोतियों की झालरियाँ, पुष्पमालायें, मकानों के

दरवाजों पर खिडकियों पर लटक रही हैं। चारों ओर धूपदानों में दशांग धूप की लपटें उठ रही हैं। गुलाबजल के छिड़काव हो रहे हैं। जात २ के अतरों की मधु महक दिल और दिमाग को तरोताजा कर रही है बहुमूल्य जरकशी वस्त्रों के वितान बंधे हुए हैं। फर्शों पर मखमली कालीनें बिछी हुई हैं।

उसी प्रसंग में ठोर ठोर गाना बजाना और नृत्य बंठा ठाठ लग रहे थे। पुरनारियाँ मंगल गीत आलाप रहीं थीं। सुंदर बहुमूल्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित स्त्री पुरु मूर्तिमान पुण्य स्वरूप कुमार श्रीचंद्र के दर्शन करने के खुशी में इधर उधर घूम रहे थे।

इतने में तोप के धमाके होने शुरु हुए। दूर २ से इकट्ठे हुए नागरिक राजमार्ग के दोनों ओर जमा हो गये। जिनके मकान राजमार्ग के दोनों ओर थे उनकी तो खूब बन पडी। किनारे के पेड़ मकान उनके छज्जे चबूतरे कपोतपालिकाएँ दर्शकों की भीड़ से भरचक भ गई थीं। उस समय का दृश्य रंग विरंगे फूलों से भरे एक विशाल उद्यान के समान प्रतीत होता था।

शुभ बडि आगई। कुमार श्रीचन्द्र बडी धूमधाम से नगर में प्रविष्ट हुए। किले पर सलामी की तोपें दगने

लगीं । कवि, वन्दि, चारण, भाट आदि लोग उनकी यशो-गाथायें गाने लगे । सवारी राजमार्ग को शनैः शनैः पार करती हुई दुर्ग के सिंह-द्वार पर जा पहुँची । मार्ग में लोगों ने फूल वर्षाये । कन्याओं ने पीले चावल उछाले राज मार्ग फूलों से पट गये । स्थान २ पर सधवा-स्त्रियों ने सच्चे मोतियों के स्वस्तिकों से वधा २ कर कुमार का स्वागत किया ।

दरवार में पहुँच कर कुमार ने कवियों, चारणों, विद्वानों को मनचाहा दान दिया । दरवारियों ने नागरिकों ने अपने कुमार की भेटें की । महाराज प्रतापसिंह और महारानी सूर्यवती के सौभाग्य में चार चांद लग गये ।

महाराजा प्रतापसिंह रत्नजटित स्वर्णसिंहासन पर जा विराजे । श्रीचन्द्रराज भी उन्हीं के श्रीचरणों में सिंहासनासीन हुए । उस समय विद्याधर-राजाओं से, राजाओं से और दरवारियों से विराजित वह राज-सभा इन्द्रसभा का तिरस्कार कर रही थी ।

उसी समय कुण्डनपुर के राजा अरिमर्दन एक बंदरिया को लेकर वहाँ आये । राजा के साथ बंदरी को देख सारी सभा चकित हो गई ? राजा अरिमर्दन ने बड़े विनीत भाव से कहना शुरू किया कि—

इस प्रकार सभी स्नेही-साथी—सखा और सेवक वहां आये, और अपना २ परिचय देकर महाराज द्वारा संमानित सत्कारित हुए । सारे कुशस्थल में प्रसन्नता का वातावरण छा गया ।

कुमार श्रीचंद्रराज ने अपने भुजबल भाग्य-बल और बुद्धिबल से सहज में ही समुद्र पर्यंत तीन खण्ड पृथ्वी-का साम्राज्य संप्राप्त किया । सोलह हजार देशों के स्वामियोंने अधीनता स्वीकार की । रथ हाथी घोड़े और सैनिकों की अपरिमित संख्यासे अर्धचक्री के जैसे प्रभुता-सम्पन्न श्रीचंद्रराज की सर्वत्र जयजयकार होने लगी ।

महाराजा प्रतापसिंह ने मौका देखकर शुभ दिन के, शुभ मुहूर्त में शास्त्रोक्त विधि से कुमार का अपूर्व और अवर्णनीय ढंग से महामहोत्सव पूर्वक राज्याभिषेक किया । सभी बड़े २ राजा महाराजा विद्याधर सामन्त मंत्री सेठ सेनापति आदि उस समय उपस्थित थे । कुमार श्रीचन्द्र एक छत्रधारी राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित हुए । चन्द्रकला को प्रधान--राजमहिषी का पद प्राप्त आ । कनकावली—पद्मश्री-मदनसुंदरी-प्रियंगुमंजरी-रत्नचूला-रत्नवती-मणिचूला--तारलोचना--गुणावली--चन्द्रमुखी--चन्द्रलोखा--तिलकमंजरी-कनकावती-कनकसेना सुलोचना और सरस्वती ये सोलह पट्टरानियां बनाई गईं ।

त साधु-साध्वियों को वंदन कर के श्रीचन्द्रराज आदि अपने २ घरों को लौट आये । श्रीसुव्रताचार्य महाराज भी अपने परिवार के साथ अन्यत्र विहार कर गये ।

राजाधिराज श्रीचन्द्र का राज्य मानों धर्म का साम्राज्य था । सब को अपने २ धर्मपालन में स्वतंत्रता थी । सब के प्रति उनका समान प्रेम था । शासन की प्रभावना, अभिवृद्धि और धर्म के साथ प्रशस्त कर्मों का प्रचार उनका जीवनोद्देश्य था ।

राजर्षि-प्रताप, महर्षि-लक्ष्मीदत्त, महत्तरा-सूर्यवती, साध्वी लक्ष्मीवती आदि सब उत्कृष्ट चारित्र्य पालन कर के अन्तिम अनशन से स्वर्गवासी हो एकावतारी हुए । उनके देहोत्सर्ग-स्थान पर बड़े २ स्तूपों की रचना की गई । पूजा का प्रबंध किया गया । राजा और रानियों ने बड़ी २ रथ यात्रायें निकलवाईं । उनके सोलह सौ पुत्र-पुत्रियाँ हुईं । सतरह पुत्र बड़े प्रसिद्ध हुए ।

बारह वर्ष तक कुमार पद में समस्त कलाओं में कुशल हुए । सौ वर्ष तक एकछत्र साम्राज्य का भोग किया । सारी प्रजा को सुखी किया । पारसमणि और सुवर्ण पुरुष के योग से उनसे स्थान २ पर दानशालायें

४१

जड़ और चेतन ये दोनों अनादि तत्त्व हैं। इन दोनों-के मिश्रण का नाम ही संसार है। संसार में चार गतियां हैं। नरक-गति और तिर्यंच-गति पाप से प्राप्त होने वाली दुर्गति कही जाती हैं, तो मनुष्य गति और देव गति पुण्य से प्राप्त होती हैं। मनुष्य गति में सम्यग्दर्शन समग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र की साधना से जड़ और चेतन में भेद पैदा हो जाता है। कर्मों के अभाव में चेतन सच्चिदानन्द रूप होकर आत्यन्तिक और एकान्तिक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

आचार्य श्री धर्मघोष उसी एकान्तिक और आत्यन्तिक मोक्ष के लक्ष्य को अपनाते हुए जनता में उसका प्रचार भी करते हैं। अपने साधु-परिवार के साथ एक दिन कुशस्थल के बाहरी उद्यान में उनका समयसरण हुआ।

के परिणाम से द्वादशांगी के वेत्ता होकर श्रीचन्द्र राज-
 ऋषि आठ वर्ष तक छद्मस्थ भाव में विचरते हुए, ज्ञाना-
 वरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन
 चारों घनघाती कर्मों को खपा कर निर्मल अनन्त केवल
 ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त हुए । लोकालोक के त्रैकालिक
 भावों को संपूर्ण रूपसे जानने देखने लगे ।

उनके केवल ज्ञान का उत्सव राजाओं ने सुरासुरों-
 ने बड़ी धूमधाम से मनाया राजर्षि श्रीचन्द्र केवली होकर
 गामानुगाम विचरते हुए लोगों को धर्म-मार्ग के अनु-
 यायी बनाये । नव्वे हजार करीब नर-नारियों को दीक्षा
 देकर महाव्रतधारी साधु साध्वी बनाये । सम्यक्त्व अणुव्रत
 आदि नियमों को दिलाकर उनने गृहस्थों को अणुव्रती-
 श्रावक संघ में सम्मिलित किया । गुणचन्द्र आदि साधुओं
 को एवं चन्द्रकला कमलश्री आदि साध्वियों को भी केवल
 ज्ञान हुआ ।

इस प्रकार पैंतीस वर्षों तक भव्यात्माओं को बोध
 देते हुए श्रीचन्द्र केवली एकसौ पचपन वर्ष की पूर्णायु
 को भोगकर अक्षय-मोक्षपद को प्राप्त हुए । इसी बात
 को शास्त्रकारों ने इस प्रकार कही है—

साहिय वास सयं जो, तिल्लंड-निव-सय-सेविय मयकमलो ।
 एगच्छत्तं रज्जं, पालइ इन्दुव्व सिरिचंदो ।

गणधर श्रीगौतम स्वामीजी गणतंत्र के अध्यक्ष महाराजा चेटक प्रमुख श्रोताओं को लक्ष्य कर फरमाते हैं कि—

सेणिय-निवस्स भणियं, रायगिहे भगवया परम-गुरुणा ।

जह सिरिचंदचरित्तं, तह कहियं रायवर ! तुज्झ ॥

अर्थात्—राजगृह नगरमें परम गुरु भगवान श्री महावीरस्वामी ने राजा श्रेणिक को श्रीचन्द्र चरित्र फरमाया वैसे ही हेमहाराज चेटक ! आपको मैंने कथा रूप से कह सुनाया है ।

गणधर श्रीगौतमस्वामी के श्रीमुख से श्रीचन्द्र के चारु चरित्र को सुनकर राजा चेटक बड़े प्रभावित हुए और तपोधर्म की साधना के लिये दृढ-संकल्प किया ।

महाज्ञानी श्रीसिद्धि महाराज आदि पूर्वाचार्य प्रणीत प्राकृत संस्कृत भाषा निबद्ध श्रीचन्द्र चरित्र के आधार से आचाम्ल बद्धमान तप की महिमा को बताने वाला श्रीचन्द्र केवली चरित्र श्री परमगुरु की परमदया से हिन्दी में लिखने का प्रयास किया है । इसमें कुछ कमी की गई हो अथ च प्रसंगवश कहीं अधिकता आ गई हो तो—

